

* ओ३म् *

अथ संस्कारविधिः

वेदानुकूलैर्गर्भाधानाद्यन्त्योष्टिपर्यन्तैः षोडशसंस्कारैः
समन्वितः

आर्य्यभाषया प्रकटीकृतः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमद्दयानन्द-
सरस्वतीस्वामिना निर्मितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः
अस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारिण्या सभया
प्राधीन एव रक्षितः ।

अजमेर नगरे

दृष्ट-यन्त्रालये मुद्रितः

न स नन्दजन्माब्द १२५
उसका १०००० हत के सुत्रों १००६ वि० { मूल्य ॥३= }
धर्म नहीं होती
पय विद्वान्

संस्कारविधेर्विषयसूचीपत्रम्

विषय	पृष्ठ से पृष्ठ तक	विषय	पृष्ठ से पृष्ठ तक
भूमिका	क-ख	गर्भाधानस्य प्रमाणम्	२६-३१
ग्रन्थारम्भः	१-२	ऋतुदानकालादि	३२-४६
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपा०	२-६	पुंसवनम्	४६-५०
स्वस्तिवाचनम्	६-१०	सीमन्तोन्नयनम्	५१-६१
शान्तिप्रकरणम्	१०-१३	जातकर्मसंस्कारः	६१-६५
सामान्यप्रकरणम्	१३-२८	नामकरणम्	६६-६८
यज्ञकुरणपरिमाणम्	१४-१५	निष्क्रमणसंस्कारः	६८-७१
यज्ञसमिधः	१५	अन्नप्राशनसंस्कारः	७१-७६
होमद्रव्यं चतुर्विधम्	१५	चूडाकर्मसंस्कारः	७६-७७
स्थालीपाकः	१५-१६	कर्णवेधसंस्कारः	७७-८५
यज्ञपात्रलक्षणानि	१६-१८	उपनयनसंस्कारः	८५-११४
यज्ञपात्राकृतयः	१८-१९	वेदारम्भसंस्कारः	६१-६८
ऋत्विग्वरणम्	२०	ब्रह्मकर्तव्योपदेशः	६८-१०४
आचमनम्	२०-२१	ब्रह्मचर्यकालः	१०४-११४
मार्जनम्	२१	पुनर्ब्रह्मचर्ये कर्तव्यं	११४-१२१
अग्न्याधानम्	२१-२२	समावर्तनसंस्कारः	१२१-१७७
समिदाधानम्	२२-२३	विवाहसंस्कारः	१७७-२४७
वेदीमार्जनम्	२३	गृहाश्रमसंस्कारः	१७७-२०७
आघारावाज्यभागाहुतयः	२४	गृहस्थोपदेशः	२०७-२१५
व्याहृत्याहुतयः	२४	पञ्चमहायज्ञाः	२१५-२२२
संस्कारचतुष्टये चतस्रो	२५	शालानिर्माणविधिः	२२२-२२६
मुख्याऽऽहुतयः	२६-२७	वस्तुप्रतिष्ठा	२२६-२४७
अष्टाज्याहुतयः	२७	गृहाश्रमे कर्तव्यविधौ	२४७-२५४
पूर्णाहुतिः	२७-२८	वानप्रस्थाश्रमसंस्कारः	२५४-२८६
महावामदेव्यगातम्	२८-४५	संन्यासाश्रमसंस्कारः	२८६-३१०
गर्भाधानम्	२८-४५	अन्त्येष्टिकर्मविधिः	३१०-३१०

भूमिका

सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनु-
मोद करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत् ११३२ कार्तिक
कृष्णपक्ष ३० शनिवार के दिन संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया था।
उसमें संस्कृतपाठ एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा था, इस कारण
संस्कार करनेवाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर २ होने से, कठिनता
पड़ती थी। और जो १००० (एक हजार) पुस्तकें छपी थीं—उनमें से
अब एक भी नहीं रही। इसलिये श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्
११४० आषाढ़ बदी १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने
के लिये विचार किया।

अब की वार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और
प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूर्व लिखा जायगा, तत्पश्चात् जो २ संस्कार
में कर्त्तव्य विधि है उस २ को क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष
विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिये लिखा है। और जो २
विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड़
भी दिया है। और अब की वार जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय है वह २
अधिक भी लिखा है।

इसमें यह न समझा जावे कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त
छूट गया था, उसका संशोधन किया है, किन्तु उन विषयों का यथावत्
क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था। उसमें सब लोगों की
बुद्धि कृतकार्य नहीं होती थी, इसलिये अब सुगम कर दिया है, क्योंकि
संस्कृतस्थ विषय विद्वान् लोग समझ सकते थे, साधारण नहीं।

इसमें सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये, वह प्रथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया है, और जो २ मंत्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उस २ कर्त्तव्य संस्कार में लिखी है कि जिसको देखके सामान्यविधि की क्रिया वहाँ सुगमता से कर सकें। और सामान्यप्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरण में लिख दिया है, अर्थात् वहाँ का विधि करके संस्कार का कर्त्तव्यकर्म करे।

और जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा है, वह एक स्थान से अनेक स्थानों में अनेक बार करना होगा। जैसे अन्याधान प्रत्येक संस्कारों में कर्त्तव्य है, वैसे वह सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में बारम्बार न लिखना पड़ेगा।

इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पुनः स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ, तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात् गर्भोधानादि अन्येष्टि पर्यन्त सोबह संस्कार क्रमशः लिखे हैं। और यहां सब मन्त्रों का अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कर्मकाण्ड का विधान है, इसलिये विशेष कर क्रियाविधान लिखा है। और जहां २ अर्थ करना आवश्यक है वहां २ अर्थ भी कर दिया है। और मंत्रों के यथार्थ अर्थ मेरे किये वेदभाष्य में लिखे ही हैं, जो देखना चाहे वहां से देख लें। यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है, जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं। इसलिये संस्कारों को करना सब मनुष्यों को अति उचित है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती

इति भूमिका ॥

ॐ ह्रीं नमः

नमो नमः मर्यादिव्यं जगदीश्वरम् ।

अथ संस्कारविधिं वक्ष्यामः

— १११ —

सो मूढ नीरक्तु । मूढ नी हुनद् । मूढ भूतर्षे मर्यादो । मेलनि-
नार्षेतिमन्तु । मा विद्विषत्तरे । शो जातिः जातिः जातिः ॥

तन्निर्वाह आर्यपते । सप्तमपराहः । अथानुवाकः

मत्तोमा नतिदानन्दी दिनगतिनिषजद्विष्टः ।

भूयाजमां मशयो नम्योर्गो न्यायकन्द्विष्टः ॥ १ ॥

गर्भाया मृन्मुपमन्नाः मर्यादाः संलभेद रि ।

वदयन्ते तं नमस्कृत्यानन्निधिं पंथमम् ॥ २ ॥

वेदादिशास्त्रमिद्वान्नादा पाय पृथमाश्रयन् ।

कार्यनिष्ठं पुरस्कृत्य शरीरान्तरिमुदये ॥ ३ ॥

मंस्रुतीमंस्रुतं सगन्धोपमत्त मशमम् ।

शमंस्रुतं तु यज्ञोत्तं नदंभं पं प्रतर्त्यते ॥ ४ ॥

ग्नः मंस्रान्तरमो विपनाह्वयमो मृषेः ।

शिक्षणीपनिमिर्नित्यं मर्यादा सुमर्यदनः ॥ ५ ॥

कृतानीद विधानानि प्रन्यप्रन्यनतन्वरेः ।

वेदविज्ञानविष्टैः मर्यादिभिः परिमोहिनीः ॥ ६ ॥

प्रमाणैस्तान्यनान्य विद्यते यदमानतः ।

जनानां सुखयोधाय संस्कारविधिरुत्तमाः ॥ ७ ॥

बहुभिः सज्जनैस्सम्यङ्मानवप्रियकारकैः ।
 प्रवृत्तो ग्रन्थकरणे क्रमशोऽहं नियोजितः ॥ ८
 दयाया आनन्दो विलसति परो ब्रह्मिदितः,
 सरस्वत्यम्याग्रे निवमति मुदा सत्पनिलया ।
 इयं ख्यातिर्यम्य प्रततसुगुणा हीशशरणाऽ-
 स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बाद्धव्यमनघाः ॥ ९ ॥
 चतुर्गमाङ्कचन्द्रेऽब्दे कार्तिकस्यान्तिमे दले ।
 अमायां शनिवारंऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥
 विन्दुत्रेदाङ्कचन्द्रेऽब्दे शुचौ मासेऽसिते दले ।
 त्रयोदश्यां रवौ वारे पुनः संस्करणं कृतम् ॥११॥

++卐++ ++卐++

सब संस्कारों के आदि में निर्झालिखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान् वा बुद्धिमान् पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे, और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुनें और विचारें—

अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।

यद् भद्रं तन्न आ सुव ॥ १ ॥ यजुः अध्याय ३० । मंत्र ३ ॥

अर्थः—हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता. समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्धस्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को (परा सुव) दूर कर दीजिये । (यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, (तत्) वह सब हम को (आ सुव) प्राप्त कीजिये ॥१॥

ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः

हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

यजु. अ० १३ । मंत्र ४ ॥

अर्थः—जो (हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाशस्वरूप, और जिसने प्रकाश करनेहारे सूर्य चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो (भूतस्य) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत् का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी (एकः) एक ही चेतनस्वरूप (आसीत्) था, जो (अमे) सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्तत) वर्तमान था, (सः) वह (इमाम्) इस (पृथिवीम्) भूमि (उत) और (धाम्) सूर्यादि का (दाधार) धारण कर रहा है, हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिये (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से (विधेम) भक्ति विशेष किया करें ॥ २ ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषु यस्य देवाः ।

यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

यजुः अ० २५ । मंत्र १३ ॥

अर्थः—(यः) जो (आत्मदा) आत्मज्ञान का दाता, (बलदा) शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, (यस्य) जिसकी (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् लोग (उपासते) उपासना करते हैं, और (यस्य) जिसका (प्रशिषुम्) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय अर्थात् शिक्षा को मानते हैं, (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही (अमृतम्) मोक्ष-सुखदायक है, (यस्य) जिसका न मानना अर्थात् भक्ति न करना ही (मृत्युः) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से (विधेम) भक्ति अर्थात् उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

यजुः अ० २३ । मंत्र ३ ॥

अर्थः—(यः) जो (प्राणतः) प्राणवाले और (निमिषतः) अप्राणिरूप (जगतः) जगत् का (महित्वा) अपने अनन्त महिमा से (एक इत्) एक ही (राजा) राजा (बभूव) विराजमान है, (यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है, हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकलैश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात् (हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके (विधेम) भक्ति विशेष करें ॥ ४ ॥

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

यजुः अ० ३२ । मंत्र ६ ॥

अर्थः—(येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाववाले (द्यौः) सूर्य आदि (च) और (पृथिवी) भूमि को (दृढा) धारण किया, (येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सुख को (स्तभितम्) धारण किया, और (येन) जिस ईश्वर ने (नाकः) दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है, (यः) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (रजसः) सब लोकलोकान्तरों को (विमानः) विशेष मानयुक्त अर्थात् जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों को निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) विशेष भक्ति करें ॥ ५ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥
ऋ० ० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥

अर्थः—हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा !
(त्वत्) आप से (अन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन
(एतानि) इन (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए भूगोलादि
जगत् को बनानेहारा और (परि ता) व्यापक (न) नहीं
(बभूव) है, (ते) उस आप के भक्ति करनेहारे हम चेतनादिकों
को (न) नहीं (परि बभूव) तिरस्कार करता है, अर्थात् आप
सर्वोपरि हैं । (यत्कामाः) जिस २ पदार्थ की कामना वाले होके
हम लोग भक्ति करें, (ते) आपका (जुहुमः) आश्रय लेवें और
धाञ्छा करें, (तत्) वह कामना (नः) हमारी सिद्ध (अस्तु)
होवे, जिससे (वयम्) हम लोग (रयीणाम्) धनैश्वर्यों के
(पतयः) स्वामी (स्थाम) होवें ॥ ६ ॥

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नधैरयन्त ॥ ७ ॥
यजु अ० ३२ । मंत्र १० ॥

अर्थः—हे मनुष्यो ! (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों
को (बन्धुः) भ्राता के समान सुखदायक, (जनिता) सकल
जगत् का उत्पादक, (सः) वह (विधाता) सब कामों का पूर्ण
करनेहारा, (विश्वा) संपूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और
(धामानि) नाम, स्थान, जन्मों को (वेद) जानता है, और
(यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त
(धामन्) मोक्षस्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा में (अमृतम्)
मोक्ष को (आनशानाः) प्राप्त होके (देवाः) विद्वान् लोग
(अधैरयन्त) स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना

गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करें ॥ ७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥८॥

यजुः अ० ४० । मंत्र १६ ॥

अर्थः—हे (अग्ने) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सब जगत् के प्रकाश करनेहारे (देव) सकल सुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे (विद्वान्) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके (अस्मान्) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुपथा) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से (विश्वानि) संपूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त कराइये, और (अस्मत्) हम से (जुहुराणम्) कुटिलतायुक्त (एनः) पापरूप कर्म को (युयोधि) दूर कीजिये, इस कारण हम लोग (ते) आपकी (भूर्यिष्ठाम्) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नमः उक्तिम्) नम्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें, और सर्वदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥

इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम् ॥

अथ स्वस्तिवाचनम्

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥

स नः पितॄन् सुनवेऽग्ने सृपायनो भव ।

सर्वस्वानः स्वस्तये ॥ २ ॥ ऋ० मं० १ । सू० १ । मन्त्र १, ६ ॥

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भर्गः स्वस्ति देव्यर्दितिरनर्वाः ।

स्वस्ति पूषा अशुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥ ३ ॥

स्वस्तये वायुस्यै ब्रवामहे मांमै स्वास्ति भूर्वनस्य यस्वतिः ।
 चृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यामौ भवन्तु नः ॥४॥
 विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुराग्निः स्वस्तये ।
 देवा भवन्वृभवः स्वस्तये स्वास्ति नो रुद्रः पात्वंहपः ॥५॥
 स्वास्ति मित्रावरुणा स्वास्ति पथ्ये रेवति ।
 स्वास्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वास्ति नो आदिते कृधि ॥६॥
 स्वास्ति पन्यामनु चरेम सूर्याचन्द्रममाविष ।
 शुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमेमहि ॥७॥

अ० मं० ५ । सू० ५१ । म० ११—१२ ॥

ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनार्यजत्रा अयुना अतुज्ञाः ।
 ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वास्तिभिः मदा नः ॥८॥

अ० मं० ७ । सू० ३२ । मं० १२ ॥

येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पर्यः पीयूषं घोरदितिगद्विबर्ही ।
 उक्थशुग्मान् वृषभरान्स्वप्नसुप्तौ आदित्यौ अनुमदा स्वस्तये ॥९॥
 नृचक्षसो अर्निमिपन्तो अर्हणा बृहद्वामो अमृतत्व-
 मानशुः । ज्योतीर्गथा अर्हिमाया अर्नागसो दिवो वर्ष्मार्थं
 वसते स्वस्तये ॥ १० ॥

सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरर्पहित्रता दधिरे दिवि
 चयम् । तौ आ विवासु नर्मसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यौ
 अदितिं स्वस्तये ॥ ११ ॥

को वः स्तोभं राधति यं जुजोषय विश्वे देवामो मनुषो यति घ्नं ।
 को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करधो नः पर्पदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोतृभिः ।
 त आदित्या अमयं शर्मं यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ॥ १३ ॥
 य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः ।
 ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ १४ ॥
 भरेष्विन्द्रं सुहवं इवामहेऽहोषुचं सुकृतं दैव्यं जनम् ।
 अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥ १५ ॥
 सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।
 दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥
 विश्वे यजत्रा अग्निं वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः ।
 सत्यया वो देवहृत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ १७ ॥
 अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः ।
 आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्मं यच्छता स्वस्तये ॥ १८ ॥
 अरिष्टः स मर्त्तो विश्वं एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मणस्परिं ।
 यमादित्यासो नयथा सुनीतिमिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ १९ ॥
 यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने ।
 प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानासिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ २० ॥
 स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यर्षसु वृजने स्वर्वति ।
 स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ २१ ॥
 स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्यास्वत्यमि या वाममेतिं ।
 सा नो अमा सो अरण्ये नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ २२ ॥

इषे त्वोज्जे त्वा वायवं स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्वन्या इन्द्राय भागं प्रजावती-
रनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा
अस्मिन् गोपतौ स्यात बृह्णीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॥२३॥

यजुः अ० १ । मंत्र १ ॥

आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः ।
देवा नो यथा सदमिद्धधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥२४॥
देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निर्वर्त्तताम् ।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥२५॥
तमीशानं जगत्स्तस्थुपस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम् ।
पूषा नो यथा वेदसामसद्धधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२७॥
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भिर्यजामहि देवहितं यदायुः ॥२८॥

यजुः अ० २५ मंत्र १४, १५, १८, १६, २१ ॥

२ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।

१ २ २ ३ १ २
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ २६ ॥

१ २ ३ २ ३ २ ३ १ ३ ३ २
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २
देवेभिर्मानुषे जने ॥ ३० ॥

साम० छन्द० आ० प्रपा० १ । मंत्र १—२

ये त्रिषप्ताः पंगिन्यन्ति विश्वा रूपाणि विश्रंतः ।
वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥३१॥

अथर्व० कां० १ । सू० १ । मंत्र १ ॥

इति स्वस्तिवाचनम् ॥

अथ शान्तिप्रकरणम्

शं न इन्द्राग्नी भवतामबोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रानहव्या ।
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शन्न इन्द्रापुषणा धार्जमातौ ॥१॥
शं नो भगः शर्म नः शंसो अस्तु शन्नः पुगन्धिः शर्म पन्तु रायः ।
शं नः मृत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥
शं नो धाता शर्म धर्ता नो अस्तु शं न उरुची भवतु स्वधार्भिः ।
शं रादसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां मुहवानि सन्तु ॥३॥
शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम् ।
शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभिवातु वार्तः ॥४॥
शं नो धावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिधं दृश्ये नो अस्तु ।
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥
शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणाः सुशंसः ।
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा धार्भिरिह शृणोतु ॥६॥
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शर्म सन्तु यज्ञाः ।
शं नः स्वरूपां मितर्यो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥
शं नः सूर्ये उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शर्म सन्त्वार्यः ॥८॥

शं नो अदितिर्भवतु व्रतंभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।
 शं नो विष्णुः शम्पु पुषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्बस्तु वायुः ॥६॥
 शम्भो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूपसो विभातीः ।
 शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं न चंद्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥१०॥
 शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ।
 शमभिषाचः शम्पु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥११॥
 शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम्पु सन्तु गावः ।
 शं नः ऋभ्रः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥
 शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु शं नोऽर्हिवृध्न्यर्हः शं समुद्रः ।
 शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा ॥१३॥
 ऋ० म० ७ । सू० ३५ । म० १—१३ ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥
 शं नो वार्तः पवताथ शं नस्तपतु सूर्यैः ।
 शं नः कर्णिक्रददेवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥१५॥

अहानि शं भवन्तु नः शश रात्रीः प्रतिधीयताम् ।
 शं न इन्द्राधी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या ।
 शम्भ इन्द्रापुषणा वार्जसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥१६॥
 शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोर्भिस्रवन्तु नः ॥१७॥

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष-
 षयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
 सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरधि ॥१८॥

तच्चतुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥१६॥

यजुः श्र० ३६ । मंत्र ८, १०—१२, १७, २४ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति ।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२०॥
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदयेषु धीराः ।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२१॥
यत्प्रज्ञानमुत्त चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२२॥
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्पारिष्टीहीतममृतेन सर्वम् ।
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२३॥
यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविचाराः ।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२४॥
सुषाराथिरथानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।
द्वृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२५॥

यजुः श्र० ३४ । मंत्र १—६ ॥

१ २ ३ २४ ३ १२ २२ ३ १२ २२
स नः पवस्व शङ्गवे शं जनाय शमवते ।

१ २ ३ १ २
शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६ ॥

साम० उत्तरार्चिके प्रपा० १ । मंत्र १ ॥

रक्खें, और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव आदि बांधें। नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें और कुंकुम हलदी मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें। मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गलकार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिये यज्ञद्वारा ईश्वरोपासना करें। इसलिये निम्नलिखित सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में दें ॥

यज्ञकुण्ड का परिमाण

जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थींश नीचे अर्थात् नले में एक (१) हाथ चौकोण लम्बा चौड़ा रहै। इस प्रकार जितनी आहुति करनी हों उतना ही गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना, परन्तु अधिक आहुतियों में २ (दो) हाथ अर्थात् दो लक्ष आहुतियों में छः हस्त परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुण्ड बनाना।

और जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ घटावे अर्थात् तीन हाथ गहिरा चौड़ा समचौरस और पौन हाथ नीचे। तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे। दश हजार आहुति तक इतना ही, अर्थात् दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे रखना। पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और साढ़े आठ अंगुल नीचे रहे।

यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है। यदि इसमें २५०० (ढाई हजार) आहुति मोहन भोग, क्षीर और २५०० (ढाई हजार) घृत की देवे तो दो ही हाथ का चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे कुण्ड रक्खे। चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि सवा हाथ से न्यून चौड़ा, गहिरा

समचौरस और चतुर्थांश नीचे न बनावे । और इन कुरडों में १५ (पन्द्रह) अंगुल की मेखला अर्थात् पांच २ अंगुल की ऊंची ३ (तीन) बनावे । और ये तीन मेखला यहशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी । प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनावें ।

यज्ञ-समिधा

पलाश, शमी, पीपल, घड़, गूलर, आम, धिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लें । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगीं, मलिन-देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों, अच्छे प्रकार देख लें, और चारों ओर बराबर और बीच में चुनें ।

होम के द्रव्य चार प्रकार

(प्रथम—सुगन्धित) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि । (द्वितीय—पुष्टि-कारक) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ, उड़द आदि । (तीसरे—मिष्ट) शकर, शहत लुहारे, दास आदि । (चौथे—रोगनाशक) सोमलता अर्थात् गिलोय आदि औषधियां ।

स्थालीपाक

नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावें । इसका प्रमाणः—

ओ३म् देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः
सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ गोभिल गृ० प्र० १ । कं० ७ । सू० २४ ॥

इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को यथावत् शुद्ध कर लेना अशुभ चाहिये, अर्थात् सब को यथावत् शोध छान देख भाल सुधार कर करें । इन द्रव्यों को यथायोग्य मिला के पाक करना । जैसे कि सेर भर मिश्री के मोहन-

भोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासे जायफल, जावित्री, सेर भर मीठा, सब डालकर मोहनभोग बनाना । इसी प्रकार अन्य मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिये बनावें ।

चरु अर्थात् होम के लिये पाक बनाने की विधिः—
 (ओम् अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि । आश्व० गृ० १ । १० । ६)
 अर्थात् जितनी आहुति देनी हो प्रत्येक आहुति के लिए चार २ मूठी चावल आदि ले के (ओम् अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ आश्व० गृ० १ । १० । ७) अर्थात् अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लें। जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखे आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावत् सुरक्षित रखें और उस पर घृत सेचन करें ॥

यज्ञपात्र

विशेष कर चांदी, सोना अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहियें, निम्नलिखित प्रमाणः—

अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते—बाहुमान्यः पाणिमात्रपुष्करः,
 षडङ्गुलखातास्त्वग्विला हंसमुखप्रसेकाः, मूलदण्डाश्चतस्रः
 सुचो भवन्ति । तत्र पालाशी जुहुः । आश्वत्यशुपभृत् ।
 वैकङ्कती ध्रुवा, अग्निहोत्रहवणी च । अरत्निमात्रः खादिरः
 सुवः अङ्गुष्ठपर्वमात्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः
 सुवः । वारणं बाहुमात्रं मकराकारमग्निहोत्रहवणीनिधानार्थं
 कूर्चम् । अरत्निमात्रं खदिरं खड्गाकृति षष्ठम् । वारणान्य-
 होमसंयुक्तानि । तत्रोलूखलं नामिमात्रम् । मुसलं शिरोमात्रम् ।
 अथवा मुसलोलूखले चाक्ष्ये सारदारुमये शुभे इच्छाप्रमाणे
 भवतः । तथा—

खादिरं मुसलं कार्यं पालाशः स्यादुलूखलः ।

यद्गोमौ वारणौ कार्यौ तदभावेऽन्यवृक्षजौ ॥

शूर्पं वैणवमेव वा, ऐषीकं नलमयं वाऽचर्मवद्धम् । प्रादेश-
मात्री वारणी शम्भा । कृष्णाजिनमस्वरण्डम् । दृषदुपले
अश्ममये । वारणीं २४ हस्तमात्रीं, २२ अरत्निमात्रीं वा
स्वातमध्यां मध्यसंगृहीतामिडापात्रीम् । अरत्निमात्राणि
ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्यासनानि ।

मुञ्जमयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्त्रम् । प्रादेशदीर्घे अष्टाङ्ग-
लायते षडङ्गुलस्वातमण्डलमध्ये पुरोडाशपात्र्यौ । प्रादेशमात्रं
द्वयङ्गुलपरीणाहं तीक्ष्णाग्रं शृतावदानम् । आदर्शाकारे चतुरस्रे
वा प्राशिन्नहरणे । तयोरेकमीषत्स्वातमध्यम् । षडङ्गुलकङ्कति-
काकारमुभयतः स्वातं षडवदात्तम् । द्वादशाङ्गुलमर्द्धचन्द्राकार-
मष्टाङ्गुलोत्सेधमन्तर्द्धानकटम् ।


उपवेशोऽरत्निमात्रः । मुञ्जमयी रज्जुः । खादिरान् ।
द्वादशाङ्गुलदीर्घान् चतुरङ्गुलमस्तकान् तीक्ष्णाग्रान् शङ्कून् ।
यजमानपूर्णपात्रं पत्नीपूर्णपात्रं च द्वादशाङ्गुलदीर्घं चतुरङ्गुल-
विस्तारं चतुरङ्गुलस्वातम् । तथा प्रणीतापात्रञ्च । आड्य-
स्थाली द्वादशाङ्गुलविस्तृता प्रादेशोच्चा । तथैव चरुस्थाली ।

अन्वाहार्यपात्रं पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्याप्तम् । समिदिध्मार्ये
पलाशशाखामयम् । कौशं वर्हिः । ऋत्विग्वरणार्थं कुण्ड-
लाङ्गुलीयकवासासि । पत्नीयजमानपरिधानार्थं द्यौमवासश्च-
तुष्टयम् । अग्न्याधेयदक्षिणार्थं चतुर्विंशतिपद्मे एकोनपञ्चा-
शद् गावः । द्वादशपद्मे पञ्चविंशतिः । षट्पद्मे त्रयोदश ।
सर्वेषु पद्मेषु आदित्येऽष्टौ धेनवः । वरार्थं चतस्रो गावः ॥

समिध पलाश की १८हस्त ३ इधम परिधि ३पलाश की बाहुमात्र
सामिधेनी समित् प्रादेशमात्र समीक्षण लेर ५ शाटी १ दृषदुपल
१, दीर्घ अंगुल १२ पृ० १५, उपल अं० ६, नेतु व्यास हाथ ४
त्रिवृत्तया या गोवाल का ।


✓ पूर्णपात्र अं० १२, चौड़ा अंगुल ६,

✓ छुच सर्व ४, बाहुमात्र



✓ छुच: ४, अंगुल २४ शम्या प्रादेश १ -



अरणी ४



पाटला ४, लम्बा २४ अंगुल

उलूखल नाभिमात्र



मुसल



उपल



शृतावदान प्रादेशमात्र

कूर्च बाहुमात्र १



अन्तर्धान १ अं० १२५ खांडा अंगुल २४

उत्तरारणी टुकड़ा १८



अंगुल ६ पांसी अंगुल
४ अंवी अधारणी



प्राशिक्षहरणे
दपलाकार



विष्टपात्री



अभि १. अं० २४



अं वली अं० १२



कात्र अं० १२



बडयल अं० २४



पुरोडागारणी



रवा अंगुल १२



प्रकीला अं० १२



प्रोदानी अं० १२




अंगोला २४ अं० अंवा



मूलेकान दपट्ट



उपयेण १ अं० २४



गुपं



अथ ऋत्विग्वरणम्

यजमानोक्तिः—‘ओमावसोः सदनं सीद’ ।

इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज् को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे ।

ऋत्विगुक्तिः—‘ओं सीदामि’ ।

ऐसा कहके जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर बैठे ।

यजमानोक्तिः—‘अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वृणो’ ।

ऋत्विगुक्तिः—‘वृतोऽस्मि’ ।

ऋत्विजों का लक्षण—अच्छे विद्वान्, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मतवाले वेदवित् एक दो तीन अथवा चार का वरण करें । जो एक हो तो उसका पुरोहित, और जो दो हों तो ऋत्विक् पुरोहित, और तीन हों तो ऋत्विक् पुरोहित और अध्वर्यु और जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा ।

इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात् होता का वेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये । और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे । और इन ऋत्विजों को सत्कापूर्वक आसन पर बैठाना, और वे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर बैठें, और उपस्थित कर्म के विना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें ।

और अपने अपने जलपात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रों से तीन २ आचमन करें, अर्थात् एक २ से एक २ बार आचमन करें, वे मन्त्र ये हैं—

ओम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक ।

श्रीम् शमृतापिधानममि व्याहा ॥ २ ॥ इममे हुमरा ।

श्रीं मत्यं यशः श्रीर्षि श्रीः श्रयतां व्याहा ॥ ३ ॥

काण० १ । २४, १२, २१, २२ ॥

इसमे नीमरा सामान्य प्रकरणे, सामान्य गौणे गिरे मन्त्रो से जल करके अज्ञो का इमं करे—

श्रीम् चाद्म आर्येऽस्तु ॥ १ ॥ इम मन्त्र मे गुण ।

श्रीं नयोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ २ ॥ इम मन्त्र मे नासिका के दोनो दिग्

श्रीम् शक्त्यां चक्षुःस्तु ॥ ३ ॥ इम मन्त्र मे दोनो आंखो ।

श्रीं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ ४ ॥ इम मन्त्र मे दोनो कान ।

श्रीं बाहोर्मे वनमस्तु ॥ ५ ॥ इम मन्त्र मे दोनो हाथ ।

श्रीम् ऊर्वोर्मे भोजोऽस्तु ॥ ६ ॥ इम मन्त्र मे दोनो जंघा । श्री—

श्रीम् श्रिष्टानि मेऽङ्गानि तन्मन्त्रा मे मह मन्तु ॥ ७ ॥

कारस्वर गू० श्री- १ । कटिस्वर ३ । गू० २३ ॥

इस मन्त्र मे दाहिने हाथ से जल इमं करके मांशन करमा ।
पूर्वोक्त समिधाचयन वंशी मे करे । पुनः—

श्रीं भूर्भुवः स्वः ॥ सोमिल गू० २० । १ । लं० १ । गू० ११ ॥

इस मन्त्र का उच्चारण करके, प्राणायाम त्रिपय या गैद्य के मन्त्र से अग्नि ला अथवा गुण का शीपक जला, हुमसे तपूर मे तगा, किसी एक पात्र मे धर इसमे छोटो २ लकड़ी तना के यज्ञमान या पुरोहित उस पात्र को दोनो हाथो मे उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मन्त्र से आधान करे । यह मन्त्र मह है—

श्रीं भूर्भुवः स्तुषीर्षि भूसा प्रथिवीर्षि परिष्णा ।

वस्यास्ते पृथाव देवयजनि प्रोऽपिमंज्ञाद् आयायादधे ॥

पठ० स० ६ । मंत्र २ ॥

इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर धर, अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करें—

ओम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृद्वि त्वमिष्टापुर्त्तं स५सृजेयामयं च ।
आस्मिन्सधस्थे अद्ध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥

यजु० अ० १५ । मंत्र ५४ ॥

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंगुल की घृत में डुवो, उनमें से नीचे लिखे एक मन्त्र से एक २ समिधा को अग्नि में चढ़ावें । वे मन्त्र ये हैं—

ओम् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्
वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥
इदमग्नये जातवेदसे—इदन्न मम ॥ १ ॥ आश्व० १ । १०, १२ ॥

इस मन्त्र से एक ।

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतार्तिथिम् ।

आस्मिन्ह्वया जुहोतन् स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥ २ ॥

इससे, और—

सुसामिद्वाय चिषे घृतं तीव्रं जुहोतन् । अग्नये जातवेदसे
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदन्न मम ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से अर्थात् दोनों मन्त्रों से दूसरी ।

ओं तन्त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि । बृहच्छ्रोत्रा
यविष्ठय स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसेऽइदन्न मम ॥ ४ ॥

यजु० अ० ३ । मंत्र १-३ ॥

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे ।
इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि

पद्यात् विधि से बनाया हो, मृग, चाँदी, काँसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठपात्र में पानी के साथ सुरक्षित धरे । पद्यात् उपरिलिखित घृतादि जो कि उष्ण कर ज्ञान पर्येक सुगन्धादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रक्का हो, घृत या सस्य मोहन-गोमादि जो कुछ सामग्री हो, उसमें से कम से कम ६ भागा भर अधिक से अधिक षट्ठाक भर की आहुति करें, यही आहुति वा प्रसाद है ।

उस घृत में से चमत्ता, कि जियमें लुः भागा ही घृत आते ऐसा बनाया हो, भर के नाँसे लिने मन्त्र से पान आहुति देनी—

ओम् अथ न इधम आन्ना जानवेदमनेध्वस्य धर्मस्य वेद
वर्द्धय चाम्मान् प्रजया पशुभिर्धनैर्धनैर्नाश्रापेन नभोपय
स्वाहा ॥ इदमन्त्रये जानवेदम—इदम मम ॥

तन्पद्यान् अञ्जलि में उक्त निक, पानी के वृष दिशा आदि चारों ओर सिद्धकायें । इसके ये मन्त्र हैं:—

ओम् आदनेऽनुमन्यन्व ॥ १ ॥ इमं न्यसे पुरी ।

ओम् अनुमनेऽनुमन्यस्व ॥ २ ॥ इत्यने वधिज ।

ओम् मरुन्यनुमन्यस्व ॥ ३ ॥ इत्यने उग्र । ऊर—

गोमिउ गृ० अ० प्र० १ । त्वं० २ । गृ० १-३ ॥

ओं देवं मरिचः प्रसुव्यं यदं प्रसुव्यं यत्परिनिं भर्गाय । शिन्धो
गन्धर्वः कृतपूः कृतेशः पुनातु भूचस्पतिर्वा नः स्वदत्तु ॥४॥

पद्म० अ० ३० । मंत्र १ ॥ गो० १ । १ । ४ ॥ ४ ॥

इस मन्त्र से पेशों के चारों ओर उक्त सिद्धकायें ।

इसके पद्यान् सामान्य होमाहुति नभोपयानादि प्रधान संस्कारों में अग्रथ्य करें । इसमें मुख्य होम के आदि चौर अन्त में जो आहुति दी जाती है, उनमें से घनहुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और घनहुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है, उसका नाम "आघागयान्याहुति" कहते हैं ।

और जो कुरड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं, उनको "आज्यभागाहुति" कहते हैं। सो घृतपात्र में से खुवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से खुवा को पकड़ के—

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥ १ ॥

इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में।

ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय—इदन्न मम ॥ २ ॥

गो० गृ० प्र० १। खं० ८। सू० २४ ॥

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति देनी। तत्पश्चात्—

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥ ३ ॥

ओम् इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥ ४ ॥

इन दो मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी।

उसके पश्चात् चार आहुति अर्थात् आधारावाज्यभागाहुति देके जब प्रधान होम अर्थात् जिस २ कर्म में जितना २ होम करना हो करके, पश्चात् पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार (आधारावाज्यभागा०) देवें।

पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से खुवा को भर के प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहृति की चार आहुति देवें—

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥ १ ॥

ओं भुवर्वापवे स्वाहा ॥ इदं वायवे—इदं न मम ॥ २ ॥

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय—इदं न मम ॥ ३ ॥

ओं भूर्भुवः स्वरशिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्नि-
वाय्वादित्येभ्यः—इदं न मम ॥ ४ ॥ गो० १। ८। ४ ॥

ये चार घी की आहुति देकर, खिष्टकृत होमाहुति एक ही दें, यह घृत अथवा भात की देनी चाहिये। उसका मन्त्र—

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विधात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये

स्विष्टकृते सुदुतदुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धयित्रे
सर्वान्नः कामान्तसमर्द्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते—इद न मम ॥

गतपथ का० १४ । ६ । ४ । २४ ॥ पा० १ । २ । १० ॥

इससे एक आहुति करके, प्राजापत्याहुति नीचे लिखे मन्त्र
को मन में बोल के देनी चाहिये—

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इद न मम ॥

आ० १ । ३ । ८ ॥

इससे मोन करके एक आहुति देकर, चार आज्याहुति घृत
की दें। परन्तु जो नीचे लिखी आहुति बोल समावर्तन और
विवाह में मुख्य हैं, वे चार मन्त्र ये हैं—

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने आर्युषि पवसु आ सुवोर्जमिषं च
नः । आरे वाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—
इदन्न मम ॥ १ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्निअपिः पर्वप्रानः पाञ्चजन्यः
पुरोहितः । तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—
इदन्न मम ॥ २ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने पर्वस्व स्वर्पा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ।
दधद्रुषि मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥

अ० मं० ६ । सू० ६६ । मं० १६ । २०—२१ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि
परि ता वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम
पतयो रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥ ४ ॥

अ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥ आ० १ । ४ । ४ ॥

इन से घृत की चार आहुति करके, “अष्टाज्याहुति” के निम्न-
लिखित मन्त्रों से सर्वत्र महलकार्यों में ८ (आठ) आहुति दें।

परन्तु किस २ संस्कार में कहाँ २ देनी चाहिये, यह विशेष बात उस २ संस्कार में लिखेंगे । वे आठ आहुति-मन्त्र ये हैं—

ओं त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलोऽव
यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषीसि प्र
मुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा ॥ इदमग्निवरुणाभ्याम्—इदन्न मम ॥ १ ॥

ओं स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो
व्युष्टौ । अत्र यक्ष नो वरुणं ररत्णो वीहि मृडीकं सुहवो न
एधि स्वाहा ॥ इदमग्निवरुणाभ्यां—इदन्न मम ॥ २ ॥

ऋ० मं० ४ । सू० १ । मं० ४, २ ॥

ओम् इमं मे वरुण शुधी हवमथा च मूल्य ।
त्वामवस्युरा चके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥

ऋ० मं० १ । सू० २५ । मं० १६ ॥

ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो
हविर्भिः । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र
मोषीः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय—इदन्न मम ॥ ४ ॥

ऋ० मं० १ । सू० २४ । मं० ११ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता
महान्तः । तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे घृञ्चन्तु मरुतः
स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः—इदन्न मम ॥ ५ ॥

ओम् अयाश्चाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि ।
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजं स्वाहा ॥ इदमग्ने
अयसे—इदन्न मम ॥ ६ ॥

ओम् उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधुमं वि मध्यमं श्रथाय ।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥

इदं वरुणायाऽऽदित्यायादितये च-इदम् मम ॥ ७ ॥

ऋ० मं० १ सू० २४ । मं० १५ ॥

ओं भवतं नः समनसौ सचेतसावेरपमौ । मा यज्ञं ५ ऽहिं ५ सिष्टं
मा यज्ञं पतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा ॥ इदं जातवे-
दोभ्यां-इदम् मम ॥ ८ ॥ यजु० अ० ५ । मं० ३ ॥ पा० १ । २ । ८ ॥

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे।
न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे, किन्तु मध्य भाग जैसा
कि जिस वेद का उच्चारण है, करे। यदि यजमान न पढ़ा हो तो
तने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे। यदि कोई कार्यकर्त्ता जड़, मंदमति,
काला अक्षर भँस बराबर जानता हो, तो यह श्रद्धा है, अर्थात् श्रद्धा
मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो, तो पुरोहित और ऋत्विज मन्त्रोच्चारण
करें, और कर्मउसी मूढ़ यजमान के हाथ सं करायें।

पुनः निम्नलिखित मंत्र में पूर्णाहुति करें। खुद्या को घृतसे भरके-
ओं सर्वं वै पूगं ५ स्वाहा ॥

इस मन्त्र से एक आहुति दें। ऐसे ही दूसरी और तीसरी
आहुति देंके, जिसको दक्षिणा देनी हो देंके या जिसको जिमाना
हो जिमा, दक्षिणा देके सब को विशा कर करी पुरुष हुतशेष
घृत, भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के, पश्चात् ऋत्विपूर्वक
उत्तमान्न का भोजन करें।

मङ्गलकार्य

अर्थात् गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और
निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें। ये मंत्र ये हैं—

ओं भूर्भुवः स्वः । कया नथित्र आ भुवदूती सदावृधः
सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठो मत्स-
दन्धसः । दृढा चिठारुजे वसु ॥ २ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अमी षु णः सखीनामविता जरितृ-
णाम् । शतं भवास्यूतये ॥ ३ ॥

महाधामदेवम्—काऽऽया । नश्चारे इत्रारे आभुवात् ।
ऊ । ती सदावृधः स । खा । औरेहोहाइ । कयारे शचाइ ।
ष्टयौहोरे । हुम्मार । वारतोरेऽऽहाइ ॥ (१) ॥

काऽऽस्त्वा । सत्यारेमारेदानाम् । मा । द्विष्टा मात्सादन्ध ।
सा । औरेहोहाइ । दटारे चिदा । रुजौहोरे । हुम्मार ।
चाऽऽसोरेऽऽहायि ॥ (२) ॥

आऽऽमी । षु णारेः सारेखीनाम् । आ । विता जरायितृ ।
णाम् । औरे हो हायि । शतारे म्भवा । सियौहोरे ।
हुम्मार । ताऽरे योरेऽऽहायि ॥ (३) ॥

साम० उत्तरार्चिके । अध्याये १ । खं० ४ । मं० १--३ ॥ गो० १ । २ । २६ ॥

यह धामदेव्यगान होने के पश्चात् गृहस्थ स्त्री पुरुष कार्यकर्त्ता सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान् वा त्यागी पक्षपात-रहित संन्यासी, जो सदा विद्या की वृद्धि और सब के कल्याणार्थ वृत्तनेवाले हों, उनको नमस्कार, आसन, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, धन, दान आदि से उत्तम प्रकार से यथासामार्थ्य सत्कार करें ।

पश्चात् जो कोई देखने ही के लिये आये हों उनको भी सत्कार-पूर्वक विदा कर दें । अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे पृथक् २ मीन करके बैठे रहें, कोई बातचीत बहला गुल्ला न करने पावें । सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें, विशेष कर्मकर्त्ता और कर्म करानेवाले शान्ति धीरज और विचारपूर्वक क्रम से कर्म करें और करावें । यह सामान्यविधि अर्थात् सब संस्कारों में कर्त्तव्य है ॥

इति सामान्यप्रकरणम्

अथ गर्भाधानविधिं वक्ष्यामः

—२++५++—

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ॥

मनुस्मृति द्वितीयाध्याये । श्लोक १६ ॥

अर्थः—मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात् गर्भाधान से लेके इमशानान्त अर्थात् अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं ॥

शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक में सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं । उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार है ।

“गर्मस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्वेन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम्” ॥

गर्भ का धारण अर्थात् वीर्य का स्थापन, गर्भाशय में स्थिर करना जिस क्रिया से होता है, उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं।

जैसे जिनका बीज और क्षेत्र उत्तम होता है, उन्हीं के अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे (उत्तम बलवान् स्त्री पुरुषों से सन्तान भी उत्तम होते हैं । इससे) पूर्ण युवावस्था यथावत् ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात् न्यून से न्यून १६ (सोलह) वर्ष की कन्या और २५ (पच्चीस) वर्ष का पुरुष अवश्य हो, और इससे अधिक वयवाले होने से अधिक उत्तमता होती है ।

क्योंकि बिना सोलहवें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत् बढ़ने के लिये अवकाश उपयुक्त और स्त्री के शरीर में गर्भ के धारण योग्य का सामर्थ्य भी नहीं होता । और २५(पच्चीस)वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता। इसमें यह प्रमाण है—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्बारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ १ ॥

सुधते । सूत्रस्थाने । अध्याय ३५ ॥

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।
 यथाघत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २ ॥
 जातो वा न विरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।
 तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ ३ ॥

सुश्रुते । शारीरस्थाने । अ० १० ॥

ये सुश्रुत के श्लोक हैं । शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी वैद्यक शास्त्र में है, वैसी अन्यत्र नहीं । उसका मूल विधान आगे वेदारम्भ में लिखा जायगा । अर्थात् किस २ वर्ष में कौन २ धातु किस २ प्रकार का कच्चा वा पक्का वृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है, यह सब वैद्यक शास्त्र का विधान है । इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वैद्यकशास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिये ।

अब देखिये सुश्रुतकार परम वैद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान् लोग मानते हैं, वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य होवे, यह लिखते हैं । जितना सामर्थ्य २५ (पच्चीसवें) वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है, उतना ही सामर्थ्य १६ (सोलहवें) वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है । इसलिये वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात् तुल्य सामर्थ्यवाले जानें ॥१॥

सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में २५ (पच्चीस) वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता है, तो वह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता है ॥ २ ॥

और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे, अथवा कदाचित् जीवे भी तो उसके अत्यन्त दुर्बल शरीर और इन्द्रिय हों । इसलिये अत्यन्त बाला अर्थात् सोलह वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥

उसी सुश्रुत में यह भी लिखा है—

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्-
परिहाणिश्रेति । आपोडशाट्टद्विराचतुर्विंशतैर्यौवनमाचत्वारिं-
शतः सम्पूर्णाता ततः किञ्चित्परिहाणिश्रेति ॥ * ॥

अर्थः—मनुष्य के शरीर के सोलहवें वर्ष से आगे सय
धातुओं की वृद्धि और पच्चीसवें वर्ष से युवावस्था का आरम्भ,
चालीसवें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात् सय धातुओं की
पूर्ण पुष्टि और उससे आगे किञ्चित् २ धातु धीरे धीरे क्षीण होती
है । अर्थात् ४० (चालीसवें) वर्ष सय अवयव पूर्ण हो जाते हैं,
पुनः खानपान से जो उत्पन्न धीरे धीरे धातु होता है, यह कुछ २ क्षीण
होने लगता है ॥

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें
तो कन्या १६ (सोलह) वर्ष की और पुरुष २५ (पच्चीस) वर्ष
का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय कन्या का २० (बीस)
वर्ष पर्यन्त और पुरुष का ४० (चालीसवां) वर्ष और उत्तम
समय कन्या का चौबीस वर्ष और पुरुष का ४२ (अड़तालीस)
वर्ष पर्यन्त का है ।

जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीर्घायु, सुशील,
बुद्धि बल पराक्रमयुक्त विद्वान् और श्रीमान् करना चाहें, वे
(सोलहवें) वर्ष से पूर्व कन्या और २५ (पच्चीसवें) वर्ष से पूर्व पुत्र
का विवाह कभी न करें। यही सय सुधार का सुधार, सय सौभाग्यों
का सौभाग्य और सय उन्नतियों की उन्नति करनेवाला फल है।

* वर्तमान में इसे सुश्रुत के ग्रन्थों में यह पाठ इस प्रकार है—

“पोडशसस्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य विकरणां वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णाता
दानिरिति । तत्राविगतेषु द्विरात्रिंशतो यौवनमाचत्वारिंशतः सर्वधाविन्द्रिय-
बलवीर्यसम्पूर्णाता । अत ऊर्ध्वमीपरपरिहाणियां वृद्धिरिति ॥”

सुश्रुत सूत्रायान, अ० ३५ ॥

कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान हों।

ऋतुदान का काल

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा ।
 पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्ब्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥
 ऋतुः स्वाभाविकःस्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।
 चतुर्भिरितैः सार्द्धमहोभिः साद्विगर्हितैः ॥ २ ॥
 तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।
 त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥
 युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।
 तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्त्तवे स्त्रियम् ॥ ४ ॥
 पुमान् पुंसोऽधिक शुक्रेस्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।
 समे पुमान् पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ५ ॥
 निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।
 ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ६ ॥

मनुस्मृतौ, अ० ३ । श्लो० ४५—५० ॥

अर्थः—मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे, और अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सवैव पृथक् रहे। जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं

वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब एवं अर्थात् जो उन ऋतुदान के १६ (सोलह) दिनों में पौर्णमासी, अमावास्या, चतुर्दशी या अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे । इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १ ॥

त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ (सोलह) रात्रि का है, अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके १६ (सोलहवें) दिन तक ऋतुसमय है । उनमें प्रथम की चार रात्रि, अर्थात् जिस दिन रजस्वला हो, उस दिन से ले चार दिन निन्दित हैं । प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करें, अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का लुआ पानी भी न पीवें । न वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे । क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है । रजः अर्थात् स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विद्युत् उष्ण जैसा कि फोड़े में से पीव वा रुधिर निकलता है वैसा है ॥ २ ॥

और जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं, वैसे ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं । और याज्ञी रहीं दश रात्रि, सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥

जिनको पुत्र की इच्छा हो, वे छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें, परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं । और जिनको कन्या की इच्छा हो, वे पांचवीं सातवीं, नवीं और पन्द्रहवीं ये चार रात्रि उत्तम समझें । इससे पुत्रार्थी शुभ रात्रियों में ऋतुदान देवे ॥ ४ ॥

पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आर्त्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा यन्त्र्या

६ रात्रिगणना इसलिये की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ॥

स्त्री, क्षीण और अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा रह कर गिर-
जाना होता है ॥ ५ ॥

जो पूर्व निन्दित = (आठ) रात्रि कह आये हैं, उनमें जो स्त्री
का संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में वसता हुआ भी ब्रह्मचारी
ही कहाता है ॥ ६ ॥

उपनिषदि गर्भलम्भनम् ॥ १ ॥ आश्व० गृ० १ । १३ । ६ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन है । जैसा उपनिषद् में
गर्भस्थापन विधि लिखा है, वैसा करना चाहिये । अर्थात् पूर्वोक्त
समय विवाह करके जैसा कि १६ (सोलहवें) और २५ (पच्चीसवें)
वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है, वही उपनिषद् का
विधान है ॥ १ ॥

अथ गर्भाधानं, स्त्रियाः । पुष्पवत्याश्चतुरहादूर्ध्वं स्नात्वा
विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गर्भमिति” ॥ २ ॥

पार० गृ० १ । १३ । ६ ॥

यह पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन है । ऐसा ही गोभिलीय
और शौनक गृह्यसूत्रों में भी विधान है । इसके अनन्तर जब स्त्री
रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर
रजरोगरहित हो, उसी दिन (आदित्य गर्भम्) इत्यादि मन्त्रों
से जैसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो, उससे
पूर्व दिन में सुगन्धादि पदार्थों सहित पूर्व सामान्यप्रकरणों के
प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देनी । यहाँ
पत्नी पति के वाम भाग में बैठे, और पति वेदी से पश्चिमाभिमुख
पूर्व दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट मुख करके बैठे तथा
स्त्री भी बैठे । और ऋत्विज् भी चारों दिशाओं में यथामुख बैठें ।

ओम् अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण-
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या

अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १ ॥

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या
अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥

ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या
अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३ ॥

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण-
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या
अपजहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ ४ ॥

ओम् अग्निवायुचन्द्रमूर्त्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः
पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायु-
चन्द्रमूर्त्येभ्यः-इदन्न मम ॥ ५ ॥

ओम् अग्रं प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्ता-
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्रये-इदन्न मम ॥ ६ ॥

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि
स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ७ ॥

ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण-
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या
अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ८ ॥

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिष्ठी तनूस्तामस्या अपजहि
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ ९ ॥

ओम् अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां
प्रायश्चित्तयः रथ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः
पतिष्ठी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्र-
सूर्येभ्यः—इदन्न मम ॥ १० ॥

ओम् अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्ता-
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥ ११ ॥

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या
अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे—इदन्न मम ॥ १२ ॥

ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्ता-
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय—इदन्न मम ॥ १३ ॥

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्ता-
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ १४ ॥

ओम् अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या
अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्र-
सूर्येभ्यः—इदन्न मम ॥ १५ ॥

घी दूध और शकर मिला के कुछ थोड़ी बेर रख के, जब घृत आदि भात में एकरस होजाय, पश्चात् नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में देवें, और झुवा में का शेष आगे घरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ता जावे—

ओम् अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—
इदन्न मम ॥ १ ॥

ओम् अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पावकाय—
इदन्न मम ॥ २ ॥

ओम् अग्नये शुचये स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये—
इदन्न मम ॥ ३ ॥

ओम् अदित्यै स्वाहा ॥ इदमदित्यै—इदन्न मम ॥ ४ ॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥ ५ ॥
पा० ६ । ११ । ३ ॥

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् ।
अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधापित्रे
सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते—
इदन्न मम ॥ ६ ॥ आश्व० गृ० १ । १० । २२ ॥

इन छः मन्त्रों से उस भात की आहुति देवें ।
तत्पश्चात् सामान्यप्रकरणोक्त २६—२७ पृष्ठ लिखित आठ
मन्त्रों से अष्टाज्याहुति देनी । तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी
आज्याहुति देवें—

ओं त्रिष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु ।

आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा ॥ १ ॥

गर्भं धेहि सिनीवाले गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं तं अश्विनौ देवावा धत्तां पुष्करस्रजौ स्वाहा ॥२॥

गोभिल० २ । ५ । ६ ॥

हिरण्ययीं अरणीं यं निर्मन्यतो अश्विनां ।

तं ते गर्भं इवामहे दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥३॥

ऋ० मं० १० । सू० १८४ । मं० १-३ ॥

रेतो मूत्रं वि जहाति योर्निं प्रविशदिन्द्रियम् । गर्भो जरायुणा-
बूत उल्बं जहाति जन्मना । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं
शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा ॥ ४ ॥

यजु० अ० १६ । मं० ७६ ॥

। यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदाहं तन्मां
चद्विधात पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम
शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं
भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा ॥५॥ पारस्कर कां० १ । कं० ११ ॥

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।

एवा ते धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥६॥

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥७॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥८॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।

एवा ते धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥९॥

अथर्व० कां० ६ । सू० १७ । मं० १-४ ॥

इन ६ मन्त्रों में नव आज्य और मोहनभोग की आहुति दे के, नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति दें—

ओं भूरग्रये स्वाहा ॥ इदमग्रये—इदन्न मम ॥१॥

ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे—इदन्न मम ॥२॥

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय—इदन्न मम ॥३॥

ओम् अग्निवाखादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इदमग्निवाखादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः—इदन्न मम ॥४॥

पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी—

ओम् अयास्यमेवषट्कृतं यत्कर्मणोऽत्यरीरिचं देवा
गातुविदः स्वाहा ॥ इदं देवेभ्यो गातुविद्भ्यः—इदन्न मम ॥१॥

पारस्कर कां० १ । कं० २ ॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥२॥

इन कर्म और आहुतियों के पश्चात् पृष्ठ २४—२५ में लिखे प्रमाणों “ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं०” इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत आहुति घृत की देवे ।

जो इन मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के घृवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों, जब आहुति हो चुके तब उस आहुतियों के शेष घृत को घघू लेके स्नान के घर में जाकर, उस घी का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब अङ्गों पर मर्दन करके स्नान करे । तत्पश्चात् शुद्ध बख से शरीर पोंछे, शुद्ध बख धारण करके कुण्ड के समीप आवे । तब दोनों घघू वर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करें । उस समय—

ओम् आदित्यं गर्भं पर्यसा समद्ग्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ।

परिवृद्ग्धि हरसा माभि म५स्थाः शतायुषं कृणुहि त्रियमानः ॥१॥

यजु० श्र० १३ । मं० ४१ ॥

सूर्यो नो दिवस्पातु घातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥२॥
योषां सवितर्यस्य ते हरः शतं सखा अर्हति ।

पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥ ३ ॥

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पवतः । चक्षुर्धाता दधातु नः ॥४॥

चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्ये तनूम्यः । सं चेदं वि च पश्येम ॥५॥

सुसंद्दर्शं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नृचक्षसः ॥६॥

श्र० मं० १० । सू० १२८ । मं० १-२ ॥

इन मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके, धधू—

ओम् अमुकं गोत्रा शुभदा, अमुकं दा अहं भो भवन्तम-
भिवाद्यामि ॥ गो० २ । ४ । ११ ॥

ऐसा वाक्य बोलके अपने पति को वन्दन अर्थात् नमस्कार करे । तत्पश्चात् स्वपति के पिता पितामहादि और जो वहाँ अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य कुटुम्बी और सम्बन्धियों की वृद्ध स्त्रियां हों, उनको भी इसी प्रकार वन्दन करे ।

इस प्रमाणे धधू घर के गोत्र की हुए अर्थात् धधू पत्नीत्व और घर पतित्व को प्राप्त हुए । पश्चात् दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के धामदेव्यगान करें ।

तत्पश्चात् यथोक्त भोजन दोनों जने करें, और पुरो-
हितादि सब मण्डली को सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कार पूर्वक सबको विदा करें ।

(१) इस ठिकाने घर के गोत्र अथवा घर के कुत का नामोच्चारण करे ॥

(२) इन ठिकाने धधू अपना नाम उच्चारण करे ॥

(३) उत्तम सन्तान करन का मुख्य हेतु यथोक्त धधू घर के आहार पर निर्भर है । इसलिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिये

इसके पश्चात् रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न, और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी। गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गये पश्चात् प्रहर रात्रि रहे तक है। जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे, तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्नवदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रक्खें। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे। जब वीर्य स्त्री के शरीर में

जल और वृद्धि आदि की वर्द्धक सर्वौषधि का सेवन करें। सर्वौषधि ये है—

दो खगड आँबा हलदी, दूसरी खाने की हलदी, चन्दन, मुरा (यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेल (यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है), शिलाजीत, कपूर, सुस्ता, भद्रमोथ।

इन सब औषधियों का चूर्ण करके, सब सम भाग लेके, उदुम्बर के काष्ठपात्र में गाय के दूध के साथ मिला उनका दही जमा और उदुम्बर ही के लकड़े की मन्थनी से मन्थन करके उसमें से मन्थन निकाल उसको ताप, घृत करके, उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री मिला के अर्थात् सेर भर दूध में छटांक भर पूर्वोक्त सर्वौषधि मिला सिद्ध कर, घी हुए पश्चात् एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक मासा केशर और एक २ मासा जायफलादि भी मिला के, नित्य प्रातःकाल उस घी में से नित्य होम २४ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और पृष्ठ ३८-३९ में लिखे हुए (विष्णुयोनि०) इत्यादि ७ (सात) मन्त्रों के अन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी घी को दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करें।

इस प्रकार गर्भ-स्थापन करें तो सुशील, विद्वान्, दीर्घायु, तेजस्वी, सुदृढ़ और नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे। यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होवे। क्योंकि—

प्राप्त हो, उस समय अपना पातु मूत्रेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर मंकांश और बीर्ग को भेज कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे।

तत्पश्चात् थोड़ा उदर के स्थान करे। यदि शनिवाले हो तो प्रथम बेशुद्ध, कम्पूरी, जायफल, जामिनी, लोन्टी इत्यादी दाल, गर्म कर रकते हुए शनिज कृष का योग्य पात काटके, पश्चात् पृथक् २ शयन करें। यदि स्त्री पुत्र के योग्य रक्त निक्षय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो गया, तो उसके दूसरे दिन, और जो गर्भ रक्त का रक्त निक्षय न हो तो एक महिने के पश्चात् रजस्रवा होने के समय स्त्री रजस्रवा न हो तो निक्षय जानना कि गर्भ स्थिर हो गया है।

“आहारशुद्धी मन्वशुद्धिः मन्वशुद्धौ धृया मृनिः” ॥

साग्दी० उ०० अ० ७ । अं० २६ । २ ॥

यह साग्दीय का ध्यान है। अर्थात् शुद्ध आहार तो कि अन्नमांस-रहित दूध, दुग्धादि, पावन, गेहूँ आदि के करके से अन्न काट कर शुद्ध, चक्र, पुरकार्य, करीय और वृद्धि की धीन होनी है। इसलिये पूर्व दूध-रक्षा में विचार करें।

इस प्रकार विधि कर प्रेमापूर्वक गर्भाधान करे, तो सम्मान और पुत्र निश्चयि उन्मृष्टता को प्राप्त होने पावे। जब रजस्रवा होने के समय में १२-१३ दिन गेह रहें, जब शुश्रूषण में १० दिन तक पूर्वांग धूम गिरा के इसी और का भोजन करके १० दिन का राग मा करें, और विवाहारी होकर अनुमय में पूर्वांग रीति से गर्भाधान किया करें तो अशुभता सम्मान होंगे। जैसे सब पशुओं को उदृष्ट करने का विधा है वैसे सम्मान को उन्मृष्ट करने की यही विधा है। इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि इसके न होने से कृत्र की हानि, नीचता और होने से पुत्र की वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है ॥

अथ पुंसवनम्

++卐++卐++

पुंसवन संस्कार का समय गर्भ स्थिर ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तीसरे महीने में है। उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये, जिससे पुरुषत्व अर्थात् वीर्य का लाभ होवे। यावत् बालक के जन्म हुए पश्चात् दो महीने न बीत जावें, जबतक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीर्य को नष्ट न होने देवे। भोजन, द्वादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे, और दूसरी सन्तान भी उत्तम होवे।

अत्र प्रमाणानि—

पुमार्थसौ मित्रावरुणौ पुमार्थसावश्चिनावुभौ ।

पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे ॥१॥

पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः ।

पुमार्थसं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम् ॥२॥

गो० गृ० प्र० २ । खं० ६ । सू० ३-१० ॥ मं० ब्रा० १ । ४ । ८-६ ॥

शमीमंश्चत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भ्रामसि ॥१॥

पुंसि वै रेतो भवति तत्स्त्रियामनु विच्यते ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत् ॥२॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीकृत्पत् ।

स्त्रैषूयमन्यत्र दधत्पुमांसम् दधदिह ।

अथर्व० कां० ६ । सू० ११ । मं० १-३ ॥

इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान् होना चाहिये। इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाणः—

अथास्यै मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायाम-
जीतामोषधी नस्तः करोति ॥ १ ॥

प्रजात्रज्जीवपुत्राभ्यां द्वैके ॥२॥ आश्व० गृ० १ । १३ । ५, ६१ ॥

गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में बटवृत्त की जटा वा
उसकी पत्ती लेके स्त्री को दक्षिण नासापुट से सुंघावे और कुछ
अन्य पुष्ट अर्थात् गडुन्न जो गिलोय या ब्राह्मी औषध खिलावे ।

ऐसा ही पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है—

अथ पु०मवनं पुरा स्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥१॥

पारस्कर कां० । कं० १४ ॥

इसके अनन्तर, पुंसवन उसको कहते हैं जो पूर्व ऋतुदान
देकर गर्भस्थिति से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार
किया जाता है ।

इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में भी लिखा है ।

अथ क्रियारम्भः—पृष्ठ २ से १३ वें पृष्ठ के शान्तिप्रकरण
पर्यन्त कहे प्रमाणे (विश्वानि देव०) इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों
से यजमान और पुरोहितादि ईश्वरोपासना करें, और जितने
पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावें ।

और पृष्ठ ६ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १० में लिखे
प्रमाणे शान्तिप्रकरण करके पृष्ठ १३ में लिखे प्रमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला
तथा पृष्ठ १४ वें में यज्ञकुराड, १५ में यज्ञसमिधा, पात्र, होम के
द्रव्य और पाकस्थाली आदि करके और पृष्ठ २२-२४ में लिखे
प्रमाणे (अयन्त इध्म०) इत्यादि, (ओम् अदिते०) इत्यादि ४ (चार)
मन्त्रोक्त कर्म और आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) तथा
व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २५ में (ओं प्रजापतये स्वाहा),
पृष्ठ २४-२५ में (ओं यदस्य कर्मणो०) लिखे प्रमाणे २ (दो) आहुति
देकर, नीचे लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति घृत की दें—

ओम् आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान् वाणइवेषुधिम् ।

आ वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥१॥

अथर्व० का० ३ । सू० २३ । मं० २ ॥

ओम् अग्निरैतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् ।
तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदात् स्वाहा ॥१॥

मन्त्रत्रा० १ । १ । १० ॥ आश्व० गृ० १ । १३ । ६ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोलके दो आहुति किये पश्चात्, एकान्त में पत्नी के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले—

ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ ।

मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघं नियाम् ॥१॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १० ॥ आश्व० गृ० १ । १३ । ७ ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ २७—२८ में लिखे प्रमाणे सामवेद आर्चिक और महावामदेव्यगान गा के जो २ पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उनको विदा करदे ।

पुनः षट्पृष्ठ के कोमल कूपल और गिलोय को महीन बांट कपड़े में छान, गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट में सुंघावे । तत्पश्चात्—

द्विरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात प २क आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय द्विषा विधेम ॥१॥

य० अ० १३ । मं० ४ ॥

अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त्तताग्रे ।

तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥२॥

य० अ० ३१ । मं० १७ ॥ पार० गृ० १ । १४ । २ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय स्थान पर हाथ धर के वह मन्त्र बोले—

सुपर्णोऽसि गरुत्मान्निवृत्ते शिरो गायत्रं चतुर्विंशत्यन्तरे पक्षौ ।
 स्तोमं आत्मा छन्दाश्च्यङ्गानि यजुश्चपि नाम ।
 सामं ते तनूर्वोमदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शुफाः ।
 सुपर्णोऽसि गरुत्मान्निर्व्वे गच्छ स्वः पत ॥१॥

य० अ० १२ । मं० ४ ॥ पा० १ । १४ । ५ ॥

इसके पश्चात् स्त्री सुनियम युक्ताहारविहार करे । विशेष कर गिलोय, ब्राह्मी ओषधि और सूठी को दूध के साथ थोड़ी र खाया करे । और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा, कट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक इन्हें आदि न खावे, सूक्ष्म आहार करे । क्रोध, ड्रेप, लोभादि दोषों में न पैसे, चित्त को सदा प्रसन्न रखे, इत्यादि शुभाचरण करे ॥

इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

—:०:—

अथ सीमन्तोन्नयनम् ॥

अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं, जिससे गर्भिणी स्त्री का मन सन्तुष्ट, आरोग्य, गर्भ स्थिर, उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे । इसमें आंग प्रमाण लिखते हैं—
 चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥ १ ॥

आपूर्यमाणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात् ॥२॥

अथास्यै युग्मेन शलालुग्रप्सेन ज्येष्ठाया च शलल्या त्रिभिश्च कुशपिञ्जलैरूर्ध्वं सीमन्तं व्यूहति भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः चतुर्वा ॥३॥ (यह आश्वलायनगृह्यसूत्र, अ० १ । कं० १४ । २, ४ ॥)

पुंश्वनवत्प्रथमे गर्भे मासे षष्ठेऽष्टमे वा ॥ ४ ॥

पार० का० १ । कं० १५ । १ ॥

यह पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण । इस प्रकार गोभिलीय और शौनकगृह्यसूत्र में भी लिखा है ।

अर्थ—गर्भमास से चौथे महीने में, शुक्लपक्ष में जिस दिन पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, मूल, श्रवण, अश्विनी और मृगशिरा आदि पुल्लिङ्ग वाचक नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो, उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करें। और पुंसवन संस्कार के तुल्य छूटे, आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करें ॥१-४॥

अथ विधि—इसमें प्रथम २-२८ पृष्ठ तक की विधि करके (अदितेऽनुमन्यस्व) इत्यादि पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे वेदी से पूर्वादि दिशाओं में जल सेचन करके—

ओं देव सवितुः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय ।
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः
स्वदतु स्वाहा ॥ १ ॥ य० अ० ११ । मं० ७ ॥

इस मंत्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके, आघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) मिल के ८ (आठ) आहुति पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे करके—

ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥

अर्थात् चावल, तिल, मूग, इन तीनों को सम भाग लेके—

ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥

अर्थात् धोके इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कल घी डाल के, निम्नलिखित मन्त्रों से ८ (आठ) आहुति देवें—

ओं धाता ददातु दाशुषे प्रार्चीं जीवातुमुचितम् ।
षयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः* स्वाहा ॥ इदं
धात्रे—इदन्न मम ॥ १ ॥

अथर्व० कां० ७ । सू० १७ । म० २ ॥ आश्व० गृ० १ । १४ ॥

* अथर्ववेद में—“सुमति विश्वराधसः” पाठ है ॥

ओं धाता प्रजानामुत राय ईशे धात्रेदं विश्वं भुवन्नं जजान ।
धाता कृष्टारनिमिपाभिचष्टे धात्र इद्रुव्यं घृतवज्जुहोत स्वाहा ॥
इदं धात्रे-इदन्न मम ॥ २ ॥

ओं राकामहं सुहर्वा सुपृती हुवे शृणोतु नः सुभगा वोषतु
त्मना । सीव्यत्वर्षः सूच्या च्छिद्यमानया ददातु वीरं शत-
दायमुवधयै स्वाहा ॥ इदं राकायै-इदन्न मम ॥ ३ ॥

यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिर्ददामि दाशुषे वसूनि ।
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागाहि सहस्रपापं सुभगे रराणा स्वाहा ॥
इदं राकायै-इदन्न मम ॥ ४ ॥ अ० म० २ । सू० ३२ । म० ४, ५ ॥

नेजमेप परा पत सुपुत्रः पुनरापत ।

अस्यै मे पुत्रकामायै गर्भमा धेहि यः पुमान्स्वाहा ॥ ५ ॥

ययेयं पृथिवी मङ्गुत्ताना गर्भमा दधे ।

एवं तं गर्भमा धेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥ ६ ॥

विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्याम् ।

पुमांसं पुत्राना धेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥ ७ ॥

आच० गृ० १ । १४ । ३ ॥

इन सात मन्त्रों से लिचड़ी की सात आहुति देके, पुनः
(प्रजापते न त्व०) पृष्ठ २५ में लिखित इससे एक, सब मिला के
८ (आठ) आहुति दें । और पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे (ओं प्रजा-
पतये०) मन्त्र से एक भात की, और पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे
(ओं यदस्य कर्मणो०) मन्त्र से एक लिचड़ी की आहुति दें ।

तत्पश्चात् "ओं त्वन्नो अग्ने०" पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणे ८
(आठ) घृत की आहुति, और "ओं भूरस्ये" पृष्ठ २४ में लिखे
प्रमाणे ४ (चार) व्याहृति मन्त्रों से चार आज्याहुति देकर,
पति और पत्नी एकान्त में जा के उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी
के पश्चात् पृष्ठ की ओर बैठ—

ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै
सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥१॥ यजु० अ० ६ । मं० २२ ॥

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम् ।

कविं सस्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥२॥

यजु० अ० ७ । मं० २४ ॥

ओम् अयमूर्जावतो वृक्ष ऊर्जाव फलिनी भव ।

पणं वनस्पते नुत्वा नुत्वा स्रयतां रयिः ॥३॥ पा० १ । १५ । ६ ॥

ओं येनादितः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय ।

तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥४॥

मन्त्रब्राह्मण १ । ५ । १—२ ॥ गो० २ । ७ । ४ ॥

ओं राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।

सीव्यत्वर्षः सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥५॥

ओं यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यार्भिददासि दाशुषे वसनि ।

तार्भिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥६॥

ऋ० मं० २ सू० ३२ । मं० ४, ५ ॥ गो० २ । ७ । ५ ॥

इन मन्त्रों को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तैल डाल कंधे से सुधार, हाथ में उदुम्बर अथवा अर्जुन वृक्ष की शलाका वा कुशा की मृदु छीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के केशों को खच्छ कर, पट्टी निकाल और पीछे की ओर जूड़ा सुन्दर बाँधकर यज्ञशाला में आवें। उस समय वीणा आदि बाजे बजवावें। तत्पश्चात् पृष्ठ २७—२८ में लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करें। पश्चात्—

ओं सोम एव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः ।

अविमुक्तचक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यमसौ* ॥ पा० कां० १ । कं० १५ ॥

* यहाँ किसी नदी का नामोच्चारण करें ॥

आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात् अन्य मन्त्रों का गान करें। तत्पश्चात् पूर्व आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देखे।

उस समय पति स्त्री से पूछे—किं पश्यसि ॥

स्त्री उत्तर देवे—प्रजां पशून् सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्ट्वं पत्युः पश्यामि ॥ गोभिल गृ० २।७।३ ॥

तत्पश्चात् एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती, पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां बैठे प्रसन्नवदन और प्रसन्नता की बातें करें, और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और वे वृद्ध, समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देवें—

ओं वीरसूस्त्वं भव, जीवसूस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥

गोभिल गृ० २।७।१० ॥

ऐसे शुभ माङ्गलिक वचन बोलें। तत्पश्चात् संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को विदा करें ॥

इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

—:०:—

अथ जातकर्मसंस्कारविधिः

इसका समय और प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें—

सोष्यन्तीमन्निरभ्युक्षति ॥ पा० का० १।कं० १६ ॥

इत्यादि पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है। इसी प्रकार आश्वलायन (१।१४।१-३), गोभिलीय (२।७।१-१२) और शौनकगृह्यसूत्रों में भी लिखा है ॥

विधि—जब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जल से मार्जन करे—

ओम् एजंतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । यथापं
वायुरेजति यथा समुद्र एजति । एवायं दशमास्यो अस्रज्ज-
रायुणा सह ॥ यजु० अ० ८ । मं० २८ ॥ पा० १ । १६ । १ ॥

इससे मार्जन करने के पश्चात्—

ओम् अवैतु पृथ्विशेखलशुने जराय्वत्तवे । नैव मात्सेन
पीवरी न कर्मिन्धनापतनमत्र जरायु पद्यताम् ॥ पा० गृ० १ । १६ । २ ॥
इस मन्त्र का जप करके पुनः मार्जन करे ।

कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्भात् सर्पिर्मधुनी हिरण्यनिकापं
हिरण्येन प्राशयेत् ॥ आश्व० १ । १२ । १ ॥

जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि छी लोग बालक के शरीर का जरायु पृथक् कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को दें । पिता जहां वायु और शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बन्धन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके, किञ्चित् उष्ण जल से बालक को स्नान करा, शुद्ध वस्त्र से पूंछ, नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना के, जो प्रसूताघर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रक्खा हो, अथवा ताम्बे के कुण्ड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे चयन कर, पूर्वोक्त सामान्यविध्युक्त पृष्ठ २२-२३ में कहे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान कर, अग्नि को प्रदीप्त करके, सुगन्धित घृतादि वेदी के पास रख के, हाथ पग धोके, एक पीठासन अर्थात् शुभासन पुरोहित* के लिये कुण्ड के दक्षिणभाग में रक्खे, उस पर उत्तराभिमुख बैठे ।

* धर्मात्मा, शास्त्रोक्त विधि-की पूर्णरीति से जाननेहारा, विद्वान्, सद्धर्मी, कुलीन, निर्ब्यसनी, सुशील, वेदप्रिय, पूजनीय, सर्वोपरि गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है ॥

और यज्ञमान अर्थात् बालक का पिता हाथ पग धोके वेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख बैठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिये बोले:—

ओम् आ वसोः सद्ने सीद ॥

तत्पश्चात् पुरोहित—ओं सीदामि ॥

बोल के आसन पर बैठ के पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे “ओम् अयन्त इध्म०” आदि मन्त्रों से वेदी में चन्दन की समिदाधान करे। और प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किये घी की पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिल के ८ (आठ) आज्याहुति देनी। तत्पश्चात्:—

ओं या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति । तां त्वा घृतस्य धारया यजे सराधनीमहम् । सराधिन्यै देव्यै देष्ट्यै स्वाहा ॥ इदं सराधिन्यै—इदञ्च मम ॥ १ ॥

ओं विपश्चित्पुच्छमभरत्तद्वाता पुनराहरत् । परे हि त्वं विपश्चित्पुमानयं जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा ॥ इदं धात्रे—इदञ्च मम ॥ २ ॥

मन्त्रब्राह्मण्य १ । ५ । ६ । ७ ॥ गोभिल गृ० २ । ७ । १५—१७ ॥

इन दोनों मन्त्रों से दो आज्याहुति करके पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे धामदेव्य गान करके, २-६ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करें।

तत्पश्चात् घी और मधु दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर, रक्खी हो उससे बालक की जीभ पर “ओश्मू” यह अक्षर लिखके उसके दक्षिण कान में “वेदोसिति” तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा सुना के पूर्व मिलाये हुये घी और

मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ चटावे:—

ओं प्र ते द्दामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं मघोनाम् ।
आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन् ॥१॥

आश्व० गृ० १ । १५ । १ ॥

मेघां ते मित्रावरुणौ मेघामग्निर्दधातु ते । मेघां ते अश्विनौ
देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ २ ॥ गो० २ । ७ । २१ ॥

ओं भूस्त्वयि दधामि ॥३॥ ओं भुवस्त्वयि दधामि ॥४॥

ओं स्वस्त्वयि दधामि ।५। ओं भूर्भुवःस्वस्सर्वं त्वयि दधामि ।६।
पार० कां० १ । कं १६ । ४ ॥

ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सुनि मेघामया-
सिषुथस्वाहा ॥७॥ ऋ०मं० १ सू० १नामं० ६ ॥ गो० २ । ७ । १६-२२ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से सात बार घृत मधु प्राशन कराके, तत्पश्चात् चावल और जव को शुद्ध कर पानी से पीस वस्त्र से छान एक पात्र में रख के, हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ासा ले के:—

ओरेम् इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम् ॥गो० २ । ७ । १६॥

इस मन्त्र को बोल के बालक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे । यह एक गोभिलीय गृह्यसूत्र का मत है सब का नहीं ।

पश्चात् बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले:—

ओं मेघां ते देवः सविता मेघां देवी सरस्वती । मेघां ते
अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥१॥ आश्व० १ । १५ । २ ॥

ओम् अग्निरायुष्मान् स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन त्वायुषा-
युष्मन्तं करोमि ॥ २ ॥

ओं सोम आयुष्मान् स ओषधीभिरायुष्माँस्तेन०* ॥३॥
 ओं ब्रह्म आयुष्मत् तद् ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन० ॥ ४ ॥
 ओं देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५ ॥
 ओम् ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६ ॥
 ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ७ ॥
 ओं यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्माँस्तेन० ॥ ८ ॥
 ओं समुद्र आयुष्मान् स स्रवन्तीभिरायुष्माँस्तेन त्वायुषा-
 युष्मन्तं करोमि ॥ ९ ॥ पा० कां० १ । १६ । ६ ॥

इन नव मन्त्रों का जप करे । इसी प्रकार बायें कान पर मुख
 धर ये ही नव मन्त्र पुनः जपे । इसके पीछे बालक के कन्धों पर
 कोमल स्पर्श से हाथ धर अर्थात् बालक के स्कन्धों पर हाथ
 का बोझ न पड़े धर के निम्नलिखित मन्त्र बोले:—

ओम् इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ।
 पोषं रयीणामरिंष्टिं तनूनां स्वादानं वाचः सुदिनत्वमहाम् ॥१॥

ऋ० मं० २ । सू० २१ । मं० ६ ॥

अस्मे प्र यन्धि मधवन्नृजीषिभिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरैः ।
 अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराच्छश्वत इन्द्र शिप्रिन् ॥२॥

ऋ० मं० ३ । सू० ३६ । मं० १० ॥

ओम् अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव वेदो वै
 पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १८ ॥ अथा० १ । १५ । ३ ॥

इन तीन मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्:—

* यहाँ पूर्व मन्त्र का शेष (स्वा) इत्यादि उत्तर मन्त्रों के पश्चात् बोले ॥

त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम् ।

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ॥ १ ॥

यजु० अ० ३ । मं० ६२ ॥ पार० १ । १६ । ७ ॥

इस मन्त्र का तीन वार जप करे ।

तत्पश्चात् बालक के स्कन्धों पर से हाथ उठाले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो, वहाँ जा के:—

आ वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रममि श्रितम् । वेदाहं
तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्
शृणुयाम शरदः शतम् ॥ १ ॥ पार० कां० १ । कं १६ । १० ॥

इस मन्त्र का जप करे । तथा:—

यत्ते सुसीमे हृदयम् हितमन्तः प्रजापतौ ।

वेदाहं मन्ये तद् ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम् ॥ २ ॥

यत्पृथिव्याममृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् ।

वेदामृतस्याहं नाम माहं पौत्रमघम् रिषम् ॥ ३ ॥

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः ।

यथायं न प्रमीयते पुत्रो जानिष्या आधि ॥ ४ ॥

यदहश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयम् श्रितम् ।

तदहं विद्वार्थंस्तत्पश्यन् माहं पौत्रमघम् रुदम् ॥ ५ ॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १६—१३ ॥ गोभिल २ । ८ । ४—७ ॥

इस मन्त्रों को पढ़ता हुआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे ।

कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि ।

आहस्पत्यं मासं प्रविशासौ ॥ ६ ॥

स त्वाह्णं परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु रात्रिस्त्वाहो-
रात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वार्द्धमासेभ्यः परिदत्तामर्द्धमा-
सास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्तुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा
संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददात्वसौ ॥७॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १४—१५ ॥ गोभिल २ । ८ । ६—१८ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे । पुनः—

अङ्गादङ्गात्सं५स्रवसि हृदयादधिजायसे ।

प्राणं ते प्राणोन सं दधामि जीव मे यावदायुषम् ॥ ८ ॥

अङ्गादङ्गात्संभवासि हृदयादधिजायसे ।

वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ ९ ॥

अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव ।

आत्मासि पुत्र मा मृथाः स जीव शरदः शतम् ॥१०॥

पशूनां त्वा हिङ्गोरेणाभिजिघाम्यसौ ॥११॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १६—१६ ॥ गोभिल २ । ८ । २१—२५ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का आघ्राण करे, अर्थात्
सूत्रे । इसी प्रकार जब परदेश से आवे वा आवे तब २ भी इस
क्रिया को करे, जिससे पुत्र और पिता माता में अति प्रेम बढ़े ।

ओम् इडामि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः ।

सा त्वं वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकरत् ॥ १ ॥

पारस्कर कां० १ । कं० १६ । १६ ॥

इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता स्त्री को प्रसन्न
करके पश्चात् स्त्री के दोनों स्तन किञ्चित् उष्ण सुगन्धित अन्न
से प्रक्षालन कर पोंछ के—

ओम् इमं५ स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये ।

वत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्बन्तसमुद्रियं५ सदर्नमाविंशस्व ॥१॥

बृह० ब्रा० १७ । मं० ८७ ॥ पार० १ । १६ । २० ॥

इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे । इसके पश्चात्—

ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्योषि ।
यो रत्नघा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥

ऋ० मं० १ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥ पार० १ । १६ । २१ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बालक के मुख में देवे । तत्पश्चात्—

ओम् आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ ।

एवमस्याथ सूतिकायाथ सपुत्रिकायां जाग्रथ ॥ १ ॥

पारस्कर कां० १ । कं० १६ । २२ ॥

इस मन्त्र से प्रसूता स्त्री के शिर की ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के दश रात्रि तक वहीं धर रखले तथा प्रसूता स्त्री प्रसूत स्थान में दश दिन तक रहे, वहां नित्य सायं और प्रातः-काल सन्धिवेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों मिला के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे—

ओं शण्डामर्का उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः । मलि-
म्बुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डा-
मर्काभ्यामुपवीराय शौण्डिकेयायोलूखलाय मलिम्बुचाय
द्रोणेभ्यश्च्यवनाय—इदं न मम ॥ १ ॥

ओम् आलिखन्ननिमिषः किं वदन्त उपश्रुतिः हर्यक्षः
कुम्भीशत्रुः पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्रीमुखः सर्षपारुणश्च्यवनो
नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदमालिखतेऽनिमिषाय किं वदन्त्य
उपश्रुतये हर्यक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय
सर्षपारुणाय च्यवनाय—इदं न मम ॥ २ ॥

पारस्कर कां० १ । कं० १६ ॥

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके, पश्चात् अच्छे अच्छे विद्वान् धार्मिक वैदिक मत वाले बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आशीर्वादरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित होके करें—

मा नो हासिषुर्ऋषयो दैव्या ये तनुपा ये नस्तन्वस्तिनूजाः ।
अर्पत्या मर्त्या अभि नः सचध्वर्मायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥१॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ४१ । मं० ३ ॥

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् ।
शतं जीवन्तः शरदः पुरुचीस्तिरो मृत्युं दधत्तां पर्वतेन ॥२॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ४१ । मं० २३ ॥

विवस्वाज्ञो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः ।
इहेमे वीरा वहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मध्यस्तु पुष्टम् ॥ ३ ॥

अथर्व० कां० १८ । सू० ३ । मं० ६१ ॥

इति जातकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ नामकरणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणम्—नाम चास्मैदद्युः ॥१॥ घोषवदाद्यन्त-
रन्तःस्थमभिनिष्ठानन्तं द्व्यक्षरम् ॥२॥ चतुरक्षरं वा ॥३॥
द्व्यक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चसकामः ॥ ४ ॥
युग्मानि त्वेव पुंसाम् ॥ ५ ॥ अयुजानि स्त्रीणाम् ॥ ६ ॥
अभिवादनीयं च समीचेत तन्मातापितरौ विदध्यातामोप-
नयनात् ॥ ७ ॥ यह आश्वलायन गृह्यसूत्र [१ । १२ । ४-१०] में ।

तथा पारस्कार गृह्यसूत्र में—

दशम्यामुत्थाप्य* पिता नाम करोति ॥ १ ॥ द्व्यक्षरं
चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानं कृत कुयार्त्त
तद्धितम् ॥ २ ॥ अयुजाक्षरमाकारान्तं ५ स्रियै तद्धितम् ॥ ३ ॥
शर्म ब्रह्मण्यस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य ॥ ४ ॥

पार० १ । १७ १-४ ॥

इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्र में भी लिखा है ।
'नामकरण' अर्थात् जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम धरे ॥

नामकरण का काल—जिस दिन जन्म हो उस दिन से ले के
१० दिन छोड़ ११ वें वा १०१ (एकसौ एक) वें अथवा दूसरे
वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे ।

जिस दिन नाम धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट
मित्र हितैषी लोगों को बुला यथावत् सत्कार कर, क्रिया का
आरम्भ यजमान बालक का पिता और ऋत्विज करें ।

पुनः पृष्ठ २-२८ में लिखे प्रमाणों सब मनुष्य ईश्वरोपासना,
स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण और सामान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि
करके आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४
(चार) और पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणों (त्वं नो अग्ने) इत्यादि आठ
मन्त्रों से ८ (आठ) आहुति अर्थात् सब मिलके १६ घृताहुति करें ।

तत्पश्चात् बालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध वस्त्र पहिना के
उसकी माता कुरड के समीप बालक के पिता के पीछे से आ,
दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के
बालक के पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति
के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे ।

तत्पश्चात् पिता उस बालक का उत्तर में शिर और दक्षिण

* पारस्कार गृह्यसूत्र में—'ब्राह्मणान् भोजयित्वा' पाठ अधिक मिलता है ॥

में पग करके अपनी पत्नी को देवे । पश्चात् जो उसी संस्कार के लिये कर्त्तव्य हो प्रथम उस प्रधान होम को करे । पूर्वोक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध कर रखे, उसमें से प्रथम घी का चमसा भर के—

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इस मन्त्र से १ आहुति देकर, पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस नक्षत्र क देवता के नाम से ४ (चार) आहुति देनी ।

अर्थात् एक तिथि, दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चौथी नक्षत्र के देवता के नाम से, अर्थात् तिथि नक्षत्र और उनके देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोल के (चार) घी की आहुति देवे । जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, तो:—

ओं प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओम् अश्विन्यै स्वाहा । ओम् अश्विन्यां स्वाहा* ॥ गोभि० प्र० २ ख० ८, सू० ६, १२ ॥

* तिथिदेवताः—१ ब्रह्मन् । २-त्वष्टृ । ३-विष्णु । ४-यम । ५-सोम । ६-कुमार । ७-मुनि । ८-वसु । ९-शिव । १०-धर्म । ११-रुद्र । १२-वायु । १३-काम । १४-अनन्त । १५-विरवेदेव । १६-पितर ।

नक्षत्रदेवताः—अश्विनी-अश्वी । भरणी-यम । कृत्तिका-अग्नि । रोहिणी-प्रजापति । मार्गशीर्ष-सोम । आर्द्रा-रुद्र । पुनर्वसु-अदिति । पुष्य-बृहस्पति । अश्लेषा-सर्व । मघा-पितृ । पूर्वाफाल्गुनी-भग । उत्तराफाल्गुनी-अर्यमन् । हस्त-सवितृ । चित्रा-त्वष्टृ । स्वाति-वायु । विशाखा-चन्द्राग्नी । अनुराधा-मित्र । ज्येष्ठा-इन्द्र । मूल-निर्ऋति । पूर्वाषाढा-अप । उत्तराषाढा-विरवेदेव । अवध-विष्णु । धनिष्ठा-वसु । शतभिषज्-वसु । पूर्वाभाद्रपदा-अजपात् । उत्तराभाद्रपदा-अहिर्बुध्न्य । रेवती-पूषन् ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ २४ में लिखी हुई खिष्टकृत मन्त्र से एक आहुति, और पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे ४ (चार) व्याहृति आहुति दोनों मिल के ५ आहुति देके, तत्पश्चात् माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे, और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करके—

कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य ते नामा-
भन्महि यं त्वा सोमेनातीतृपाम । भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजामिः
स्याथ सुवीरो वीरैः सुपोषुः पोषैः ॥ य० अ० ७ । म० २६ ॥

ओं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । आहस्पत्यं
मासं प्राविशासौ ॥ म० ब्रा० १ । ५ । १४ ॥ गो० २ । ८ । १६ ॥

जो यह “असौ” पद है, इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम, अर्थात् जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्षर का घोषसंज्ञक और अन्तःस्थ वर्ण अर्थात् पाँचों वर्णों के दो दो अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और य, र, ल, व ये चार वर्ण नाम में अवश्य आवें ॥

जैसे देव अथवा जयदेव, ब्राह्मण हो तो देवशर्मा, क्षत्रिय हो

ॐ ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ण, द, ध, न, त, म, ये स्पर्श और य, र, ल, व ये चार अन्तःस्थ और ह एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम, में होने चाहियें और स्वरों में से कोई भी स्वर हो । जैसे (भद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, भवः, भवनाथः, नागदेवः, रुद्रदत्तः, हरिदेवः) इत्यादि, पुरुषों का समाक्षर नाम रखना चाहिये तथा स्त्रियों का विपमाक्षर नाम रखे । अन्य में दीर्घ स्वर और तद्धितान्त भी होवे । जैसे (श्री, ही, यशोदा, सुखदा; गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणक्रोडा) इत्यादि । परन्तु स्त्रियों के इस प्रकार के नाम कभी न रखें, उसमें प्रमाणः—

नर्त्तवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पद्यद्विप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम् ॥ मनु० ३ । ६ ॥

जो देववर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त और शुद्ध हो तो देवदास इत्यादि । और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे— श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि । नामों को प्रसिद्ध बोलके, पुनः “असौ” पद के स्थान में बालक का नाम धर के, पुनः “ओं कोऽसि०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना ।

ओं स त्वाङ्गे परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु रात्रि-
स्त्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वाद्दमामेभ्यः परिदत्ता-
मर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्त्सुभ्यः परिदद-
त्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जरायै
परिददातु, असौ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १५ ॥ गो० २ । ८ । १४ ॥

इन मन्त्रों से बालक को पुनः जैसा जातकर्म में लिख आये हैं वैसे आशीर्वाद देवे । इन प्रमाणों बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुये मनुष्यों को वह नाम सुना के पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणों महावामदेव्यगान करे ।

तत्पश्चात् कार्यार्थ आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे । और सब लोग जाते समय पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणों परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करके बालक को आशीर्वाद देवें कि—

“हे बालक ! त्वमायुष्मान् वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान् भूयाः” ॥

हे बालक ! तू आयुष्मान्, विद्यावान्, धर्मात्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोपकारी, श्रीमान् हो ॥

इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

(ऋच) रोहिणी, रेवती इत्यादि (वृच) आम्ना, अश्लथा, बदरी इत्यादि, (नदी) गङ्गा, यमुना इत्यादि, (अन्य) चाण्डाली इत्यादि, (पर्वत) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि, (पत्नी) श्येनी, काकी इत्यादि, (अहि) सर्पिणी, नागी इत्यादि, (प्रेश्य) दासी, किङ्करी इत्यादि, (भयंकर) भीमा, भयंकारी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥

अथ निष्क्रमणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

—> ++ 卐 ++ <—

‘निष्क्रमण संस्कार’ उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें, अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें। इसमें प्रमाणः—

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चतुरिति ॥

यह पारस्कर गृह्यसूत्र १।१७।५, ६ का वचन है ॥

जननद्यस्तृतीयां ऽधौ-स्तस्तस्य तृतीयायाम् ॥

यह गोभिल गृह्यसूत्र २।८।१—५ में भी है ॥

अर्थः—निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं—एक बालक के जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे ॥

उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात् बालक को शुद्ध जल से स्नान करा शुद्ध सुन्दर वस्त्र परिधान कराये। पश्चात् बालक को यज्ञशाला में बालक की माता ले आके पति के दाक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात् चित्ता रख के पति के हाथ में देवे। पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बायें पार्श्व में पूर्वाभिमुख आकर बैठ जावे।

ओं यत्ते सुमीमे हृदयं हितमन्तः प्रजापतौ ।

वेदाहं मन्ये तद् ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम् ॥१॥

ओं यत्पृथिव्याममृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् ।

वेदामृतस्याहं नाम माहं पौत्रमघं रिषम् ॥२॥

ओम् इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः ।

यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या आधि ॥३॥

म० ब्रा० १।५।१०—१२ ॥ गोभिल २।८।१—५ ॥

निष्कमण्यप्रकरणम्

इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करने में लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, श. आदि सामान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि कर और पुत्र । इनसे पुत्र के शिर को स्पर्श करके निम्नलिखित मन्त्र ओम् अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादाधिजायसे आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ १ ॥ ओं प्रजापतेधृवा हिङ्कारेणावाजिघामि । सहस्रायुषाऽसौ जीव शरदः शतम् ॥ २ ॥ गवां त्वा हिङ्कारेणावाजिघामि । सहस्रायुषाऽसौ जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥

पार० कां० १ । कं० १८ । २ ॥

तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे:—

अस्मे प्र यन्धि मधवन्नृजीपिन्द्वा राधो विश्वारस्य भूरः ।
अस्मे शतशरदो जीवसे धा अस्मे वीरान्ध्रश्चत इन्द्र शिप्रिन् । १ ।

ऋ० मं० ३ । सू० ३६ । मं० १० ॥

इन्द्र श्रेष्ठानि द्विष्टानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ।
पोषं रगीणामरिष्टिं तनूनां स्वादानं वाचः सुदिनत्वमहाम् । २ ।

ऋ० मं० २ । सू० २१ । मं० ६ ॥ पा० ११८ । ६ ॥ आश्व० १ । १५ । ३ ॥

इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्त्री के शिर का स्पर्श करे । तत्पश्चात् आनन्द-पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और निम्नलिखित मन्त्र वहाँ बोले:—

ओं तच्चतुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पर्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

य० अ० ३६ । मं० २४ ॥ पा० १ । १७ । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के थोड़ासा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके यज्ञशाला में ला, सब लोगः—

“त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ॥”

इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवें । तत्पश्चात् बालक के माता और पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें । तत्पश्चात् जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता लङ्के को शुद्ध बखर पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे, और बालक की माता दाहिनी ओर से लौट कर बाईं ओर आ अञ्जलि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खड़ी रह केः—

ओं यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं भितम् ।

तदहं विद्वाथस्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघं रुदम् ॥

मं० ब्रा० १ । ५ । १३ ॥ गोभिल २ । ८ । ६, ७ ॥

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथिवी पर छोड़ देवे । तत्पश्चात् बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श्व से सन्मुख आके पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर बाईं ओर आ बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे । और बालक का पिता जल की अञ्जलि भर (ओं यददश्च०) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवें ॥

इति निष्क्रमण संस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथान्नप्राशनविधिं वक्ष्यामः ॥

अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अन्न पच योग्य होवे । इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र १।१६।१-३ का प्रमाण—

पष्ठे मास्यन्नप्राशनम् ॥१॥ घृतौदनं तेजस्कामः ॥२॥

दधिमधुघृतामिश्रितमन्नं प्राशयेत् ॥ ३॥

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसुत्रादि में भी है ॥

छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे । जिसको तेजस्वी बालक करना हो वह घृतयुक्त भात अथवा दही, सहित और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन करावे, अर्थात् पूर्वोक्त पृष्ठ २-२८ में कहे हुए सम्पूर्णविधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिनाङ्क संस्कार करे । और निम्न लिखे प्रमाणों भात सिद्ध करे—

ओं प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । ओम् अपानाय त्वा० । ओम् चक्षुषे त्वा० । ओम् श्रोत्राय त्वा० । ओम् अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥

इन पाँच मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को धो, शुद्ध करके अच्छे प्रकार बनाना, और पकते हुये भात में यथायोग्य घृत भी डाल देना । जब अच्छे प्रकार पक जावें तब उतार थोड़े ठण्डे हुए पश्चात् होमस्थाली में—

ओं प्राणाय त्वा जुष्टं निर्वपामि । ओम् अपानायत्त्वा० । ओम् चक्षुषे त्वा० । ओम् श्रोत्राय त्वा० । ओम् अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥

इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्त्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पात्र में पृथक् २ देके, पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणों अग्न्याधान, समिदाधानादि करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) मिल के ८ (आठ) घृत की आहुति देके, पुनः उस पकाये हुए भात की आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रों से देवे—

ओं देवीं धार्चमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति ।
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुर्हाना धेनुर्धागस्मानुप सुष्टुतैतु स्वाहा ॥

इदं वाचे—इदन्न मम ॥१॥ ऋ० सं० ८ । सू० १०० सं० ११ ॥

संस्कारविधिः

न सुवादिने दानं वाजो देवो र ऋषिभिः
 हि मा सन्निवीरं ज्ञान विश्वा ग गशा
 त् ॥ इदं प्राचे वाजाय—इदं न मम ॥२॥
 १८ । मं० ३३ ॥ पा० १ । १६ । २— २३ ॥
 दो आहुति देवे । तत्पश्चात् उसी भात में

वाहा ॥ इदं प्राणाय—इदं न मम ॥१॥
 शीय स्वाहा ॥ इदं मपानाय—इदं न मम ॥२॥
 ण्य स्वाहा ॥ इदं चक्षुषे—इदं न मम ॥३॥

श्रोत्राय य२ य स्वाहा ॥ इदं श्रोत्राय—इदं न मम ॥४॥
 पार० का० १ । कं० १६ । ४ ॥

इन मन्त्रों से ४ (चार) आहुति देके, (ओं यद्द य कर्मणो०),
 पृष्ठ २४ में लि० स्वियकृत् आहुति एक देवे । तत्पश्चात् पृष्ठ
 २४ में लि० व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २६-२७ में
 लिखे (ओं त्व नो०) इत्यादि से ८ (आठ) आज्याहुति मिला
 के १२ (बारह) आहुति देवे । उसके पीछे आहुति से बचे
 हुए भात में दही मधु और उसमें घी यथाशोष्य किंचित् २
 मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल बनाये हुए शोड़े
 मिला के बालक रुचि के प्रमाणे—

ओम् अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीदस्य शुभिसु
 अन्नं दातारं तारिषु ऊर्जे नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥

यजु० अ० ११ । मं० ८३ ॥ आश्व० १ । १६ । २ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख
 में देवे । यथारुचि खिला बालक का मुख छो और अपने हाथ
 धो के पृष्ठ २७—२८ में लि० आर्चिक ४ और महावामदेव्यगा

करके जो बालक के माता पिता और अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्रार्थना करके—

“त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भूयाः ॥”

इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके, पश्चात् संस्कार में आये हुए पुरुषों का सत्कार बालक का पिता और स्त्रियों का सत्कार बालक की माता करके सबको प्रसन्नतापूर्वक विदा करें।

इत्यन्नप्राशनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ चूडाकर्मसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

यह आठवाँ संस्कार चूडाकर्म है, जिसको केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र १।१७।१, २ का मत ऐसा है:—

तृतीये वर्षे चौलम् ॥ १ ॥ उत्तरतोऽग्नेर्ब्रीहियवमापतिलानां
पृथक्पूर्णाशरावाणि निदधाति ॥ २ ॥

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्रादि में भी है—

सांवत्सरिकस्य चूडाकरणम् ॥ पार० २।१।१ ॥

इसी कार गोभिलीय गृह्यसूत्र का भी मत है ॥

यह चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना। उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्द मङ्गल हो उस दिन यह संस्कार करे ॥

विधिः—आरम्भ में पृष्ठ २-२८ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एक में चावल, दूसरे में यव, तीसरे में उर्द और चौथे शरावे में तिल भर के वेदी के उत्तर में धर देवे। धर के पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे “ओम् अदितेऽनुमन्यस्व०” इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू और पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे “ओं देव सवितः प्रसुव०” इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका

के पूर्व पृष्ठ २२—२३ में लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त करके, जो समिधा प्रदीप्त हुई हो उस पर लक्ष्य देकर पृष्ठ २४ में आघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २६—२७ में लि० ८ (आठ) आज्याहुति सब मिल के १६ (सोलह) आहुति देके, पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे 'ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आर्युषि०' इत्यादि मन्त्रों से चार आज्याहुति प्रधान होम की देके, पश्चात् पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ और स्विष्टकृत् मन्त्र से एक आहुति मिलके पांच घृत की आहुति देवे, इतनी क्रिया करके कर्मकर्त्ता परमात्मा का ध्यान करके नाई (नापित) की ओर प्रथम देख के:—

ओम् आयमगन्तवित्ता नुरेणोष्णो न वाय उदकेनेहि । आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सर्चेतसः सोमस्य राज्ञो वपत् प्रचेतसः ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ । मं० १ ॥ गो० २ । ६ १० ॥

इस मंत्र को जप करके, पिता बालक के पृष्ठभाग में बैठ के किञ्चित् उष्ण और किञ्चित् ठण्डा जल दोनों पात्रों में लेके—
उष्णो न वाय उदकेनेहि* ॥ पार० कां० २ । कं० १ । १६ ॥

इस मन्त्र को बोल के दोनों मात्रों का जल एक पात्र में मिला देवे । पश्चात् थोड़ा जल थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई लेके—

ओम् आदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।

चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय वर्चसे ॥ १ ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ । मं० २ ॥ आ० १ । १७ । ७ ॥

ओं सवित्रा प्रसृता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनूं दीर्घायुत्वाय वर्चसे ॥ २ ॥ पारस्कर० २ । कं० १ । ६ ॥

इन मन्त्रों को बोल के बालक के शिर के बालों में तीन बार हाथ फेर के केशों को भिगोवे । तत्पश्चात् कंधा लेके केशों को सुधार के इकट्ठा करे, अर्थात् बिखरे न रहें । तत्पश्चात्—

ओम् ओषधे त्रायस्वैनम् ॥ गोमि० २ । ८ । १०-१७ ॥

इस मन्त्र को बोल के तीन दर्भ लेके दाहिनी धाजू के केशों के समूह को हाथ से दबा के—

ओं विष्णोर्दशष्टोऽसि ॥

मं० ब्रा० १ । ६ । ४ ॥ गोमि० २ । ८ । १०-१७ ॥

इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के —

ओं शिषो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः ॥ य० अ० ३ । मं० ६३ ॥ पा० २ । १ । ११ ॥

इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे । तत्पश्चात्—

ओं स्वधिते मेनः हिंसीः ॥ य० अ० ४ । मं० १ ॥ ब्रा० १ । १७ । ३ ॥

ओं निर्वर्त्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ य० अ० ३ । मं० ६३ ॥ पा० २ । ११ ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को केशों के समीप ले जाके—

ओं येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान् ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ । मं० ३ ॥ ब्रा० १ । १७ । १० ॥

इस मन्त्र को बोल के कुशासहित उन केशों को काटे * । और वे काटे हुए केश और दर्भ शमीवृक्ष के पत्रसहित, अर्थात्

*केशछेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ कर अर्थात् दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे । यदि छुरे के बदले कैंची से काटे तो भी ठीक है ॥

यहाँ शमीवृक्ष के पत्र भी प्रथम से रखने चाहियें, उन सब को लड़के का पिता और लड़के की मा एक शरावा में रक्खे और कोई केश छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोबर से उठा के शरावा में अथवा उसके पास रक्खे। तत्पश्चात् इसी प्रकार—

ओं येन धाता बृहस्पतेरग्रेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत् ।

तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

आश्व० १ । १७ । १२ ॥

इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी प्रकार शरावा में रक्खे। तत्पश्चात्—

ओं येन भूयश्चरात्यं ज्योक् च पश्यति सूर्यम् ।

तेन ते आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

आश्व० १ । १७ । १२ ॥

इस मन्त्र से तीसरी वार उसी प्रकार केशसमूह को काट के, उपरि उक्त तीन मन्त्रों अर्थात् “ओं येनावपत्०” “ओं येन धाता०” “ओं येन भूयश्च०” और—

ओं येन पूषा बृहस्पतेर्वायोर्रिन्द्रस्य चावपत् ।
तेन त वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय वर्चमे ॥

गोमिल २ । ८ । ११-१२ ॥

इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चौथी वार इसी प्रकार केशों के समूह को काटे। अर्थात् प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने की विधि पूर्ण हुए पश्चात् बाईं ओर के केश काटने की विधि करे। तत्पश्चात् उसके पीछे आगे के केश काटे। परन्तु चौथी वार काटने में “येन पूषा ०” इस मन्त्र के बदले—

ओं येन भूरिश्वरा दिवं ज्योक् च पश्चाद्धि सूर्यम् ।

तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

पार० २ । १ । १६ ॥

यह मन्त्र बोल के चौथी वार छेदन करे। तत्पश्चात्—

ओं ज्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ज्यायुषम् ।
यद्देवेषु ज्यायुषं तन्नो अस्तु ज्यायुषम् ॥

यजु० अ० ३ । मं० ६२ ॥ पार० २ । १ । १४ ॥

इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक बार काट के इसी (ओं ज्यायुषं०) मन्त्र को बोलते जाना और ओंशे हाथ के पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात् छुरा नाई के हाथ में देके—

ओं यत्क्षुरेण मर्चयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान्
शुन्धि शिरो मास्यायुः प्र मोषीः ॥ आश्व० १ । १७ । १५ ॥

इस मन्त्र को बोल के, नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज करा के, नापित से बालक का पिता कहे कि इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल हाथ से भिजो, सावधानी और कोमल हाथ से क्षौर कर, कहीं छुरा न लगने पावे । इतना कह के कुण्ड सं उत्तर दिशा में नापित को लेजा, उसके सम्मुख बालक को पूर्वाभिमुख बैठा के जितने केश रखने हों उतने ही केश रक्खे । परन्तु पांचों ओर थोड़ा २ केश रक्खावे अथवा किसी एक ओर रक्खे, अथवा एक बार सब कटवा देवे, पश्चात् दूसरी बार से केश रखने अच्छे होते हैं ।

जब क्षौर हो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा व धरा हुआ देने योग्य पदार्थ वा शरावा आदि कि जिनमें प्रथम अन्न भरा था नापित को देवे । और मुण्डन किये हुए सब केश, दर्भ, शमीपत्र और गोबर नाई को देवे, यथायोग्य उसको धन वा वस्त्र भी देवे । और नाई केश, दर्भ, शमीपत्र और गोबर को जंगल में लेजा गढ़ा खोद के उसमें सब डाल ऊपर से मिट्टी से दाब देवे, अथवा गोशाला, नदी, वा तालाब के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देवे, ऐसा नापित से कह दे अथवा किसी को साथ भेज देवे, यह उससे उक्त प्रकार करा लेवे ।

क्षौर हुए पश्चात् मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिर पर लगा के स्नान करा उत्तम वस्त्र पहिना के बालक को पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के, पृष्ठ २७-२८ में सामवेद का आर्चिक और महावाम-देव्यगान करके, बालक की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें। और जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यानकरके—

“ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ॥”

इस मन्त्र को बोल बालक को आशीर्वाद देके अपने २ घर को पधारें और बालक के मातापिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न रखें ॥

इति चूडाकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ कर्णवेधसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणम्—कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा ॥१॥

[पार० १ । १७ की टीका में जो पदार्थक्रम गदाधरजी का है, पारस्कर मेडीक० हाल काशी १६५२ में छपे पुस्तक के २३६ पृष्ठ पर है ॥]

यह कात्यायन गृह्यसूत्र १—२ का वचन है। बालक के कर्ण वा नासिका के वेध का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वर्ष का उचित है। जो दिन कर्ण वा नासिक के वेध का उहराया हो, उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान और वस्त्रालङ्कार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में लावे। पृष्ठ २—२८ तक में लिखा हुआ सब विधि करे। और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा खिलौना धर के—
ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥१॥

ऋ० मं० १ । सू० ८६ । मं० ८ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के चरक सुश्रुत वैद्यक ग्रन्थों के जानने वाले सदैव के हाथ से कर्ण वा नासिका वेध करावें कि जो नाड़ी आदि को घवा के वेध कर सके ।

पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान, और—

चक्षयन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिष्वजाना ।

यापैव शिङ्गे वितताधि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती । २।

ऋ० मं० ६ । सू० ७५ । मं० ३ ॥ पा० १ । १७ पदार्थक्रम ॥

इस मन्त्र को पढ़के दूसरे घामकर्ण का वेध करे । तत्पश्चात् वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रखे कि जिससे छिद्र पूर न जावें और ऐसी ओषधि उस पर लगावे जिसस कान पकें नहीं और शीघ्र अच्छे हो जावें ॥

इति कर्णवेधसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथोपनयनसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

अत्र प्रमाणानि—

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥ गर्भाष्टमे वा ॥ २ ॥

एकादशे क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशे वैश्यम् ॥ ४ ॥ आपोडशाद्

ब्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥ ५ ॥ आद्वाविंशात्क्षत्रियस्य,

आचतुर्विंशाद्वैश्यस्य, अत ऊर्ध्वं पतितसात्रित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र १ । १६ । १—६ का प्रमाण है ।

इसी प्रकार पारस्करादि गृह्यसूत्रों का भी प्रमाण है ॥

अर्थः—जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, उससे (आठवें) वर्ष में ब्राह्मण के घालक का, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के, और जन्म वा गर्भ से बारहवें

❀ यह नाम समीप नयन अर्थात् प्राप्त करना व होना ॥

वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा ब्राह्मण के १६ (सोलह), क्षत्रिय के २२ (बाईस) और वैश्य के २४ (चौबीस) से पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिये। यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें ॥ १—६ ॥

श्लोकः—ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे।

श्रीं बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यंहार्थिनोऽष्टमे ॥ मनु० २।३७ ॥

यह मनुस्मृति का वचन है कि जिसको शोभ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ स पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भसे छठे और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें, परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात् हुआ होवे। उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं। जब बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा दें।

यज्ञोपवीत का समय—उत्तरायण सूर्य और—

वमन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्। ग्रीष्म राजन्यम्। शरदि वैश्यम्।
सर्वकालमके ॥ यह शतपथ ब्राह्मण २।१३।५ का वचन है पाठभेद ॥

अर्थः—ब्राह्मण का बसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद् ऋतु में यज्ञोपवीत करें। अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है, और इसका प्रातःकाल ही समय है ॥
पयोत्रां ब्राह्मणो यवागूत्रतां राजन्य आमिक्षात्रतो वैश्यः ॥

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है ॥ गो० २।१०।७ की टीका ॥

जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा एक व्रत बालक को कराना चाहिये। उन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का एक वार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का 'यवागू' अर्थात् यव को मोटा

१ जैसे कि कढ़ी होती है वैसी बना
 'प्रामिच्छा' अर्थात् जिसको श्रीखण्ड वा
 १ जो दही चौगुना दूध एक गुना तथा
 डाल के कपड़े में छानकर बनाया जाता
 ढ़का पी के व्रत करे। अर्थात् जब जब
 तब २ तीनों वर्ण के लड़के इन तीनों
 अन्य पदार्थ कुछ न खावें पीयें ॥

दिन उपनयन करना हो, उसके पूर्व दिन
 रुद्र याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे।
 -२८ में सब कुण्ड के समीप सामग्री
 का चौर करा, शुद्ध जल से स्नान करा
 यज्ञमण्डप में पिता वा आचार्य बालक
 जन कराके वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर
 बैठे। और बालक का पिता और पृष्ठ
 गोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने २ आसन
 नादि किया करें।

बालक के मुख से:—

द्विचार्यसानि ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥
 आचार्यः—

इस्पतिर्वासः पर्यदधादभृतम् ।
 गुणे दीर्घायुत्वाय वलाय वर्चसे ।

पार० कां० २ । कं० २ । ७ ॥

कहते हैं कि जो साक्षात्पाङ्ग वेदों के शब्द, अर्थ,
 ननेहारा, छल कपट रहित, अतिप्रेम से सब
 गरी, तन, मन और धन से सबको सुख बढ़ाने
 गत किसी का न करे और सत्योपदेश सब का
 होवे ॥

इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर-वस्त्र और उपवस्त्र पहिनावे। पश्चात् बालक आचार्य के सन्मुख बैठे और यज्ञोपवीत हाथ में लेके—

ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।

आयुष्यमग्र्यं प्रतिगृञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥१॥

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥२॥

पार० का० २ । २ । ११ ॥

इन मन्त्रों को बोल के आचार्य बायें स्कन्धे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटि तक धारण करावे।

तत्पश्चात् बालक को अपने दाहिने ओर साथ बैठा के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण का पाठ करके समिदाधान अग्न्याधान कर (ओम् अदितेऽनुमन्यस्व०) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्रों से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका, पश्चात् आज्याहुति करने का आरम्भ करना।

वेदी में प्रदीप्त हुई समिधा को लक्ष्य में धर चमसा में आज्य-स्थाली से घी ले, आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहुति आहुति ४ (चार) तथा पृष्ठ २६-२७ में आज्याहुति ८ तीनों मिल के १६ (सोलह) घृत की आहुति दे के, पश्चात् बालक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शाकल्य बनाया हो, उसकी आहुतियां निम्नलिखित मन्त्रों से दिलानी। (ओं भूर्भुवःस्वः। अग्न आयूंषि०) पृष्ठ २५ में ४ (चार) आज्याहुति देवे। तत्पश्चात्—

ओम् अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छ-
केयम् । तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि स्वाहा॥ इदमग्नये-
इदं न मम ॥१॥

ओं वायो व्रतपते०* स्वाहा ॥ इदं वायवे—इदं न मम ॥२॥

ओं सूर्य व्रतपते० स्वाहा ॥ इदं सूर्याय—इदं न मम ॥३॥

ओं चन्द्र व्रतपते० स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय—इदं न मम ॥४॥

ओं व्रतानां व्रतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय व्रतपतये—इदं न मम ॥५॥

मं० ब्रा० १।६।३—१३ ॥ गोमिन्न २।१०।१६ ॥

इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहुति दिलानी ।

उसके पीछे पृष्ठ २४ में व्याहृति आहुति ४ (चार) और स्विष्टकृत् आहुति १ (एक) और प्राजापत्याहुति १ (एक), ये सब मिल के छः घृत की आहुति देनी । सब मिल के १५ (पन्द्रह) आहुति बालक के हाथ से दिलानी ।

उसके पश्चात् आचार्य यज्ञकुराड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे, और बालक आचार्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बैठे । तत्पश्चात् आचार्य बालक की ओर देख के—

ओम् आगन्त्रा समगन्महि प्र सु मर्त्य युयोतन ।

अरिष्टाः संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम् ॥

मं० ब्रा० १।६।१४ ॥ गोमिन्न २।१०।२०—२२ ॥

इस मन्त्र का जप करे ।

माणवकवाक्यम्—ओं ब्रह्मर्चयमागामुपमानयस्व ॥

मं० ब्रा० १।६।१६ ॥ गोमिन्न २।१०।२०—२२ ॥

आचार्योक्तिः—को नामासि × ॥ गो० २।१०।२२—२३ ॥

बालकोक्तिः—एतन्नामास्मि+ ॥ मं० ब्रा० १।६।१ ॥

तत्पश्चात्—

* इसके आगे 'व्रतं चरिष्यामि' इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये ॥

× तेरा नाम क्या है, ऐसा पूछना ॥ + मेरा यह नाम है ॥

ओम् आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ताः न ऊर्जे दधातन ।
महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

यो वः शिवर्तमो रसस्तस्य भाजययतेह नः ।
उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।
आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥

ऋ० मं० १० । सू० ६ । मं० १—३ ॥ पा० २ । २ । १४ ॥

इन तीन मन्त्रों को पढ़ के, बटुक की दक्षिण हस्ताञ्जलि शुद्धोदक से भरनी ।

तत्पश्चात् अपनी हस्ताञ्जलि भरके:—

ओं तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठ सर्वधातमं
तुरं भगस्य धीमहि ॥ ० १।सू० ८२ । मं० १ ॥ आ० १ । २०।१॥

इस मन्त्र को पढ़ के आचार्य अपनी अञ्जलि का जल बालक की अञ्जलिमें छोड़ के, बालक की हस्ताञ्जलि अंगुष्ठसहित पकड़ के:—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां
हस्तं गृह्णाम्यसौ ❀ ॥ य० अ० ५ । मं० २६ ॥ आ० १ ॥ २० । ४ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के बालक की हस्ताञ्जलि का जल नीचे पात्र में छोड़ा देना ।

इसी प्रकार दूसरी वार अर्थात् प्रथम आचार्य अपनी अञ्जलि भर बालक की अञ्जलि में अपनी अञ्जलि का जल भर के अंगुष्ठसहित हाथ पकड़ के:—

ओं सविता ते हस्तमग्रभीत्, असौ ॥ आ० १ । २० । ५ ॥

पुनः इसी प्रकार तीसरी वार आचार्य अपने हाथ में जल भर पुनः बालक की अञ्जलि में भर अंगुष्ठसहित हाथ पकड़:—

❀ 'असौ' इस पद के स्थान में बालक का सम्बोधनान्त नामोच्चारण सर्वत्र करना चाहिये ॥

ओम् आग्निराचार्यस्तव, असौ ॥ मं० ब्रा० १।६।१५। आ० १।२०।५।
तीक्ष्णरी धार बालक की अञ्जलि का जल छुड़वा के बाहर
निकल सूर्य के सामने खड़े रह देख के, आचार्यः—

ओं देव सवितरेप त ब्रह्मचारी ते गोपाय समायुत ॥

आ० १।२०।६॥

इस एक और पृष्ठ ६७ में लिखे (तच्चतुर्देवहितम्० ॥ पा०
२।२।१५) इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूर्याव-
लोकन करा, बालकसहित आचार्य सभामण्डप में आ यज्ञकुण्ड
की उत्तर वाजू की ओर बैठ केः—

ओं युवा सुवामाः वरिषीत आगात्स उ भ्रेयान् भवति
जायमानः ॥ अ० मं० ३। सू० ८। मं० ४॥ आ० १।२०।८॥

ओं सूर्यम्यावृणमन्वावर्त्तस्व, असौ ॥ गोमिल २।१०।२८॥

इस मन्त्र को पढ़े। और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके
आचार्य के सम्मुख बैठे।

पश्चात् आचार्य बालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण
हाथ से स्पर्श करे, और पश्चात् अपने हाथ को धूल से
आच्छादित करके—

ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्त्रसोऽन्तक इदं ते परिददामि,
अमुम् ॥ १॥ गो० २।१०।२८॥

इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्—

ओम् अहूर इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ २॥

इस मन्त्र से उदर पर। औरः—

ओं कृशान इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ ३॥

इस मन्त्र से हृदय।

ॐ 'असौ' और 'अमु' इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालक का
नामोच्चारण करना चाहिये।

ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध । और:—

ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥ ५ ॥

मं० ब्रा० १ । ६ । २१—२४ ॥ गोभिल २ । १० । २८, ३४ ॥

इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्पर्श करके, बालक के हृदय पर हाथ धरके:—

ओं तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योः मनसा देवयन्तः ॥

ऋ० मं० ३ । सू० ८ । मन्त्र ४ ॥ आ० १ । २० । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के आचार्य सम्मुख रहकर, बालक के दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रखके:—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु ।

मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्वा नियुक्तु ममाम् ॥

पार० कां० । २ । कं० २ । १६ ॥

आचार्य यह प्रतिज्ञा मन्त्र बोले । पश्चात् बालक को बोलने की आज्ञा दे । अर्थात् हे शिष्य बालक ! तेरे हृदय को मैं अपने आधीन करता हूँ, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे, और तू मेरी वाणी को एकाग्रमन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर, और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति, परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे ।

इसी प्रकार शिष्य भी आचार्य से प्रतिज्ञा करावे कि—हे आचार्य ! आपके हृदय को मैं अपने कर्म अर्थात् उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ । मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे । आप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिये, और परमात्मा मेरे लिये आपको सदा नियुक्त रखे ।

इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके—

आचार्योक्तिः—को नामाऽसि ॥ तेरा क्या नाम है ?

बालकोक्तिः—अहम्भोः ॥ मेरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे ।

आचार्यः—कस्य ब्रह्मचार्य्यसि ॥ तू किसका ब्रह्मचारी है ?

बालकः—भवतः ॥ पार० कां० २ कं० २ ॥ आपका ।

आचार्य बालक की रक्षा के लिये—

इन्द्रस्य ब्रह्मचार्य्यस्यमिराचार्य्यस्तवाहमाचार्य्यस्तत्र असौः ॥

पार० कां० २ । कं० २ । १८—२० ॥

इस मन्त्र को बोलने, बालक की रक्षा के लिये आचार्यः—

ओं कस्य ब्रह्मचार्य्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्य्यसि कस्तत्रा

ऋमुपनयते काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ आश्व० १ । २० । ७ ॥

ओं प्रजापतये त्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे
परिददामि । अद्भ्यस्त्वौषधीभ्यः परिददामि । द्यावापृथिवीभ्यां
त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा
भूतेभ्यः परिददाम्पगिष्ट्यै ॥ २ ॥ पार० कां० २ । कं० २ । २१ ॥

इन मन्त्रों को बोल बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि
की विद्या के लिये गन्तवान् हो ।


यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात् यदि उसी दिन वेदा-
रम्भ करने का विचार पिता और आचार्य का हो, तो उसी
दिन करना, और जो दूसरे दिन का विचार हो तो पृष्ठ २७-२८
में लिखे आर्चिक और महाधामदेव्यगान करके, संस्कार में आई
हुई स्त्रियों का बालक की माता और पुण्यों का बालक का
पिता सत्कार करके विदा करे । और माना पिता आचार्य
सम्बन्धी इष्ट मित्र सब मिल के:—

ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः । आयुष्मान् तेजस्वी
वर्चस्वा भूयाः ॥

इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

३ 'असौ' इस पद के स्थान में सर्वत्र बालक का नामोच्चारण करना चाहिये ॥

अथ वेदारम्भसंस्कारविधिर्विधीयते ॥



'वेदारम्भ' उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग * चारों वेदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना ॥

समयः—जो दिन उपनयन संस्कार का है, वही वेदारम्भ का है । यदि उस दिवस में न हो सके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे । यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे ॥

विधिः—जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो, उस दिन प्रातः काल शुद्धोदक से स्नान कराके शुद्ध वस्त्र पहिना, पश्चात् कार्यकर्त्ता अर्थात् पिता यदि पिता न हो तो आचार्य बालक को लेके उत्तमासन पर वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठे ।

तत्पश्चात् २-१३ तक में ईश्वरस्तुति + प्रार्थनोपासना स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण करके पृष्ठ २१ में (ओं भूर्भुवःस्व०) इस मन्त्र से अग्न्याधान पृष्ठ २२ में (ओम् अयन्त इधम०) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान, पृष्ठ २३ में (ओम् अदितेऽनुमन्यस्व०) इत्यादि तीन मन्त्रों से कुरण्ड के तीनों ओग, और (ओं देव सधितः०) इस मन्त्र से कुरण्ड के चारों ओर जल छिटका के, पृष्ठ २२ में (ओम् उदबुध्यस्वाग्ने०) इस मन्त्र से

ॐ अङ्ग—शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष् ।
उपाङ्ग—पूर्वमीमांसा, वैशेषिक न्यय, योग, सांख्य और वेदान्त ।
उपवेद—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अथर्ववेद अर्थात् शिल्पशास्त्र ।
ब्राह्मण—ऐतरेय शतपथ, साम और गोपथ । वेद—ऋक् यजु, साम और अथर्व इन सब को म से पढ़े ॥

+जो उपनयन किये पश्चात् उसी दिन वेदारम्भ करे, उसको पुनः वेदारम्भ के आदि में ईश्वरस्तुति, प्रार्थनोपासना और शान्तिप्रकरण करना आवश्यक नहीं ॥

अग्नि को प्रदीप्त करके, प्रदीप्त समिधा पर पृष्ठ २४ में आघारा-
वाज्यभोगाहुति ४ (चार), व्याहृति आहुति ४ (चार) और
पृष्ठ २६—२७ में आज्याहुति आठ, मिलके १६ (सोलह)
आज्याहुति देने के पश्चात् प्रधान ४ होमाहुति दिलाके, पश्चात्
पृष्ठ २४ में व्याहृति आहुति ४ (चार) और स्पष्टकृत् आहुति
१ (एक), पृष्ठ २५ में प्राजापत्याहुति १ (एक) मिलकर छः
आज्याहुति बालक के हाथ से दिलानी । तत्पश्चात्—

ओम् अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । ओं यथा त्वमग्ने
सुश्रवः सुश्रवा असि । ओम् एवं मां सुश्रवः सुश्रवसं कुरु ।
ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि । ओम्
एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयामम् ॥

पार० कां० २ । कं० ४ । १—२ ॥

इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना ।

तत्पश्चात् बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करके पृष्ठ २३ में
लिखे प्र० “अदितेऽनुमन्यस्व” इत्यादि ४ (चार) मन्त्रों से कुण्ड
के सब ओर जल लिखन करके बालक कुण्ड के दक्षिण की
ओर उत्तराभिमुख खड़ा रहकर, घृत में भिजो के एक समिधा
हाथ में ले—

ओम् अग्नये समिधमाहार्षं वृहते जातवेदसे । यथा
त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहम-
सान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्व्यन्नादो भूयास ५
स्वाहा ॥ पार० कां० २ । कं० ४ । ३ ॥

० ‘प्रधान होम’ उसको कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया जाता है ॥

समिधा को वेदिस्थ अग्नि के मध्य में छोड़ देना । इसी प्रकार दूसरी और तीसरी समिधा छोड़े ।

पुनः “ओम् अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं०” इस मंत्र से वेदिस्थ अग्नि को इकट्ठा करके पृष्ठ २३ में लिखे प्र० “ओम् अदितेऽनुमन्यस्व०” इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जल सेचन करके, बालक वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठ के, वेदी के अग्नि पर दोनों हाथों को थोड़ा सा तपा के हाथ में जल लगाः—

ओ तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि ॥ १ ॥

ओम् आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि ॥ २ ॥

ओं वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥ ३ ॥

ओं अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण ॥ ४ ॥

ओं मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥ ५ ॥

ओं मेघा मे देवी सरस्वती आदधातु ॥ ६ ॥

ओं मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ ॥७ ॥

पार० कां० २ । कं० ४ ॥

जल स्पर्श करके, इन सात मन्त्रों से सात बार किञ्चिद् हथेली उष्ण कर मुख स्पर्श करना । तत्पश्चात् बालक—

ओं वाक् च म आप्यायताम् ॥१॥ इस मन्त्र से मुख ।

ओं प्राणश्च म आप्यायताम् ॥२॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार ।

ओं चक्षुश्च म आप्यायताम् ॥३॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र ।

ओं श्रोत्रञ्च म आप्यायताम् ॥४॥ इस मन्त्र से दोनों कान ।

ओं यशो बलञ्च म आप्यायताम् ॥ ५ ॥ पार० २ । ४ । ८० परि० ॥

इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे ।

ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्याग्निस्तेजो दधातु । मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । मयि मेधां मयि

प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं
तेजस्वी भूयासम् । यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् ।
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् ।

आश्र० अ० १ । कं० २१ । सू० ४ ॥

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड
की उत्तर बाजू की ओर जाके, जानू को भूमि में टेक के पूर्वा-
भिमुख बैठे। और आचार्य बालक के सन्मुख पश्चिमाभिमुख बैठे।

बालकोक्तिः—अधीहि भूः सावित्रीं भो अनुबृहि ॥

आश्र० १ । २१ । ४ ॥

अर्थात् आचार्य से बालक कहे कि—हे आचार्य ! प्रथम एक
ओंकार पश्चात् तीन महाव्याहृति तत्पश्चात् सावित्री ये त्रिक
अर्थात् तीनों मिल के परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश
कीजिये ।

तत्पश्चात् आचार्य एक बख अपने और बालक से कन्धे पर
रख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अञ्जलि को
पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन बार करके गायत्री
मन्त्रोपदेश करे—

प्रथम बार—ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम् ।

इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से कराके,
दूसरी बार—ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

एक २ पद से यथावत् धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी बार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

धीरे २ इस मन्त्र को बुलवा के, संक्षेप से इनका अर्थ भी
नीचे लिखे प्रमाणे आचार्य सुनावे—

अर्थः—(ओ३म्) यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं, (भूः) जो प्राण का भी प्राण, (भुवः) सब दुःखों से छुड़ानेहारा (स्वः) स्वयं सुखस्-रूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति करनेहारा है, उस (सवितुः) सब जगत् को उत्पत्ति करने वाले. सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय करानेहारे परमात्मा का, जो (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, (भर्गः) सब क्लेशों को भस्म करनेहारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है, (तत्) उसको हम लोग (धामहि) धारण करें, (यः) यह जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में (प्रचोदयात्) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर ही का स्तुति प्रार्थनोपासना करने और इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये ।

इस प्रकार अर्थ सुनाये । पश्चात्—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु ।
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम् ॥

पार० कां० २ । कं० २ । १६ ॥ आ० १ । २१ । ७ ॥

इस मन्त्र से बालक और आचार्य पूर्ववत् दृढ़ प्रतिज्ञा करके
ओं इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णा पवित्र पुनती म आगात् ।
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलयम् ॥

पार० कां० २ । कं० २ । ८ ॥

इस मन्त्र से आचार्य सुन्दर, चिकनी, प्रथम बना के रक्खी
हुई मेखला * को बालक के कटि में बांध के—

ॐ ब्राह्मण को मुञ्ज वा दर्भ की, क्षत्रिय को धनुष संज्ञक तुण वा चत्कल की और वैश्य को ऊन वा शण की मेखला होना चाहिये ॥

ओं युवा सुवासाः परिर्वीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः ।
तं धीरासः क्वय उन्नयन्ति स्वाध्योऽ मनमा देवयन्तः ॥

ऋ० मं० ३ । सू० ८ । मन्त्र ४ ॥ पार० २ । २ । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के, दो शुद्ध कौपीन, दो अङ्गोष्ठे और एक उत्तरीय और दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी का आचार्य देवे । और उन में से एक कौपीन, एक कटिवस्त्र और एक उपज्ञा बालक को आचार्य धारण करावे ।

तत्पश्चात् आचार्य दण्ड * हाथ में लेके सामने खड़ा रहे, और बालक भी आचार्य के सामने हाथ जोड़—

ओं यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽधिभूम्याम् ।

तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चमाय ॥

पार० कां० २ । कं० २ ॥

इस मन्त्र को बोल के, आचार्य के हाथ से दण्ड ले लेवे । तत्पश्चात् पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश करे ।

ब्रह्मचार्यासि असौ+ ॥ १ ॥ अपो अशान ॥ २ ॥ कर्म
कुरु ॥ ३ ॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचार्याधीनो
वेदमधीष्णु ॥ ५ ॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं गृहाण
वा ब्रह्मचर्यं चर ॥ ६ ॥ आ० १ । २२ । २—३ ॥

* ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा बिल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को घट वा खदिर का ललाट भ्रू तक, वैश्य को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दण्ड प्रमाण है । और वे दण्ड चिकने सूधे हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुए न हों । और एक २ मृगचर्म उनके बैठने के लिये, एक २ जलपात्र, एक २ उपपात्र और एक २ आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिये ॥

+ 'असौ' इस पद के स्नान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे ।

आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरणात् ॥ ७ ॥ क्रोधानृते
 वर्जय ॥८॥ मैथुनं वर्जय ॥९॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥१०॥
 कौशीलवगन्धाब्जनानि वर्जय ॥११॥ अत्यन्तं स्नानं भोजनं
 निद्रां जागरणं निन्दां लोभमोहभयशोकान् वर्जय ॥१२॥
 प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा
 दन्तधावनस्नानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनायोगभ्या
 सान्नित्यमाचर ॥१३॥ द्युरकृत्यं वर्जय ॥१४॥ मांसरूक्षाहारं
 मद्यादिपानं च वर्जय ॥१५॥ गवाश्वहस्त्युष्ट्रादियानं वर्जय ॥१६॥
 अन्तर्ग्रामनिवासोपानच्छत्रधारणं वर्जय ॥ १७ ॥ अकामतः
 स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलनं विहाय वीर्यं शरीरे
 संस्त्र्याध्वरेताः सततं भव ॥१८॥ तैलाभ्यङ्गमर्दनात्यम्लाति-
 तिक्तकषायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व ॥१९॥ नित्यं युक्ता-
 हारविहारवान् विद्योपार्जने च यत्नवान् भव ॥२०॥ सुशीलो
 मितभाषी सभ्यो भव ॥१२॥ मेखलादण्डधारणभैक्ष्यचर्य-
 समिदाधानोदकस्पर्शनाचार्यप्रियाचरणाप्रातःसायमभिवादनवि-
 धासंचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्माः ॥ २२॥

गोमिल ३ । १ । १५—२६ ॥

अर्थः—तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १ ॥ नित्य सन्ध्योपासन
 भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥२॥ दुष्ट कर्मों
 को छोड़ धर्मयुक्त कर्म किया कर ॥३॥ दिन में शयन कभी मत
 कर ॥४॥ आचार्य के आधीन रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने
 में पुरुषार्थ किया कर ॥५॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये बारह २
 वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् ४८ वर्ष तक वा जबतक साङ्गोपाङ्ग
 चारों वेद पूरे हों तबतक अखरिडत ब्रह्मचर्य कर ॥६॥ आचार्य
 के आधीन धर्माचरण में रहा कर, परन्तु यदि आचार्य अधर्माचरण

वा अधर्म करने का उपदेश करे, उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत कर ॥७॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे ॥ ८ ॥ आठ * प्रकार के मैथुन को छोड़ देना ॥ ९ ॥ भूमि में शयन करना, पलङ्ग आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौशीलव अर्थात् गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कर्म, गन्ध और अञ्जन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर ॥ १२ ॥ रात्रि के चौथे पहर में जाग, आवश्यक शौचादि दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ क्षौर मत करा ॥ १४ ॥ मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खावे और मद्यादि मत पीवे ॥१५॥ गो यान—वैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि की सवारी मत कर ॥ १६ ॥ गांव अर्थात् वस्ती में निवास और जूता और छत्र का धारण मत कर ॥ १७ ॥ लघु-शंका के विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पर्श से वीर्यस्खलन कभी न करके वीर्य को शरीर में रख के निरन्तर ऊर्ध्वरेता अर्थात् नीचे वीर्य को मत गिरने दे, इस प्रकार यत्न से वर्त्ता कर ॥ १८ ॥ तैलादि से अङ्गमर्दन, उबटना, अति खट्टा अमली आदि, अति तीखा लालमिर्ची आदि, कसेला हरड़े आदि, क्षार अधिक लवण आदि और रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर ॥१९॥ नित्य युक्ति से आहार विहार करके विद्याग्रहण में यत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील, थोड़े बोलनेवाला, सभा में बैठने योग्य गुण ग्रहण कर ॥२१॥ मेखला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण अग्नि-होत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण प्रातःसार्ध

* जी का ध्यान, कथा, स्पर्श क्रीड़ा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवास और समागम, यह आठ प्रकार का मैथुन कहाता है, जो इनको छोड़ देना है, वही महाचारी है ॥

आचार्य को नमस्कार करना, ये तेरे नित्य करने के और जो निषेध किये वे नित्य न करने के कर्म हैं ॥ २२ ॥

जब यह उपदेश पिता कर चुके, तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वैसा ही करूंगा ।

तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा, मौसी, चाची आदि जो भिक्षा देने में नकार न करें उनसे भिक्षा * लेवे, और जितनी भिक्षा मिले वह आचार्य के आगे धर देनी । तत्पश्चात् आचार्य उसमें से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख छोड़े ।

तत्पश्चात् बालक को शुभासन पर बैठा के पृष्ठ २७—२८ में लिखे वामदेव्यगान को करना । तत्पश्चात् बालक पूर्व रक्खी हुई भिक्षा का भोजन करे । पश्चात् सायंकाल तक विश्राम और गृहाश्रम संस्कार में लिखी विधि सन्ध्योपासन आचार्य बालक के हाथ से करावे ।

और पश्चात् ब्रह्मचारी सहित आचार्य कुण्ड के पश्चिम भाग में आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे और स्थालीपाक अर्थात् पृष्ठ १५ में लिखे प्र० भात बना, उसमें घी डाल, पात्र में रख पृष्ठ २२ में लि० समिदाधान कर पुनः समिधा प्रदीप्त कर आघा-रावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिल के ८ (आठ) आज्याहुति देनी ।

* ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान् भिक्षां ददातु” और स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु”, और क्षत्रिय का बालक “भिक्षां भवान् ददातु” और स्त्री से “भिक्षां भवती ददातु”, वैश्य का बालक “भिक्षां ददातु भवान्” और “भिक्षां ददातु भवती” ऐसा वाक्य बोल के ॥

तत्पश्चात् ब्रह्मचारी खड़ा हो के पृष्ठ ८७ में "ओम् अग्ने सुश्रवः०" इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे। तत्पश्चात् बालक बैठे के यज्ञकुण्ड की अग्नि से अपना हाथ तथा पृष्ठ २१ में पूर्ववत् मुख का स्पर्श करना।

तत्पश्चात् पृष्ठ १० में लिखे प्र० बनाये हुए भात को बालक आचार्य को होम और भोजन के लिये देवे। पुनः आचार्य उस भात में से आहुति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उसमें घी मिला—

ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सुनि
मेघामयासिषु स्वाहा ॥ इदं सदसस्पतये—इदं न मम ॥१॥

य० अ० ३२ । मं० १३ ॥ आश्व० १ । २२ । मं० १ ॥

तत्सत्रितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोद-
यात् ॥ इदं सवित्रे—इदं न मम ॥२॥ यजु० अ० २२ । मं० ६ ॥

ओम् ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदं ऋषिभ्यः—इदं न मम ॥३॥

आश्व० अ० १ । कं० २२ । सू० १२ ॥

इन तीन मन्त्रों से तीन अर्थात् एक २ मन्त्र से एक २ आहुति देके और पृष्ठ २४ में लि० (ओं यशस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से चौथी आहुति देवे। तत्पश्चात् पृष्ठ २४ में लि० व्याहृति आहुति ४ (चार) पृष्ठ २६-२७ में (ओं त्वं नो०) इन ८ (आठ) मन्त्रों से आज्याहुति ८ (आठ) मिलकर १२ (बारह) आज्याहुति देके, ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ २७-२८ में लि० वामदेव्यगान आचार्य के साथ करके—

अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तमभिवादये ॥ गो० २ । १० । २५ ॥

ऐसा वाक्य बोल के आचार्य का वन्दन करे। और आचार्य—

आयुष्मान् विद्यावान् भव सौम्य ॥ ॥

ऐसा आशीर्वाद देके, पश्चात् होम से बचे हुए हविष्य अन्न और दूसरे भी सुन्दर मिष्ठान्न का भोजन आचार्य के साथ

अर्थात् पृथक् २ बैठ के करें। तत्पश्चात् हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आये हों उनको यथायोग्य भोजन करा. तत्पश्चात् स्त्रियों को स्त्री और पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूर्वक विदागीरी करें। और सब जने बालक को निम्नलिखितः—

हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान् शरीरात्मबलयुक्तः कुशली
वीर्यवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्याऽस्मान् दिदृक्षुः सन्नागम्याः ॥

ऐसा आशीर्वाद दे के अपने २ घर को चले जायें

तत्पश्चात् ब्रह्मचारी ३ (तीन) दिन तक भूमि में शयन,
प्रातःसायं पृष्ठ ८७ में लि० (ओमग्ने सुश्रवः०) इस मन्त्र से
समिधा होम और पृष्ठ २२ में लि० मुख तथा अङ्गस्पर्श आचार्य
करावे। तथा तीन दिन तक (सदसस्पति०) इत्यादि पृष्ठ ६५
में लि० ४ (चार) स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से
ब्रह्मचारी के हाथ से करवावे और ३ (तीन) दिन तक क्षार
त्वण रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी किया करे।

तत्पश्चात् पाठशाला में जाके गुरु के समीप विद्याभ्यास
करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा आचार्य भी करे।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रींस्तिस्त्र उदरं विमर्त्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥१॥

इयं समित्पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधापृणाति ।

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकस्तपसा पिपर्त्ति ॥२॥

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ण्यं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः ।

स सद्य एति पूर्वेस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्मंगृम्य मुहुराचारिकत् ॥३॥

ब्रह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।

आचार्यो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ४ ॥

ब्रह्मचयेण कन्यार्ह युवानं विन्दते पतिम् ॥ ५ ॥

ब्रह्मचारी ब्रह्म-भ्राजद् विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः ।

प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० ११ । सू० २ । म० ३, ४, ६, १७, १८, २४ ॥

संक्षेप से भाषार्थ—जो आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूर्वक समीप रख के ३ (तीन) रात्रि पर्यन्त गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्या स्थापना करने के लिये उसको धारण कर और उसको पूर्ण विद्वान् कर देता है और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिये सब विद्वान् लोग सन्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं ॥ १ ॥

जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अग्नि में होम कर ब्रह्मचर्य व्रत के को नियमपूर्वक सेवन करके विद्या पूर्ण करने को दृढोत्साही होता है, वह जानो पृथिवी, सूर्य और अन्तरिक्ष के सदृश सब का पालन करता है, क्योंकि वह समिदाधान, मेखलादि चिह्नों का धारण और पश्चिम से विद्या पूर्ण करके इस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सदगुण और आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २ ॥

जब विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादि धारण कर दीक्षित होके (दीर्घशमश्रुः) ४० (चालीस) वर्ष तक डाढ़ी मूँछ आदि पञ्चकेशों का धारण करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, वह पूर्ण समुद्ररूप ब्रह्मचर्यानुष्ठान को पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात् गृहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है । वह सब लोगों का संग्रह करके बारम्बार पुरुषार्थ और जगत् को सत्योपदेश से आचन्द्रित कर देता है ॥ ३ ॥

वही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचर्यरूप तपस्सरूप से पूर्ण विद्वान् सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य को विविध प्रकार से पालन करता है। और वही विद्वान् ब्रह्मचारी की इच्छा करे और आचार्य हो सकता है जो यथावत् ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४ ॥

जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो ही के अपने सदृश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवति हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात् साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शब्द अर्थ और सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक धारण करता है, तभी प्रकाश मान् होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और स विद्वान् उससे मित्रता करते हैं। वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ही से प्राण, दीर्घर्जवन, दुःख क्लेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय परमात्मा और श्रेष्ठ प्रज्ञा का धारण करके सब मनुष्यों के हित के लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता है। ६ ॥

ब्रह्मचर्यकाल—इसमें छान्दोग्योपनिषद् के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड का प्रमाण है—

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥ १ ॥

शत० १४ । ६ । १० ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत् प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते इदं सर्वं वासयन्ति ॥ २ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति मा

खानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो भवति ॥ ३ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य द्वा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एतं हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥४॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति गृह्मप्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो इ भवति ॥ ५ ॥

अथ यान्ष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत् तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादिन्या अन्वा-
पत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते ॥ ६ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुगनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो इव भवति ॥७॥

छान्दोग्य० अ० ३ । ख० १६ । १—६ ॥

अर्थः— जो बालक को ५ (पांच) वर्ष की आयु तक माता पांच से ८ (आठ) तक पिता ८ (आठ) से ४८ (अड़तालीस), ४४ (चवालीस) ४० (चालीस), ३६ (छत्तीस), ३० (तीस) तक अथवा २५ (पच्चीस) वर्ष तक आचार्य तथा कन्या को ८ (आठ) से २४ (चौबीस), २२ (बाईस), २० (बीस), १८ (अठारह) अथवा १६ (सोलह) वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान् होकर धर्मार्थ काम मोक्ष के व्यवहारों में अतिचतुर होते हैं ॥ १ ॥

यह मनुष्य-देह यज्ञ अर्थात् अच्छे प्रकार उसको आयु आदि से सम्पन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ (चौबीस) वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पुरुष और १६ (सोलह) वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम यथावत् पूर्ण, जैसे २४ (चौबीस) अक्षर का गायत्री छन्द होता है वैसे करे । वह प्रातःसवन कहाता है, जिससे इस मनुष्य-देह के मध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं, जो बलवान् होकर सब शुभ गुणों को शरीर, आत्मा और मन के बीच में वास कराते हैं ॥ २ ॥

जो कोई इस २५ (पच्चीस) वर्ष के आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को विवाह वा विषयभोग करने का उपदेश करे, उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण, मन और इन्द्रिय २५ (पच्चीस) वर्ष तक ब्रह्मचर्य से बलवान् न हुए तो मध्यम सवन जो कि आगे ४४ (चवालीस) वर्ष तक का ब्रह्मचर्य कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामर्थ्य न हो सकेगा, किन्तु प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य को सिद्ध करता है, इसलिये क्या मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूँ कि जो इस शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सब शुभ गुण, कर्म और स्वभाव के साधन करनेवाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य-देह धारण के फल से विमुक्त रहूँ ? और सब आश्रमों के मूल, सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म और सब के मुख्य कारण ब्रह्मचर्य को खरिडत करके महा-दुःखसागर में कभी न डूवूँगा । किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगरहित होता है, इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोप मैं कभी न करूँगा ॥ ३ ॥

और जो ४४ (चवालीस) वर्ष तक अर्थात् जैसा ४४

चवालीस) अक्षर का त्रिष्टुप् छन्द होता है तद्वत् जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणों को प्राप्त होता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती और वह सब दुष्ट कर्म करनेवालों को सदा रुलाता रहता है ॥ ४ ॥

यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले से कोई कहे कि इस ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो, उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्याश्रम सेवन से होता और विषयसम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है, वह ब्रह्मचर्य को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं। इसलिये उस सर्वोत्तम सुख प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य का लोप न करके ब्रह्मचर्याश्रम बलवान् आयुष्मान् धर्मात्मा हो के सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होऊँगा। तुम्हारे निर्वुद्धियों के कहने से शीघ्र विवाह करके सुख और अपने-कुल को नष्ट अष्टकभी न करूँगा ॥ ५ ॥

अब ४८ (अड़तालीस) वर्ष पर्यन्त जैसा कि ४८ (अड़तालीस) वर्ष का जगती छन्द होता है वैसे इस उत्तम ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या, पूर्ण बल, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण शुभ गुण, कर्म, स्वभावयुक्त अर्थवत् प्रकाशमान होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ ६ ॥

यदि कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छोकरोँ के छोकरे मुझ से दूर हो। तुम्हारे दुर्गन्धरूप अष्ट वचनों से मैं दूर रहता हूँ। मैं इस उत्तम ब्रह्मचर्य का लोप कभी न करूँगा। इसको पूर्ण करके सर्व रोगों से रहित, सर्वविद्यादि शुभ गुण, कर्म, स्वभाव सहित जीऊँगा। इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण

करे जिससे मैं तुम निर्बुद्धियों को उपदेश और विद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे बालकों को आनन्दयुक्त कर सकूँ ॥ ७ ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्-
रिहाणिश्वेति । तत्राषोडशाद् वृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् ।
आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्वेति ॥१॥*

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमाभारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥२॥

यह धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतग्रन्थ अ० ३५ † का प्रमाण है।

अर्थ—इस मनुष्य-देह की ४ अवस्था हैं—एक वृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी संपूर्णता, चौथी किञ्चित् हानि करने-हारी अवस्था है। इनमें १६ (सोलहवें) वर्ष आरम्भ २५ (पच्चीसवें) वर्ष में पूर्तिवाली वृद्धि की अवस्था है। जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह जैसे कुल्हाड़े से काटे वृक्ष वा डण्डे से फूटे घड़े के समान अपने

असुभ्रत, सूत्रस्थान, अध्याय ३५ में ऐसा पाठ है—

वयस्तु त्रिविधं बाल्यं, मध्यं वृद्धिमिति । तत्रोनषोडशवर्षीया बालाः ।
ते त्रिविधाः—क्षीरपा क्षीरान्नादा आन्नादा इति । तेषु संवत्सरपराः क्षीरपा-
द्विसंवत्सरपराः क्षीरान्नादाः । परतो अन्नादा इति । षोडशसप्तत्योरन्तरे वर्ष-
षयः तस्य विकल्पो वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता परिहाणिश्वेति । तत्र आचत्वारिंशद्वृद्धिः
आचत्वारिंशतो यौवनम्, आचत्वारिंशतः सर्वधात्विन्द्रियबलवीर्यसम्पूर्णता,
अत ऊर्ध्वमीशत्परिहाणिर्यावत्सप्ततिरिति । सप्तत्येकैर्ध्वं वीर्यमायाधात्विन्द्रिय-
बलवीर्योत्साहमहान्यहनि वक्षीपक्षितस्त्रक्षिस्पर्शुष्टं काससासप्रवृत्तिभिर-
प्रवैरभिभूयमानं सर्वक्रियास्वसमर्थं जीर्णानारमिवाभिवृष्यवसीदन्तं वृद्ध-
मचक्षते ॥

† इस पर ३१ पृष्ठ पर की टिप्पणी देखो ॥

सर्वस्व का नाश करके पश्चात्ताप करेगा । पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा । और दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ (पच्चीसवें) वर्ष से और पूर्ति ४० (चालीसवें) वर्ष में होती है । जो कोई इसको यथावत् संरक्षित न कर रक्खेगा वह अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट कर देवेगा । और तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० (चालीसवें) वर्ष में होती है । जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी, परस्त्रीत्यागी, एकस्त्रीव्रत, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह भी बना बनाया धूल में मिल जायगा । और चौथी ४० (चालीसवें) वर्ष में यावत् निर्वीर्य न हो तावत् किञ्चित् हानिरूप अवस्था है । यदि किञ्चित् हानि के बदले वीर्य की अधिक हानि करेगा वह भी राज्यक्षमा और भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो जायगा । और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रक्खेगा, वह सर्वदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा ॥१॥

अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्री और पुरुष के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है, किन्तु उतना सामर्थ्य २५ (पच्चीसवें) वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामर्थ्य स्त्री के शरीर में १६ (सोलहवें) वर्ष में हो जाता है । यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५ (पच्चीस) वर्ष का पुरुष और १६ (सोलह) वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य सामर्थ्य वाले होते हैं ॥ २ ॥

इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना, वह अधम विवाह है । और जो १७ (सत्रह) वर्ष की स्त्री और ३० (तीस) वर्ष का पुरुष, १८ (अठारह) वर्ष की स्त्री और छत्तीस वर्ष का पुरुष, १६ (षष्ठीस) वर्ष की स्त्री ३८ (अड़तीस) वर्ष का पुरुष विवाह करे तो इसको मध्यम समय जानो । और जो २० (बीस), २१

(इक्कीस), २२ (बाईस) वा २४ (चौबीस) वर्ष की ली ४० (चालीस), ४२ (बयालीस), ४६ (छयालीस) और ४८ (अड़तालीस) वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है । हे ब्रह्मचारिन् ! इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि तुम्हको आगे के आश्रमों में काम आवेंगे ।

जो मनुष्य अपने सन्तान कुल, सम्बन्धी और देश की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई बातों का यथावत् आचरण करें—

श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।
 पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥ १ ॥
 बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।
 कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाखादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥
 एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।
 यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।
 संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ ४ ॥
 इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्वसंशयम् ।
 संनियम्यं तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ५ ॥
 वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तेषांसि च ।
 न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ६ ॥
 वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥ ७ ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ ८ ॥

मनु० २ । ४ ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ९ ॥

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १० ॥

न हायनैर्न पालितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ ११ ॥

न तेन वृद्धो भवति येनाभ्य पालितं शिरः ।

यो वै शुवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३ ॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिषु ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १४ ॥

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन् द्विजोत्तमः ।

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५ ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६ ॥

यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ १७ ॥

श्रद्धधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।
 अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥१८॥
 विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।
 विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥१९॥

मनु० अ० २ । श्लो० १३१, १३३—१३७, १६२, १६४, १६८,
 २१८, २३८, २४० ॥

अर्थ—कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ
 (मूत्र का मार्ग), हाथ, पग, बायीं ये दश (१०) इन्द्रिय इस
 शरीर में हैं ॥ १ ॥

इसमें कर्ण आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पांच
 कर्मेन्द्रिय कहते हैं ॥ २ ॥

ग्यारहवां इन्द्रिय मन है, वह अपने स्मृति आदि गुणों से
 दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है कि जिस मन के
 जीतने में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते हैं ॥३॥

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान्
 ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुये इन्द्रियों के
 रोकने में सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥

ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी
 होजाता है और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके
 ही पश्चात् सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

जिस का ब्राह्मणपन (सम्मान नहीं चाहना वा इन्द्रियों को
 वश में रखना आदि) बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव (वर्णा-
 श्रम के गुण कर्म) बिगड़े हैं, उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग
 अर्थात् संन्यास लेना, यज्ञ (अग्निहोत्रादि) करना, नियम
 ब्रह्मचर्याश्रम आदि) करना, तप (निदा, स्तुति और हानि,
 लाभ आदि इन्द्र का सहन) करना आदि कर्म कदापि सिद्ध

नहीं हो सकते, इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत् पालन करके सिद्धि को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित् २ पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७ ॥

बुद्धिमान् ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमों का सेवन नित्य करे केवल नियमों का नहीं, क्योंकि यमों* को न करता हुआ और केवल नियमों + का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है, इसलिये यम सेवन पूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे ॥ ८ ॥

अभिषादन करने का जिसका स्वभाव और विद्या वा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है, उसकी अवस्था, विद्या, कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचार्य, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने वृद्धों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ॥ ९ ॥

अन्न अर्थात् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता और जो मन्त्रद अर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा, विद्या विचार में निपुण है वह पितास्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अन्न जन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता ही कहा है, इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम सपन्न होकर ज्ञानवान् विद्यावान् अवश्य होना चाहिये ॥ १० ॥

* अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ निर्धैरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, धीररक्षण और विषयभोग में धृष्टा वे ५ यम हैं ॥

+ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

शौच, सन्तोष, तप (हानि क्षाम आदि इन्द्र का सहना), स्वाध्याय (वेद का पढ़ना), ईश्वरप्रणिधान (सर्वस्व ईश्वरार्पण) ये पांच नियम कहते हैं ॥

धर्मवेत्ता ऋषिजनो न न वर्षो, न पके केशो वा भूलते
हुए अङ्गो, न धन और न बधुजनों से बड़प्पन माना, किन्तु यही
धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वादविवाद में उत्तर
देनेवाला अर्थात् वक्ता हो वह बड़ा है। इससे ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न
होकर विद्यावान् होना चाहिये, जिससे कि संसार में बड़प्पन
प्रतिष्ठा पावें और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हों ॥११॥

उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शिर
भूल जाय, केश पक जावें। किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ
विद्वान् है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है। इससे
ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १२ ॥

जैसे काठ का कठपुतला हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया
हुआ मृग हो, वैसे बिना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात् ब्राह्मण वा
बुद्धिमान् जन होता है। उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों
नाममात्र धारण करते हैं। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न
होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥

ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे
और अमृत के समान अपमान की आकांक्षा सर्वदा करे, अर्थात्
ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिये भिक्षामात्र मांगते भी कभी मान
की इच्छा न करे ॥ १४ ॥

द्विजोत्तम अर्थात् ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष
सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ वेद ही का अभ्यास करे। जिस
कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन को वेदाभ्यास करना इस संसार
में परमतप कहा है, इससे ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर अवश्य
वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़कर अन्य
शास्त्र में श्रम करता है, वह जीवता ही अपने वंश के सहित
शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है। इससे ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर
वेदविद्या अवश्य पढ़े ॥ १६ ॥

जैसे फावड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता है, वैसे उपदेश वा पढ़ाना सुनने वाला पुरुष (गुरु की सेवा करने वाला पुरुष) गुरुजनों ने जो पाई हुई विद्या है उसको प्राप्त होता है। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर गुरुजनों से उपदेश अध्ययन सुने (गुरुजन की सेवा कर उनसे सुने) और वेद पढ़े ॥१५॥

उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुंष अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे। नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे और निम्न कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्रीजन का ग्रहण करे, यह नीति है। इससे गृहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े, उत्तम धर्म सीखे और ब्रह्मचर्य के अनन्तर गृहाश्रम में उत्तम स्त्री से विवाह करे ॥ १८ ॥

क्योंकि विष से भी अमृत का ग्रहण करना चाहिये, बालक से भी उत्तम वचन को लेना चाहिये और नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहियें। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥१६॥

यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयासा ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽसनेन प्रशसितव्यम् ॥ १ ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्रपा० ७ । अनु० ११ ॥

श्रुतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तप-
श्शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः सुवर्ब्रह्मतदुपा-
स्वैतत्तपः ॥ २ ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्रपा० । १० । अनु० ८ ॥

अर्थ—हे शिष्य ! जो अनिन्दित, पापरहित अर्थात् अन्याय अधर्माचरण रहित न्यायधर्माचरण सहित कर्म हैं, उन्हीं का सेवन तू किया करना, इनसे विरुद्ध अधर्माचरण कभी मत

करना । हे शिष्य ! जो तेरे माता, पिता, आचार्य आदि हम लोगों के अच्छे धर्मयुक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण तू कर और जो हमारे दुष्ट कर्म हों उनका आचरण कभी मत कर । हे ब्रह्मचारिन् ! जो हमारे मध्य में धर्मात्मा, श्रेष्ठ, ब्रह्मवित् विद्वान् हैं, उन्हीं के समीप बैठना, संग करना और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ १ ॥

हे शिष्य ! यथार्थ का ग्रहण, सत्य मानना, सत्य बोलना, वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने मन को अधर्माचरण में न डालने देना. श्रांश्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक भ्रष्टाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना अग्निहोत्रादि और विद्वानों का संग कर जितने भूमि, अन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकों में पदार्थ हैं, उनका यथाशक्ति ज्ञान करना, और योगाभ्यास, प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना करना, ये सब कर्म करना ही तप कहाता है ॥ २ ॥

ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्या० । दमश्च स्वाध्या० । शमश्च स्वाध्या० । अग्रयश्च स्वाध्या० । अग्निहोत्रं च स्वाध्या० । सत्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ ३ ॥

तैत्तिरीय० प्रपा० ७ । अनु० ॥ ६ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मचारिन् ! तू सत्य धारण कर, पढ़ और पढ़ाया कर । सत्योपदेश करना कभी मत छोड़, सदा सत्य बोल, पढ़ और पढ़ाया कर । हर्ष शोकादि छोड़, प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर । अपनी इन्द्रियों को बुरे कामों से हटा अच्छे कामों में चला, विद्या का ग्रहण कर और कराया कर । अपने अन्तःकरण और आत्मा को अन्यायाचरण से हटा, न्यायाचरण में प्रवृत्त कर और कराया

कर तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर । अग्निविद्या के सेवनपूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर । अग्निहोत्र करता हुआ पढ़ और पढ़ाया कर । सत्यवादी होना तप है, यह सत्यवंचा राधीतर आचार्य का, न्यायाचरण में कष्ट सहना तप है, यह तपोनित्य पौरुशिष्टि आचार्य का, और धर्म में चल के पढ़ना पढ़ाना और सत्योपदेश करना ही तप है, यह नाक मौद्गल्य आचार्य का मत है । और सब आचार्यों के मत में यही पूर्वोक्त तप है यही पूर्वोक्त तप है ऐसा तू जान ॥ ३ ॥

इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचार्य वा बालक का पिता करे । तत्पश्चात् घर को छोड़ गुरुकुल में जावें । यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठशाला और कन्या हो तो स्त्रियों की पाठशाला में भेजे । यदि घर में षण्णोच्चारण की शिक्षा यथावत न हुई हो तो आचार्य बालकों की और कन्याओं को स्त्री, पाणिनि-मुनिकृत षण्णोच्चारणशिक्षा १ (एक) महीने के भीतर पढ़ा दें । पुनः पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अर्थसहित ८ (आठ) महीने में अथवा १ (एक) वर्ष में पढ़ाकर धातुपाठ और दश लकारों के रूप सधवाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी । पुनः पाणिनिमुनिकृत लिङ्गानुशासन और उणादि गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्थ एबुल् और तृच् प्रत्ययाद्यन्त सुबन्तरूप ६ (छः) महीने के भीतर सधवा दें । तत्पश्चात् पुनः दूसरी बार अष्टाध्यायी, पदार्थोक्ति, समास, शङ्कासमाधान, उत्सर्ग, अपवाद* अन्वयपूर्वक पढ़ावें और संस्कृतभाषण का भी अभ्यास कराते जायें । ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ाना चाहिये ।

तत्पश्चात् पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य जिसमें षण्णोच्चारण-शिक्षा, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशा-

* जिस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सर्ग और जो किसी सूत्र के बड़े विषय में से थोड़े विषय में प्रवृत्त हो वह अपवाद कहाता है ॥

सन इन ६ (छः) ग्रन्थों की व्याख्या यथावत् लिखी है, डेढ़ वर्ष में अर्थात् १८ (अठारह) महीने में इसको पढ़ना पढ़ाना । इस प्रकार शिक्षा और व्याकरण शास्त्र को ३ (तीन) वर्ष ५ (पाँच) महीने वा ६ (नौ) महीने अथवा ४ (चार) वर्ष के भीतर पूरा कर सब संस्कृतविद्या के मर्मस्थलों को समझने के योग्य होवे ।

तत्पश्चात् यास्कमुनिकृत निघण्टु, निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिकृत कोश १॥ (डेढ़) वर्ष के भीतर पढ़ के, 'अव्ययार्थ, आप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप * यौगिक योगरूढि और रूढि तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ यथावत् जानें । तत्पश्चात् पिङ्गलोचार्यकृत पिङ्गलसूत्र छन्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ (तीन) महीने में पढ़ और ३ (तीन) महीने में श्लोकादिरचनविद्या को सीखे । पुनः यास्कमुनिकृत काव्यालङ्कारसूत्र; वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित, आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यार्थ, अन्वयसहित पढ़ के इसी के साथ मनुस्मृति, विदुरनीति और किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के, ये सब १ (एक) वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें ।

तथा १ (एक) वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में से कोई १ (एक) सिद्धान्त से गणितविद्या जिसमें बीजगणित, रेखाणित और पाटीगणित, जिसको अङ्कगणित भी कहते हैं, पढ़ें और पढ़ावें । निघण्टु से ले के ज्योतिष पर्यन्त वेदाङ्गों को चार वर्ष के भीतर पढ़ें । तत्पश्चात् जैमिनिमुनिकृत सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित, कणादमुनिकृत वैशेषिकसूत्ररूप शास्त्र को गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्यसहित, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित गोतममुनिकृत सूत्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमुनिकृत भाष्यसहित पतञ्जलिमुनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिमुनिकृत

* यौगिक—जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रखे जैसे पाचक याजकादि ।
योगरूढि—जैसे प्रङ्गजादि । रूढि—जैसे धन, वन इत्यादि ॥

भाष्ययुक्त कपिलाचार्यकृत सूत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जैमिनि वा बोधायन आदि मुनिकृत व्याख्यासहित व्यासमुनिकृत शारीरिकसूत्र तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० (दश) उपनिषद् व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र । इन ६ (छः) शास्त्रों को २ (दो) वर्ष के भीतर पढ़ लेवें ।

तत्पश्चात् बहवृच, ऐतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आश्वलायन-कृत श्रौत तथा गृह्यसूत्र * और कल्पसूत्र पद क्रम और व्याकरणादि के सहाय से छन्दः, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ सहित ऋग्वेद का पठन ३ (तीन) वर्ष के भीतर करे, इसी प्रकार यजुर्वेद को शतपथब्राह्मण और पदादि के सहित २ (दो) वर्ष तथा सामब्राह्मण और पदादि तथा गानसहित सामवेद को २ (दो) वर्ष तथा गोपथब्राह्मण और पदादि के सहित अथर्ववेद २ (दो) वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें । सब मिल के ६ (नौ) वर्षों के भीतर ४ (चारों) वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसको वैद्यकशास्त्र कहते हैं, जिसमें धन्वन्तरिजीकृत सुश्रुत और निघण्टु तथा पतञ्जलि ऋषिकृत चरक आदि आर्ष ग्रन्थ हैं इनको ३ (तीन) वर्ष के भीतर पढ़ें । जैसे सुश्रुत में शल्य लिखे हैं, बनाकर शरीर के सब अवयवों को चीर के देखें तथा जो उसमें शारीरिकादि विद्या लिखी हैं, साक्षात् करें ।

तत्पश्चात् यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, जिसको शब्दास्त्र विद्या कहते हैं, जिसमें अङ्गिरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते, ३ (तीन) वर्ष में पढ़ें और पढ़ावें । पुनः सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद, जिसमें नारदसंहितादि ग्रन्थ हैं उन-

* जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिंसापरक हो, उसका प्रमाण न करना ॥

को पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र. ग्राम ताल, मूर्च्छना आदि का अभ्यास यथावत् ३ (तीन) वर्ष के भीतर करें ।

तत्पश्चात् अथर्ववेद, का उपवेद अथर्ववेद जिसको शिल्पशास्त्र कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं, उनको ६ (छः) वर्ष के भीतर पढ़ के विमान, तार, भूगर्भादि विद्याओं को साक्षात् करें । ये शिक्षा से ले के आयुर्वेद तक १४ (चौदह) विद्याओं को ३१ (इकत्तीस) वर्षों में पढ़ के महाविद्वान् होकर अपने और सब जगत् के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें ॥

इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ समावर्त्तनसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥



‘समावर्त्तनसंस्कार’ उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्यव्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूर्णरीति से प्राप्त होके विवाह विधानपूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना ॥

इसमें प्रमाणः—वेदसमाप्तिं वाचयीत । कल्याणैः सह सम्प्रयोगः । स्नातकायोपस्थिताय । रात्रे च । आचार्यश्वशुरपितृव्यमातुलानां च दधनि मध्वानीय । सर्पिर्वा मध्वलाभे । विष्टरः णद्यमर्घ्यमाचमनीयं मधुपर्कः ॥ १ ॥

यह आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२२।१६॥१।२३।२०॥ १।२४।२—०॥ तथा पारस्करगृह्यसूत्र २।६।—२॥ २।५।३२ में—

वेदसमाप्य स्नायाद । ब्रह्मचर्यं वाष्टचत्वारिंशकम् । त्रय एव स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति ॥ २ ॥

जब वेदों की समाप्ति हो, तब समावर्त्तनसंस्कार करे । सदा पुरायात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साक्षा रक्षके । निम्नलिखित पुरुषों का जब अपूर्वागमन होवे तब, स्नातक अर्थात् जब विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्ण करके ब्रह्मचारी घर को आवे राजा, आचार्य, श्वशुर चाचा और मामा अदि जब आवें, तब प्रथम (पाद्यम्) पग धोने का जल, (अर्घ्यम्) मुखप्रक्षालन के लिये जल और आचमन के लिये जल देके शुभासन पर बैठा, दही में मधु अथवा सहत न मिले तो घी मिला के मधुपर्क एक अच्छे पात्र में इनको देवे । वेद की समाप्ति और ४८ (अड़तालीस) वर्ष का ब्रह्मचर्य समाप्त करके स्नान * करे ॥ १-२ ॥

तं प्रतीत स्वधर्मेण धर्मदायहरं पितुः ।

सृग्विण तल्प आसीनमर्हयेत् प्रथम गवा ॥३॥ मनु० ३। ३ ॥

अर्थ—जो विद्वान् माता पिता का पुत्र शिष्य ब्रह्मचारी हो, वह स्वधर्म से यथावत् युक्त पितृस्थानी उस आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा, पुष्पमाला पहिना कर प्रथम गोदान देवे यथाशक्ति वस्त्र धन आदि भी देके सत्कार करे ॥ ३ ॥

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी संलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे । स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ ४ ॥

अथर्व० कां ११ । सू० ५ । मं० २६ ॥

अर्थ—जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर, बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में निवास कर महातप को करता हुआ, वेदपठन, वीर्यनिग्रह, आचार्य के प्रियाचरणादि कर्मों को पूरा कर पश्चात् पृष्ठ ११७-११८ में लिखे अनुसार स्नानविधि करके पूर्ण विद्याओं

* जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचर्य व्रत को न समाप्त करके स्नान करता है वह विद्यास्नातक, जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता है, वह व्रतस्नातक, और जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता है, वह विद्याव्रतस्नातक कहाता है ॥

को धरता सुन्दर वर्णयुक्त होके पृथिवी में अनेक शुभ गुण कर्म और स्वभाव से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है ॥४॥

इसका समय—पृष्ठ १०२-१०४ तक में लिखे प्रमाणे जानना । परन्तु जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा होवे, तभी गृहाश्रम की इच्छा ली और पुरुष करें । विवाह के स्थान दो हैं—एक आचार्य का घर, दूसरा अपना घर । दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आके विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करे । इस संस्कार की विधि पूरा करके पश्चात् विवाह करे ॥

विधिः—जो शुभ दिन समावर्त्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर में पृष्ठ १४-१६ में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बना के सब शाकल्य और सामग्री संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रखे और स्थालीपाक* बना के तथा घृतादि और, पात्रादि यज्ञशाला में वेदी के समीप रखे । पुनः पृष्ठ २० में लिखे० यथावत् ४ (चारों) दिशाओं में आसन बिछा, बैठ पृष्ठ २ से पृष्ठ १३ तक में ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरणम् करें, और जितने वहां पुरुष आये हों वे भी एकाग्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान में मग्न हों ।

तत्पश्चात् पृष्ठ २१-२२ में अग्न्याधान समिदाधान करके पृष्ठ २३ में वेदी के चारों ओर उदक-सेचन करके आसन पर पूर्वाभिमुख आचार्य बैठके पृष्ठ २४ में आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और पृष्ठ २४ में व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २६-२७ में अष्टाज्याहुति ८ (आठ) और पृष्ठ २४ में स्विष्टकृत् आहुति १ (एक) और प्राजापत्याहुति १ (एक) ये सब मिलके १८ (अठारह) आज्याहुति देनी ।

तत्पश्चात् ब्रह्मचारी पृष्ठ ८७ में (ओम् अग्ने सुश्रवः०) इस मन्त्र से कुण्ड का अग्नि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे । तत्पश्चात् पृष्ठ ८७ में (ओम् अग्ने समिध०) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ (तीन)

* जो कि पूर्व पृष्ठ-१५-१६ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रक्खा ॥

समिधा होम कर पृष्ठ ८८ में (ओं तनूपा०) इत्यादि ७ (सात) मन्त्रों से दक्षिण हस्ताञ्जलि आगी पर थोड़ी सी तपा, उस जल से मुखस्पर्श और तत्पश्चात् पृष्ठ २१ में० (ओं वाङ् म०) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पर्श कर, पुनः सुगन्धादि औषधयुक्त जल से भरे हुए ८ (आठ) घड़े वेदी के उत्तरभाग में जो पूर्व से रक्खे हुए हों, उनमें से—

ओं ये अप्स्वन्तरगनयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूष मनोहास्वलो विरुजस्तनूदृषुगिन्द्रियहा तान् विजहामि य रोचनस्तमिह गृह्णामि ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । सू० १० ॥

इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल लेके:—

ओं तंन मामभिषिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ॥
पार० कां० २ । कं० ६ । सू० ११ ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना ।

तत्पश्चात् उपरि कथित (ओं ये अप्स्वन्तर०) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोटे में जल ले के:—

ओं येन श्रियमकृणुतां येनावमृशतां सुगाम् ।

येनाद्यावभ्यषिञ्चतां यद्वां तदश्विना यशः ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । सू० १२ ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना । तत्पश्चात् पूर्ववत् ऊपर के (ओं ये अप्स्वन्तर०) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रक्खे घड़ों में से ३ (तीन) घड़ों को लेके पृष्ठ ८२ में लिखे हुए (ओम् आपो हि घ्वा०) इन ३ (तीन) मन्त्रों को बोल के इन घड़ों के जल से स्नान करना । तत्पश्चात् ८ (आठ) घड़ों में से रहे हुए ३ (तीन) घड़ों को ले के (ओम् आपो हि घ्वा०) इन्हीं ३ (तीन) मन्त्रों को मन में बोल के स्नान करे । पुनः—

ओम् उदुत्तमं वरुणु पाशमस्मदवाधुमं वि मध्यमं श्रथाय ।
अथा वयपादित्य व्रते तवानागमो अर्दिनये स्याम ॥

अ० मं० १ । सू० २४ । मं० १५ ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अग्नी मेखला और दण्ड को छोड़े । तत्पश्चात् वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रह कर.—

ओम् उद्यन् आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात् प्रातर्याव-
भिग्स्थाद्दशसनिगसि दशसनिं मा कुर्वाविदन् मा गमय ।
उद्यन् आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरम्याद्दिवायावभिग्स्थाच्छतसनि-
रसि शतसनिं मा कुर्वाविदन् मा गमय । उद्यन् आजभृष्णुरिन्द्रो
मरुद्भिरस्थान् साययावभिरस्थान् सहस्रस नेर से सहस्रसनिं मा
कुर्वाविदन् मा गमय ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । १६ ॥

इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके, तत्पश्चात् दही वा तिल प्राशन करके जटा, लोम और नख धपन अर्थात् छेदन करा के:—

ओम् अन्नाद्याय व्यूहध्व५ सोमो राजाऽयमागमत् ।
स मे मुखं प्रमाच्यते यशसा च भगेन च ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । १० ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ों से दन्तधावन करे ।

तत्पश्चात् सुगन्ध द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को पोंछे अथोत्रम्ब अर्थात् धोती वा पीताम्बर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनार्द्रि का अनुलेपन करे । तत्पश्चात् चक्षु मुख नासिका क छिद्रों का:—

ओं प्राणापानौ मे तर्पय चक्षुर्मे तर्पय श्रोत्रं मे तर्पय ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । १८ ॥

इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, अपसव्य और दक्षिणमुख हांके—

श्री पितरः शुन्धध्वम् ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । १६ ॥ ०

इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सब्य होके—

श्रीं सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयास५ सुवर्चा मुखेन ।
सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयामम् ॥ पार०.कां० २ । कं० ६ । १६ ॥

इस मन्त्र का जप करके :—

श्रीं परिधास्यै यशांघास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि ।
शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥
पार० कां० २ । कं० ६ । २० ॥

इस मन्त्र से सुन्दर, अतिश्रेष्ठ वस्त्र धारण करके:—

श्रीं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती ।
यशा भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम् ॥
पार० कां० २ । कं० ६ । २१ ॥

इस मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके:—

श्रीं या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय ।
ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥
पार० कां० २ । कं० ६ । २३ ॥

इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला लेके:—

श्रीं यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु ।
तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आवध्नामि यशो मयि ॥
पार० कां० २ । कं० ६ । २४ ॥

इस मन्त्र से धारण करनी ।

पुनः शिरोवेष्टन अर्थात् पगड़ी, दुपट्टा और टोपी आदि
अथवा मुकुट हाथ में लेके पृष्ठद्वारे में लि० (श्रीं युवा सुवासा०)

इस मन्त्र से धारणा करे ।

उसके पश्चात् अलङ्कार लेके:—

श्रीम् अलङ्करणमासि भूयोऽलङ्करणं भूयात् ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । २६ ॥

इस मन्त्र से धारण करे । और.—

• ओं वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि ॥
यजु० अ० ४ । मं० ३ ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । २७ ॥

इस मन्त्र से आंख में अञ्जन करना । तत्पश्चात्—

ओं रोचिष्णुरसि ॥ पार० कां० ४ । कं० ६ । २८ ॥

इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे । तत्पश्चात्—

ओं बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तेजसो यशसो
मामन्तर्धेहि ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । २९ ॥

इस मन्त्र से छत्र धारण करे । पुनः—

ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम् ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । ३० ॥

इस मन्त्र से उपानह, पादवेष्टन, पगरखा और जिसको जोड़ा भी कहते हैं, धारण करे । तत्पश्चात्—

ओं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वतः ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । ३१ ॥

इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी ।

तत्पश्चात् ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचार्य कुल से अपना पुत्र घर को आवे, उसको बड़े मान प्रतिष्ठा, उत्सव, उत्साह से अपने घर पर ले आवें । घर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार करने के लिये (पाद्य) अर्थात् पग धोने और (अर्घ्य) अर्थात् आचमन करने के लिये जल देकर शुभ आसन पर बैठावें । दही मधु और घी इन तीनोंको मिलाकर एक सुन्दर पात्र में ब्रह्मचारी के आगे धरें । उसका आघ्राण ब्रह्मचारी करे । सत्कार पृष्ठ ११४-११५ में लिखे प्र० करें ।

पुनः उस संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्नपानादि से सत्कारपूर्वक भोजन कराके और वह ब्रह्मचारी और उसके माता पितादि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा

पूर्वोक्त प्रकार मधुपर्क कर सुन्दर पुष्पमाला, वस्त्र गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सब के सामने आचार्य के जो कि उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की कृत-ज्ञता सबको सुनावे—

सुनो भद्रजनो ! इन महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है जसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान् बनाया है, उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके बदले मैं अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझको उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया, उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृत-कृत्य करेंगे। और जैसे आपने मुझको उत्तम विद्या देके आनन्दित किया है, वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहूँगा, और आपके किये उपकार को कभी न भूलूँगा।

सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने-हारे तथा सब संसार पर अपनी कृपा दृष्टि से सबको सम्य, विद्वान् शरार और आत्मा के बल से युक्त और परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु, स्वस्थ, पु०षार्थी, बत्साही करे कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म, स्वभावों को करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की निधि कर कराके सदा आनन्दमें रहें।

इति समावर्तनसंस्कारविधिः समाप्त ॥

अथ विवाहसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

‘विवाह’ उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, विद्या, बल को प्राप्त होके सब प्रकार से शुभ गुण, कर्म, स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानो-

त्पत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध सन्तानोत्पत्ति के अर्थ होता है।

इसमें प्रमाणः—उदगयन आपूर्यमाणपक्ष पुण्ये नक्षत्रे चैलकर्मोपनयनगोदानविवाहाः ॥ १ ॥ सार्वकालमेके विवाहम् ॥ २ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र [१।४।१।२], और—
आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ इत्यादि पारस्कर [१।२।१] और
पुण्ये नक्षत्रे दागन् कुर्वीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्कुशलेन ॥ ५ ॥

इत्यादि गोभिलीय [१।१०।१।२] गृह्यसूत्र और इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में भी है ॥

अर्थः—उत्तरायण शुक्लपक्ष अच्छे दिन अर्थात् जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उसका आवसथ्य नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण, जो कि स्त्री सर्वथा शुभ गुणादि से उत्तम हों, करना चाहिये ॥ ४-५ ॥

इसका समयः—पृष्ठ ६६-१०४ तक में जानना चाहिये । षष्ठी और वर की आयु, कुल वास्तव्यस्थान, शरीर, और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात् दोनों सद्धान और विवाह की इच्छा करवाले हों । स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ल्योढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे । परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिये इसमें प्रमाणः—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्या मवर्णा लक्षणांन्विताम् ॥ २ ॥

ॐ यह नक्षत्रादि का विचार करपनायुक्त है. इससे प्रमाण नहीं ॥

असपिएडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।
 सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३ ॥
 महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।
 स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ४ ॥
 हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।
 क्षय्यामयाव्यपस्मारिशिवत्रिकुलानि च ॥ ५ ॥
 नोद्देहेत कपिलां कन्यां नाधिकार्ङ्गीं न रोगिणीम् ।
 नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ६ ॥
 नक्षत्रक्षन्दीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।
 न पद्म्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ७ ॥
 अव्यङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नीं हसवागण्गामिनीम् ।
 तनुलोमकंशदशनां मृद्वङ्गीमुद्देहेत् स्त्रियम् ॥ ८ ॥
 ब्राह्मां दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ।
 गान्धर्वो राक्षमश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ९ ॥
 आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।
 आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥
 यज्ञे तु वितने सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।
 अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ११ ॥
 एक गोमिथुन द्वे वा वरदादाय धर्मतः ।
 कन्याप्रदान विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥
 सह नौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।
 कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३ ॥
 ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैवं शक्तितः ।
 कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्म उच्यते ॥ १४ ॥

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।
 गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः काममम्मः ॥१५॥
 इत्वा छित्त्वा च मित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।
 प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥१६॥
 सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।
 स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥१७॥
 ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।
 ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंभताः ॥१८॥
 रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।
 पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥१९॥
 इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।
 जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥२०॥
 अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान् विवर्जयेत् ॥२१॥

[मनु० अ० ३। २, ४-१०, २१, २७-३४, ३६-४२]

अर्थः—ब्रह्मचर्यं से ४ (चार), ३ (तीन), २ दो)

अथवा १ (एक) वेद को यथावत् पढ़, अर्द्धशत ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहाश्रम को धारण करे ॥ १ ॥

जो यथावत् उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥ २ ॥

जो स्त्री माता की छुः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो, वही द्विजों के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥

विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल, चाहे वे गाय आदि पशु धन और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥

वे दश कुल ये हैं:—१ एक-जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो। २ दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो। ३ तीसरा—जिस कुल में कोई विद्वान् न हो। ४ चौथा—जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े २ लोम हों। ५ पांचवां—जिस कुल में बवासीर हो। ६ छठा—जिस कुल में क्षयी अर्थात् राजयक्ष्मा रोग हो। ७ सातवां—जिस कुल में अग्निमन्दता से आमामशय रोग हो। आठवां—जिस कुल में मृगी रोग हो। ८ नववां—जिस कुल में श्वेतकुष्ठ। और १० दशवां—जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों। उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करे ॥५॥

पीले वर्णवाली, जिसके शरीर में कोई अवयव अधिक हो, रोगिणी, जिसके शरीर पर भी लोम न हों, और जिसके शरीर पर बड़े २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलनेहारी और जिसके पीले, विल्ली के सदृश नेत्र हों ॥६॥

तथा जिस कन्या का (ऋक्ष) नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती, रोहिणी इत्यादि, (नदी) जिसका गङ्गा, यमुना, इत्यादि, (पर्वत) जिसका विन्ध्याचला इत्यादि नामवाली, (पत्नी) पत्नी अर्थात् कोकिला, हला इत्यादि, (अहि) अर्थात् उरगा, भोगिनी इत्यादि, (प्रेष्य) दासी इत्यादि, (भीषण) कालिका, चण्डिका इत्यादि, लक्षण और नाम युक्त कन्या से विवाह न करे ॥७॥

किन्तु जिसके सुन्दर अङ्ग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चालवाली, जिसके सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिसके सब अङ्ग कोमल हों उस स्त्री से विवाह करे ॥८॥

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥

ब्राह्म, जो कन्या के योग्य, सुशील, विद्वान् पुरुष को सत्कार कर के कन्या को ब्रह्मादि से अलंकृत करके उत्तम

पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो, उसको कन्या देना, वह ब्राह्म विवाह कहाता है ॥ १० ॥

विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करनेवाले विद्वान् को बख्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, वह दैव विवाह ॥ ११ ॥

३ (तीसरा)—१(एक) गाय बैल का जोड़ा अथवा २(दो जोड़े)* वर से लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह ॥ १२ ॥

और ४(चौथा)—कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सब के सामने तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पाणिग्रहण होना, वह प्राजापत्य विवाह कहाता है । ये (चार) विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥

और (पांचवां)—वर की जातिवालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके, होम आदि विधि कर कन्या देना, आसुर विवाह कहाता है ॥ १४ ॥

६ (छठा)—वर कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों ही पुरुष हैं, यह काम से हुआ गान्धर्व विवाह कहाता है ॥ १५ ॥

और ७ (सातवां)—हनन, छेदन और कन्या के कुटुम्बियों का विदारण कर क्रोशती, रोती कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राजस अति नीच विवाह ॥ १६ ॥

और जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहों में नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, अति दुष्ट, पैशाच विवाह है ॥ १७ ॥

* यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध क्या है और युक्तिविरुद्ध भी है, इसलिए कुछ भी न लेदेकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है ॥

ब्राह्म, दैव, आर्य, और प्रजापत्य इन ४ (चार) विवाहों में पाणि-
प्रहण किये हुए स्त्री-पुरुषों से जा सन्तान उत्पन्न होते हैं वे वेदादि
विद्या से नैजस्वी, आप्त पुरुषों के संमत. अत्युत्तम होते हैं ॥ १ ॥

वे पुत्र वा कन्या सुन्दर, रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्ध्यादि
उत्तम गुणयुक्त, बहुधनयुक्त, पुण्यकर्तिमान् और पूर्ण भोग के
भोक्ता, अतिशय धर्मात्मा होकर १०० (सौ) वर्ष तक जीते हैं ॥ १६ ॥

इन चार विवाहों से जो बाकी रहे ४ (चार) आसुर,
गान्धर्व, राक्षस और पेशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न
हुए सन्तान निन्दित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेदधर्म के द्वेषी,
बड़े नीच स्वभाववाले होते हैं ॥ २० ॥

इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से
नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से
उत्तम प्रजा होती है उनको करना अत्युत्तम है ॥ २१ ॥

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तन्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ १ ॥

काममामरणान्निष्ठं गृहे कन्यस्तुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ २ ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीचेत् कुमार्यृतमती सती ।

ऊर्ध्वन्तु कालादेत्स्माद्विन्देत् सदृशं पतिम् ॥ ३ ॥

[मनु० अ० १ । मन्-१०]

अर्थ—यदि मता पिता कन्या का विवाह करना चाहें, तो अति
उत्कृष्ट शुभ गुण कर्म स्वभाववाले, कन्या के सदृश रूपलाव-
ण्यादि गुणयुक्त वर ही को चाहें । वह कन्या (वर) माता की
छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना, अन्य को
कभी न देना कि जिससे दोनों अतिप्रसन्न होकर गृहाश्रम की
उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ १ ॥

चाहे मरणपर्यन्त कन्या पिता के घर में बिना विवाह के
बैठी भी रहे, परन्तु गुणहीन, असदृश, दुष्टपुरुष क साथ कन्या

का विवाह कभी न करे और वर कन्या भी अपने आप स्वसदृश के साथ ही विवाह करें ॥ २ ॥

जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तब रजस्वला होने के दिन से ३ (तीन वर्ष को छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करे ॥३॥ (प्रश्न) “अष्टवर्षा भवेद् गौरी नव वर्षा च रोहिणी” इत्यादि श्लोकों की क्या गति होगी ?

(उत्तर) इन श्लोकों और इनके मानने वालों की दुर्गति। अर्थात् जो इन श्लोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का विवाह कर करा उनको नष्ट भ्रष्ट, रोगी, अल्पायु करते हैं, वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ (सोलह) वर्ष से न्यून कन्या और २५ (पच्चीस) वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करें करावें। इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचर्य रक्षेंगे उतना ही उनको आनन्द अधिक होगा।

(प्रश्न) विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से करना चाहिये ?

(उत्तर) — दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा ॥

निरु० ३ । १ । ४ ॥

यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही अधिक लाभ होगा।

(प्रश्न) अपने गोत्र वा भाई बहनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होगा ?

(उत्तर) एक—दोष यह है कि इनके विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं। और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते। दूसरा—जबतक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तबतक शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती। तीसरा—दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति, उन्नति, ऐश्वर्य बढ़ता है, निकट से नहीं।

युवावस्था ही में विवाह करने में वेद का प्रमाण—

तमम्भेग युवतयो युवानं मर्मुज्यमानाः परि यन्त्यापः ।
 स शुक्रभिः शिक्रभी रेवदस्मे दीदायानिधमो घृतनिर्णिगप्सु ॥१॥
 अस्मै तिस्रो अव्यथयाय नारीदेवाय देवीर्दिविषन्त्यन्नम् ।
 कृता इषोप हि प्रसन्नं अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वभूनाम् ॥२॥
 अश्वस्यात्र जनिमास्य च र्भर्तुहो रिपः सम्पृचः पाहि मुरीन् ।
 आमासु पुषु परा अप्रमृष्यं नारातयो वि नंशन्नानि ॥३॥

अ० मं० २ । सू० ३५ । मं० ४-६ ॥

वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहते महिषीमिषिगम् ।
 आस्यं शवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरु महस्रा परि वर्त्तयते ॥४॥

अ० मं० ५ । सू० ३७ । मं० ३ ॥

उप व एषे वन्दोभिः शूषैः प्र यद्वा दिवश्चितयद्भिरः ।
 उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मन्त्याय यद्भम् ॥५॥

अ० मं० ५ । सू० ४१ । मं० ७ ॥

अर्थः—जो (मर्मुज्यमानाः) उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत और सद्दि-
 चाओं से अत्यन्त शुद्ध (युवतयः) २० (वीसवें) वर्ष से २४
 (चौबीसवें) वर्षवाली कन्या लोग, जैसे (आपः) जल
 वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे (अस्मेराः) हमको प्राप्त
 होनेवाली, अपने २ प्रसन्न, अपने २ से ड्योढ़े वा दूने आयुवाले
 (तम्) उस ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण, शुभलक्षणयुक्त
 (युवानम्) जवान पति को (परियन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त
 होती हैं, (सः) वह ब्रह्मचारी (शुक्रभिः) शुद्ध गुण और
 (शिक्रभिः) वीर्यादि से युक्त हो के (अस्मं) हमारे मध्य में
 (रेवत्) अत्यन्त श्र युक्त कर्म को और (दीदाय) अपने तुल्य
 युवति स्त्री को प्राप्त होवे । जैसे (अप्सु) अन्तरिक्ष वा समुद्र में
 (घृतनिर्णिक्) जल को शोधन करनेद्वारा (अनिधमः) आप प्रका-
 शित विद्युत् अग्नि है, इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के हृदय में प्रेम

बाहर अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रहकर उत्तम संतान और अत्यन्त आनन्द को गृहाश्रम में दोनों स्त्री पुरुष प्राप्त हों ॥ १ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! जैसे (तिस्रः) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्वभावयुक्त (देवीः) विद्वान् नरों की विदुषी स्त्रियां (अस्मै) इस (अव्यध्याय) पीड़ा से रहित (देवाय) काम के लिये (अन्नम्) अन्नादि उत्तम पदार्थों को (दिधिषन्ति) धारण करती हैं, (कृता इव) की हुई शिक्षायुक्त के समान (अण्डु) प्राणवत् प्रीति आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होने के लिये स्त्रियों से पुरुष और पुरुषों से स्त्री (उप प्रसर्त्त) सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं, (सहि) वही पुरुष और स्त्री आनन्द को प्राप्त होती हैं । जैसे जलों में (पीयूषम्) अमृतरूप रस को (पूर्वसूनाम्) प्रथम प्रसूत हुई स्त्रियों का बालक (धयति) दुग्ध पी के बढ़ता है, वैसे इन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के संतान यथावत् बढ़ते हैं ॥ २ ॥

जैसे राजादि सब लोग (पूर्णु) अपने नगरों और (आ-मासु) अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को (परः) उत्तम विद्वान् (अप्रमृष्यम्) शत्रुओं को सहने के अयोग्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुए शरीरात्मबलयुक्त देह को (अरातयः) शत्रु लोग (न) नहीं (विनशन्) विनाश कर सकते, और (अनृतानि) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसन उनको प्राप्त (न) नहीं होते, वैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को (द्रहः) द्रोह आदि दुर्गुण और (रिषः) हिंसा आदि पाप (न सम्पृचः) सम्बन्ध नहीं करते, किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नतापूर्वक विधि से संतानोत्पत्ति करते हैं इनके (अस्य) इस (अश्वस्य) महीन गृहाश्रम के मध्य में उत्तम बालकों का (जनिम) जन्म होता है । इसलिये हे स्त्री व पुरुष ! तू (सूरीन्) विद्वानों की (पाहि) रक्षा कर । (च) और ऐसे गृहस्थों को (अन्न) इस गृहाश्रम में सदैव (स्वः) सुख बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥

हे मनुष्यो ! (यः) जो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त पूर्ण जवान ।
 (ईम्) सब प्रकार की परीक्षा करके (महिषीम्) उत्तम
 कुल में उत्पन्न हुई, विद्या, शुभगुण, रूप सुशीलतादि युक्त (इ-
 पिराम्) वर की इच्छा करनेहारी, हृदय को प्रिय स्त्री को
 (पति) प्राप्त होता है, और जो (पतिम्) विवाह से अपने
 स्वामी की (इच्छन्ती) इच्छा करती हुई (इयम्) यह (वधूः)
 स्त्री अपने सदृश, हृदय को प्रिय पति को (पति) प्राप्त होती
 है, वह पुरुष वा स्त्री (अस्य) इस गृहाश्रम के मध्य (आश्रव-
 स्यात्) अत्यन्त विद्या धन धान्ययुक्त सब ओर से होवे । और
 वे दोनों (रथः) रथ के समान (आघोषात्) परस्पर प्रिय
 बचन बोलें, (च) और सब गृहाश्रम के भार को (वहते) उठा
 सकते हैं । तथा वे दोनों (पुरु) बहुत (सहस्रा) असंख्य उत्तम
 कार्यों को (परिवर्तयाते) सब ओर से सिद्ध कर सकते हैं ॥४॥

हे मनुष्यो ! यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य से सुशिक्षित विद्यायुक्त
 अपने सन्तानों को कराके स्वयंवर विवाह कराओ, तो वे
 (बन्धेभिः) कामना के योग्य, (चितयद्भिः) सब सत्य विद्याओं
 को जानने हारे, (अकैः) सत्कार के योग्य, (शूषैः) शरीरा-
 त्मबलों से युक्त हो के (वः) तुम्हारे लिये (एषे) सब सुख
 प्राप्त कराने को समर्थ हों, और वे (उषासानक्ता) जैसे दिन
 और रात तथा जैसे (विदुषीव) विदुषी स्त्री और विद्वान्
 पुरुष (विश्वम्) गृहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को (आवहतः)
 सब ओर से प्राप्त होते हैं, (इ) वैसे ही इस (यज्ञम्) संगत-
 रूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे स्त्री पुरुष पूर्ण कर सकते हैं ।
 और (मर्त्याय) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुख-
 दायक है । और (यज्ञी) बड़े ही शुभ गुण कर्म स्वभाववाले स्त्री
 पुरुष दोनों (दिवः) कामनाओं को (उप प्र वहतः) अच्छे
 प्रकार प्राप्त हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है, वैसे ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो, परस्पर परीक्षा करके जिससे जिसकी विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह होना अत्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्यवर कन्या का विवाह कराते हैं वे वेदोक्त ईश्वराज्ञा के विरोधी होकर महा दुःखसागर में क्योंकर न डूबेंगे ? और जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं, वे ईश्वराज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ।

(प्रश्न) विवाह अपने २ वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्ण में भी ?

(उत्तर) अपने २ वर्ण में । परन्तु वर्णव्यवस्था गुण कर्मों के अनुसार होनी चाहिये, जन्ममात्र से नहीं । जो पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा, परोपकारी, जितेन्द्रिय, मिथ्याभाषणादिदोषरहित, विद्या और धर्मप्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिसमें हों वह ब्राह्मण ब्राह्मणी । विद्या बल शौर्य न्यायकारित्वादि गुण जिसमें हों वह क्षत्रिय क्षत्रिया । और जो विद्वान् हो के कृषि, पशुपालन, व्यापार, देशभाषाओं में चतुरता आदि गुण जिसमें हों वह वैश्य वैश्या । और जो विद्याहीन, मूर्ख हो रहे, वह शूद्र शूद्रा होवे । इसी क्रम से विवाह होना चाहिये, अर्थात् ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या, और शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होने में आनन्द होता है, अन्यथा नहीं ।

इस वर्णव्यवस्था में प्रमाणः—

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥१॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥२॥

आपस्तम्बे प्र० २ । ५ । १०-११ ॥

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाब्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ३ ॥

मनुस्मृतौ अ० १० । ६५ ॥

अर्थः—धर्माचरण से नीच वर्ण उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है, और उस वर्ण में जो २ कर्त्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्म उस पुरुष और स्त्री को प्राप्त होंगे ॥ १ ॥

वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम २ वर्ण नीचे २ के वर्ण को प्राप्त होंगे और वे ही उस २ वर्ण के अधिकार और कर्मों के कर्त्ता होंगे ॥ १ ॥

उत्तम गुण कर्म स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय, और ब्राह्मण; और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण; तथा क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है। वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; तथा वैश्य, शूद्र वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वर्ण उत्तम बने रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते; और उत्तम वर्ण, भय से कि मैं नीच वर्ण न हो जाऊँ, इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मों ही को किया करते हैं, इससे संसार की बड़ी उन्नति है। आर्यावर्त्तदेश में जबतक ऐसी वर्णव्यवस्था पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य विद्या-ग्रहण और उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये, जिससे आर्यावर्त्त देश अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे।

परीक्षा—अब वधू वर एक दूसरे के गुण, कर्म और स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार करें:—दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसकता, सत्य मधुर-भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहङ्कार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध, निर्लौभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, कपट छुन चोरी मद्य मांसादि दोषों का त्याग, गृहकार्यों में अति चतुरता हो।

जब २ प्रातः सायं वा परदेश से आकर मिलें तब २ 'नमस्ते' इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पति के चरणस्पर्श, पादप्रक्षाल-

लन, आसनदान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्यवहारों से वर्त्तकर आनन्द भोगें। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और ऊंचाई पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्त्री का शिर होना चाहिये। तत्पश्चात् भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें—

ओम् ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञे ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम् । यदियं
कुमार्यभि तातदियमिह प्रतिपद्यताम् । यत्सत्यं तद् दृश्यताम् ॥

आश्व० गृ० अ० १ । कं० ५ । ५ ॥

अर्थ:—जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तब कन्या चतुर पुरुषों से वर की और वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परीक्षा में परीक्षा करावे, पश्चात् उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुषों की समा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे स्त्री वा हे पुरुष ! इस जगत् के पूर्व ऋत, यथार्थस्वरूप महत्तन्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तन्व में सत्य, त्रिगुणात्मक, नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है। जैसे पुरुष और प्रकृति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है, वैसे मैं कुमारी और मैं कुमार पुरुष इस समय में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हूँ, उसको यह कन्या और मैं वर प्राप्त होंगे और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दृढ़ोत्साही रहें ॥

विधि:—जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३२-३४ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो जाय, तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो, उसमें विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये। और १३-१६ पृष्ठ में लिख्यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक्, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके रखनी उचित है।

पश्चात् एक * घन्टे मात्र रात्रि जाने पर:—

* यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याह्नोत्तर आरम्भ कर देवे कि जिससे मध्यरात्री तक विवाहविधि पूरा हो जावे ।

ओं काम वेद ते नाम मदो नामाणि समानयामुः सुरा
ते अभवत् । परमत्र जन्माप्ते तपसो निर्मितांसि स्वाहा ॥ १ ॥

ओं इमं त उपस्थ मधुना सःसृजामि प्रजापतेर्मुखमेतद्
द्वितीयम् । तेन पुःस्रोभिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि
राज्ञी स्वाहा ॥ २ ॥

ओंम् अग्निं क्रव्यादमकृएवन् गुहानाः स्त्रीणामुपस्थमृषयः
पुराणाः । तेनाऽपमकृएवः स्रैशृङ्गं त्वाष्ट्रं त्वयि तद्घातु
स्वाहा ॥ ३ ॥ गो० २ । १ । १० ॥

इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके
बधू वर स्नान कर पश्चात् बधू उत्तम वस्त्रालङ्कार धारण कर-
के उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात् पृष्ठ २ से १३
तक लिखे प्र० ईश्वरस्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शा-
न्तिप्रकरण करे । तत्पश्चात् पृष्ठ २१-२२ में लिखे प्रमाणे अग्न्या-
धान समिदाधान, पृष्ठ १५ में लि० स्थालापाक आदि यथोक्त
कर वेदी के समीप रक्ष्ये । वैसे वर भी एकान्त अपने घर में
जाके उत्तम वस्त्रालङ्कार करके यज्ञशाला में आ उत्तमासन पर
पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ २-६ में लिखे प्र० ईश्वरस्तुति * प्रार्थनो-
पासना कर बधू के घर को जाने का ढङ्ग करे । तत्पश्चात् कन्या
के और वरपक्ष के पुरुष बड़े सामान (सम्मान ?) से वर को बधू
के घर को लेजावें । जिस समय वर बधू के घर प्रवेश करे उसी समय
बधू और कार्यकर्त्ता मधुपर्क आदि सं वर का निम्नलिखित प्रकार
आदर सत्कार करें । उसकी रीति यह है कि वर बधू के घर में
प्रवेश करके पूर्वाभिमुख खड़ा रहे और बधू तथा कार्यकर्त्ता वर
के समीप उत्तराभिमुख खड़े रह के बधू और कार्यकर्त्ता—

* विवाह में आये हुए भी स्त्री पुरुष एकाग्रचित्त ध्यानावस्थित होके
इन तीन कर्मों के अनुसार ईश्वर का चिन्तन किया करें ॥

ओं साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तम् ॥

पार० कां० १ । कं० ३ । सू० ४ ॥

इस वाक्य को बोले । उस पर वर—

ओम् अर्चय ॥

ऐसा प्रत्युत्तर देवे । पुनः जो वधू और कार्यकर्त्ता ने वर के लिये उत्तम आसन तैयार कर रक्खा हो उसको वधू हाथ में ले कर के आगे खड़ी रहे—

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम् ॥

पार० कां० १ । कं० १६ ॥

यह उत्तम आसन आप ग्रहण कीजिये । वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले, विष्टा उस पर सभामण्डप में पूर्वाभिमुख बैठ के वर—

ओं वर्धोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः । इमन्तममि-
तिष्ठामि यो मा कश्चाभिदापति ॥ पार० कां० १ । कं० ३ । न ॥

इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर के कन्या के हाथ में देवे, और कन्या—

ओं पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ पार० कां० १ । कं० ३ । ६ ॥

इस वाक्य को बोल के वर के आगे धरे । पुनः वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ।

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग * प्रक्षालन करे, और उस समय—

* यदि घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और वधू तथा कार्यकर्त्ता पूर्वाभिमुख खड़े रहके यदि ब्राह्मण वर्ण हो तो प्रथम दक्षिण पग पश्चात् बायाँ और अन्य क्षत्रियादि वर्ण हों तो प्रथम बायाँ पग धोवे पश्चात् दहिना ॥

ओं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै
विराजो दोहः ॥ पार० कां० १ । कं० ३ । १२ ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् फिर भी कार्यकर्त्ता दूसरा शुद्ध
लोटा पवित्र जल से भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या—

ओम् अर्घोऽर्घोऽर्घः प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे । और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के
उससे मुख प्रक्षालन करे. और उसी समय वर मुख धोके—

ओम् आप स्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नवानि ॥१॥

ओं समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अग्निष्वास्माकं
वीरा मा परासेचि मत्पथः ॥२॥ पार० कां० १ । कं० ३ । १३ ॥

इन मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात् वेदी के पश्चिम बिल्लाये हुए
उसी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक
सुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उसमें आचमनी रख कन्या के
हाथ में देवे, और उस समय कन्या—

ओम् आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के सामने करे । और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को
ले, सामने धर, उसमें से दहिने हाथ में जल जितना अगुलियों
के मूल तक पहुँचे उतना ले के वर—

ओम् आ मागन् यशसां सःसृज वर्चसा । तं मा कुरु
प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टं तनूनाम् ॥

पार० कां० १ । कं० ३ । १४ ॥

इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी और तीसरा बार-इसी मन्त्र को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे । तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता मधुपर्क* का पात्र कन्या के हाथ में देवे । और कन्या—

ओं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् ॥

ऐसी विनती घर से करे । और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले, और उस समय—

ओं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीचे ॥

पार० कां० १ । क्रं० ३ । १६ ।

इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे । और—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रति गृह्णामि ॥

य० अ० १ । सं० १० ॥ पार० कां० १ । ३ । १७ ॥

इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे । और:—

ओं भूर्भुवः स्वः । मधु वाता ऋतायते मधु चरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिमेधुमाँ

* मधुपर्क उसको कहते हैं जो दही में घी वा सहद मिलाया जाता है । उसका परिमाण १२ (बारह) तोले दही में ४ (चार) तोले सहद अथवा ४ (चार) तोले घी मिलाना चाहिये, और यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित है ॥

अस्तु सूर्य । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ३ ॥

य० अ० १३ । मं० २७-२६ ॥ आश्व० १ । २४ । १४ ॥

इन तीन मन्त्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करके दहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ से तीन बार—

ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्त निष्कृन्तामि ॥

पार० कां० । कं० ३ । सू० १८ ॥

इस मन्त्र से मधुपर्क को विलोवे । श्री । उस मधुपर्क में से वर—

ओं वमवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पूर्व दिशा ।

ओं रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा ।

ओम् आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पश्चिम दिशा । और—

ओ विश्वे त्वा देवा आनुष्टमेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ मधुपर्क को छोड़े अर्थात् छूटि देवे ।

ओं भूतेभ्यस्त्वा परिशृणुमि ॥ आश्वला० गृ० अ० १ । कं० २४ । सू० १५ ॥

इस मन्त्रस्थ वाक्य की बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर की ओर तीन बार फेंकना । तदश्चात् उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कांसे के पात्रों में रखना, रखके भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रखे, रख के—

ओं यन्मधुनो मध्व्यं परमथ रूपमन्नाद्यम् । तेनाहं मधुनो मध्व्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मध्व्याऽन्नादाऽमानि ॥

पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस मन्त्र को एक २ बार बोल के एक २ भाग में से वर थोड़ा २ प्राशन करे वा सब प्राशन करे, जो उन पात्रों में शेष

उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने सेवक को देवे वा जल में डाल देवे । तत्पश्चात्—

ओंम् अमृतोपिधानमसि स्वाहा ॥

आश्वला० गृ० अ० १ । कं० २४ । सू० २ ॥

ओं सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥

आश्वला० गृ० अ० १ । यं० २४ । सू० २२ ॥

इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात् एक से एक और दूसरे से दूसरा शुद्ध जल का वर करे । तत्पश्चात् वर पृष्ठ २१ में लिखे प्र० चक्षुरादि इन्द्रियों को जल से स्पर्श करे । पश्चात् कन्या—

ओं गौर्गौर्गैः प्रतिगृह्णामि ॥

इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदानादि द्रव्य, जो कि वर के योग्य हो, अर्पण करे । और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य से उसको ग्रहण करे । इस प्रकार मधुपर्क विधि यथावत् करके वधू और कार्यकर्त्ता वर को सभामण्डपस्थान * से घर में ले जा के शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठा के वर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को बैठावे, और कार्यकर्त्ता उत्तराभिमुख बैठ के—

ओंम् अमुक + गोत्रोत्पन्नामिमाममुकनाम्नी † मलङ्कृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान् ॥

* यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपर्क हुआ हो उससे दूसरे घर में वर को लेजावे ।

+ अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल वधू उत्पन्न हुई हो उसका उच्चारण अर्थात् उसका नाम लेना ॥

† “अमुकनाम्नीम्” इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीय विभक्ति के एकवचन से बोलना ।

इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता अर्थात् हथेली ऊपर रखके उसके हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर—

ओं प्रतिपृहामि ॥

ऐसे बोल के—

ओं जरां गच्छ परिधन्स्व वामो भवा कृष्टीनामभिशन्तिपा
वा । शतं च जीव शरदः सुवर्चा रयिं च पुत्राननुमव्ययम्वा-
युष्मतीदं परिधन्स्व वामः ॥ पार० कां० १ कं० ४ । १२ ॥

इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वस्त्र देवे । तत्पश्चात्—

ओं या अक्रुंतन्नवयन् या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनमितो
ततन्य । तास्ता देवीर्जरसे संव्ययम्वायुष्मतीदं पारेधन्स्व वासः ॥

पार० गृ० कां० १ । कं० ४ । १३ ॥

इस मन्त्र को बोल के वधू का वर उपवस्त्र देवे । और इन वस्त्रों को वधू ले के दूसरे घर में एकान्त में जा उन्हीं वस्त्रों को धारण करे, और वह उपवस्त्र को यज्ञोपवीतवत् धारण करे ।

ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिगस्मि ।
शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायम्पांषमभिमव्ययिष्ये ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । २० ॥

इस मन्त्र को पढ़के वर आप अधोवस्त्र धारण करे । और—

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती ।

यशो भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम् ॥

पार० कां० २ । कं० ६ । २१ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण कर ।

इस प्रकार वधू वस्त्र परिधान करके जबतक तैयार होवे, जबतक कार्यकर्त्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ २२—२३ में लिखे प्रमाणे इन्धन और कर्पूर वा घृत से कुण्ड के अग्नि को प्रदीप्त करे । और आहुति के लिये

सुगन्ध डाला हुआ घी बटलोई में करके कुंड के अग्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में रखे और झुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड के समीप जोड़ कर रखे।

और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध जल से पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग में उत्तराभिमुख हो, कलशस्थापन अर्थात् भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे धर के जबतक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो जाय तबतक उत्तराभिमुख बैठा रहे।

और उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड लेके कुण्ड के दक्षिणभाग में कार्यसमाप्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख बैठा रहे।

और इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई अथवा भाई न हो तो चचेरा भाई, मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो वह चावल या जुवार की धाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ (चार) अञ्जलि एक शुद्ध सूप में रख के, धाणी सहित सूप लेके यज्ञकुण्ड के पश्चिमभाग में पूर्वाभिमुख बैठा रहे।

तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सपाट शिला जो कि सुन्दर चिकनी हो उस को तथा वधू और वर को कुण्ड के समीप बैठाने के लिये दो कुशासन वा यज्ञिय तृणासन अथवा यज्ञिय वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रखे हों, उन आसनों को रखवावे।

तत्पश्चात् जो वर के लिये वस्त्र धारण करके तैयार हुई कन्या को कार्यकर्त्ता वर के सम्मुख लावे। और उस समय वर—

ओं समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ।

सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टी दधातु नौ * ॥ १ ॥

ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ४७ ॥ पा० १ । ४ । १४ ॥

* वर और कन्या बोलें कि हे (विश्वे देवाः) इस यज्ञशाला में बैठे

इस मन्त्र को बोले ।

तत्पश्चात् वर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ पकड़ के—

ओं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा ।

हिरण्यपर्णो वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु * असौ ॥२॥

पार० का० १ । क० ४ । २५ ॥

इस मन्त्र को बोल के उसको ले के घर के बाहर मण्डप-स्थान में कुराड़ के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवें । और वर—

हुए विद्वान् लोगो ! आप हम दोनों को (समञ्जन्तु) निश्चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नतापूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करता वा करती हूं, कि (नौ) हमारे दोनों के (हृदयानि) हृदय (आपः) जल के समान (सम्) शान्त और मिले हुए रहेंगे । जैसे (मातरिश्वा) प्राणवायु हमको प्रिय है वैसे (सम्) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे । जैसे (धाता) धारण करनेहारा परमात्मा सब में (सम्) मिला हुआ सब जगत् को धारण करता है, वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे । जैसे (समुदेष्टी) उपदेश करनेहारा श्रोताओं से प्रीति करता है वैसे (नौ) हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ हृदय प्रेम को (दधातु) धारण करे ॥

ॐ (असौ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना । हे वरानने वा हे वरानन (यत्) जो तू (मनसा) अपनी इच्छा से मुझको जैसे (पवमानः) पवित्र वायु (वा) जैसे (हिरण्यपर्णो वैकर्णः) तेजोमय जल आदि को किरणों से ग्रहण करने वाला सूर्य (दूरम्) दूरस्थ पदार्थों और (दिशोऽनु) दिशाओं को प्राप्त होता, वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझको प्राप्त होती वा होता है, उस (त्वा) मुझको (सः) वह परमेश्वर (मन्मनसाम्) मेरे मन के अनुकूल (करोतु) करे, और हे (वीर) जो आप मन से मुझको (ऐषि) प्राप्त होते हो उस आपको जगदीश्वर मेरे मूल के अनुकूल सदा रखे ॥ २ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशु-
भ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूदेवृकामा स्योना शम्भो भव
द्विपदे शं चतुष्पदे * ॥ ३ ॥ ऋ० १० । ८५ । ४४ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । सा नः पूषा शिवतमामैरय सा न
ऊरू उशति विहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शोफं यस्यामु
कामा बहवो निविष्टयै ॥ ४ ॥ पार० कां० १ । ४ । १६ ॥

इन मन्त्रों को बोल के, दोनों घर वधू यज्ञकुण्ड की प्रद-
क्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए
आसन पर पूर्वाभिमुख घर के दक्षिण भाग में वधू और वधू
के वाम भाग में घर बैठ के, वधू:—

ओं प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पतां शिवा अरिष्टा
पतिलोकं गमेयम् ॥ मं० ब्रा० १ । १ । ८ ॥ गोमि० २ । १ । २१ ॥

ॐ हे वरानने (अपतिघ्नि) पति से विरोध न करनेहारी तू जिसके
(ओम्) अर्थात् रक्षा करनेवाला (भूः) प्राणदाता (भुवः) सब दुःखों
को दूर करनेहारा (स्वः) सुखस्वरूप और सब सुखों के दाता आदि नाम
हैं, उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से हे (अघोरचक्षुः)
प्रियदृष्टि (एधि) हो, (शिवा) मंगल करनेहारी (पशुभ्यः) सब पशुओं
को सुखदाता, (सुमनाः) पवित्रान्तःकरणयुक्त, प्रसन्नचित्त, (सुवर्चाः)
सुन्दर शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित, (वीरसूः) उत्तम
वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी, (देवृकामा) देवर की कामना करती
हुई अर्थात् नियोग की भी इच्छा करनेहारी (स्योना) सुखयुक्त हो के
(नः) हमारे (द्विपदे) मनुष्यादि के लिये (शम्भुः) सुख करनेहारी
(भव) सदा हो, । और (चतुष्पदे) गाय आदि पशुओं की भी (शम्भुः)
सुख देनेहारी हो, वैसे ही मैं तेरा पति भी वर्त्ता करूँ ॥ ३

इस मन्त्र को बोले ।

तत्पश्चात् पृष्ठ २० में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २०-२१ में लिखे—

ओम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचमन, वैसे तीन आचमन वर, वधू और पुरोहित और कार्यकर्त्ता करके हस्त और मुख प्रक्षालन पर शुद्धपात्र में करके दूर रखवा दें । हाथ और मुख पोंछ के पृष्ठ २१ में लिखे यज्ञकुण्ड में (ओं भूर्भुवः स्वर्धोरिव०) इस मन्त्र से अग्न्याधान, पृष्ठ २२ में लिखे० (ओम् अयन्त इध्म०) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान, और पृष्ठ २३ में लिखे—

ओम् अदितेऽनुमन्यस्व ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर, और (ओं देव सवित- प्रसुव०) इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अञ्जलि से शुद्ध जल सेचन करके, कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात्, पृष्ठ २४ में लि० वधू, वर पुरोहित और कार्यकर्त्ता आधारावाज्यमागाहुति, ४ (चार) घी की दें ।

तत्पश्चात् पृष्ठ २४ में लि० व्याहृति आहुति ४ (चार) घी की और पृष्ठ २६-२७ में लि० अष्टाज्याहुति ८ (आठः) ये सब मिल के १६ (सोलह) आज्याहुति दें के, प्रधान होमाहुति का प्रारम्भ करें । इस प्रधान होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण स्कन्धे पर स्पर्श करके, पृष्ठ २५ में लि० (ओं भूर्भुवः स्वः । अन्न आयुषि०) इत्यादि चार मंत्रों से अर्थात् एक २ से एक एक मिल के ४ (चार) आज्याहुति क्रम से करें, और निम्नलिखित—

ओं भूर्भुवः स्वः । त्वमर्यमा भवासि यत्कृनीनां नाम
स्वधावन्गुहं विमर्षि । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्य-
दम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥

ऋ० मं० ५ । सू० ३ । मं० २ ॥ आ० १ । ४ । ७ ॥

इस मन्त्र को बोल के ५ पांचवीं आज्याहुति देनी । तत्पश्चात्—

ओम् ऋताषाद् ऋतधामाग्निर्गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये
गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ १ ॥

ओम् ऋताषद् ऋतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो
मुदो नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमौषधिभ्योऽप्सरोभ्यो
मुद्भ्यः—इदं न मम ॥ २ ॥

ओं संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदं संहिताय विश्वसाम्ने
सूर्याय गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ ३ ॥

ओं संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽ-
प्सरसं आयुवो नाम । ताभ्यः स्वाहा । इदं मरीचिभ्योऽ-
प्सरोभ्य आयुभ्यः—इदं न मम ॥ ४ ॥

ओं सुषुम्णाः सूर्यरश्मिचन्द्रमा गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदं सुषुम्णाय सूर्यरश्मये
चन्द्रमसं गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ ५ ॥

ओं सुषुम्णाः सूर्यरश्मिचन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्य-
प्सरसो भेकुरयो नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्यो-
ऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः—इदं न मम ॥ ६ ॥

ओम् इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदमिषिराय विश्वव्यचसे
वाताय गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ ७ ॥

ओम् इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्यापो अप्सुरस
ऊर्जो नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भ्योऽप्सरोभ्य ऊर्गभ्यः—
इदं न मम ॥ ८ ॥

ओं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म क्षत्रं
पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय
गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ ९ ॥

ओं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सुरस
स्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यः
स्तावाभ्यः—इदं न मम ॥ १० ॥

ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे
मनमे गन्धर्वाय—इदं न मम ॥ ११ ॥

ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्य-
प्सरम् एष्ट्यो नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमृक्सामेभ्योऽ-
प्सरोभ्य एष्टिभ्यः—इदं न मम ॥ १२ ॥

यजु० १८ । ३८-४३ ॥ पार० कां० १ । कं० ५ । ७ । ८ ॥

इह बारह (१२) मन्त्रों से बारह (राष्ट्रभृत्) आज्याहुति
देनी । तत्पश्चात् जयाहोम करना—

ओं चित्तं च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय—इदं न मम ॥ १ ॥

ओं चित्तिश्च स्वाहा ॥ इदं चित्त्यै—इदं न मम ॥ २ ॥

ओम् आकूतं च स्वाहा ॥ इदमाकूताय—इदं न मम ॥ ३ ॥

ओम् आकूतिश्च स्वाहा ॥ इदमाकूत्यै—इदं न मम ॥ ४ ॥

ओं विज्ञातं च स्वाहा ॥ इदंविज्ञाताय—इदं न मम ॥ ५ ॥

ओं विज्ञातिश्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञात्यै—इदं न मम ॥ ६ ॥

ओं मनश्च स्वाहा ॥ इदं मनसे—इदं न मम ॥ ७ ॥

ओं शकरीश्च स्वाहा ॥ इदं शकरीभ्यः—इदं न मम ॥ ८ ॥

ओं दर्शश्च स्वाहा ॥ इदं दर्शाय—इदं न मम ॥ ९ ॥

ओं पौर्णमासं च स्वाहा ॥ इदं पौर्णमासाय—इदं न मम ॥ १० ॥

ओं बृहच्च स्वाहा ॥ इदं बृहते—इदं न मम ॥ ११ ॥

ओं रथन्तरञ्च स्वाहा ॥ इदं रथन्तराय—इदं न मम ॥ १२ ॥

ओं प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु ।
तस्मै विशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव
स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय—इदं न मम ॥ १३ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ (तिरह)
आज्याहुति देनी ।

तत्पश्चात् अभ्यातान होम करना । इसके मन्त्र ये हैं:—

ओम् अग्निर्भूतानामधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्या देवहूत्याथ
स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये—इदं न मम ॥ १ ॥

ओम् इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ
स्वाहा ॥ इदिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये—इदं न मम ॥ २ ॥

ओं यमः पृथिव्याऽधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये—इदं न मम ॥ ३ ॥

ओं वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतये—इदं न मम ॥ ४ ॥

ओं सूर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये—इदं न मम ॥ ५ ॥

ओं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये—इदं न मम ॥ ६ ॥

ओं बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये इदं न मम ॥ ७ ॥

ओं मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये इदं न मम ॥ ८ ॥

ओं वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
 चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ
 स्वाहा ॥ इदं वरुणायपामधिपतये—इदं न मम ॥ ९ ॥

ओं ममुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये—इदं न मम ॥१०॥

ओं अन्नं साम्राज्यानामधिपतिः तन्मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये—इदं न मम ॥११॥

ओं सोम ओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं सोमाय ओषधीनामधिपतये—इदं न मम ॥१२॥

ओं सविता प्रसवानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये—इदं न मम ॥१३॥

ओं रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं रुद्राय पशूनामधिपतये—इदं न मम ॥१४॥

ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये—इदं न मम ॥१५॥

ओं विष्णुः पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याः
स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये इदं न मम ॥१६॥

ॐ मरुतां गणानामधिपंतयस्ते मावन्त्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
ऋत्रेऽस्यामाशिश्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्यां
स्वाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यः—इदं न मम ॥ १७ ॥

ॐ पितरः पितामहाः परेऽवर ततास्ततामहा इह मावन्त्वास्मिन्
ब्रह्मण्यस्मिन् ऋत्रेऽस्यामाशिश्यस्यां पुरोधायामस्मिन्
कर्मण्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः
परंभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च—इदं न मम ॥ १८ ॥

पार० कां० १ । क० ५ । १० ॥

इस प्रकार अभ्यातान होम की १८ (अठारह) आज्याहुति
दिये पीछे, पुनः—

ॐ अग्निर्गैतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु
मृत्युशात् । तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री
पौत्रमयं न रोदात् स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥ १ ॥

ॐ इमामश्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घ-
मायुः । अशून्यापस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि-
विवुध्यतामियं स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥ २ ॥

ॐ स्वास्ति नोऽग्ने दिव आ पृथिव्या विश्वानि धेह्ययथा
यजत्र । यदस्यां महि दिवि जानं प्रशस्तं तदस्मात्तु द्राविणं
धेहि चित्रं स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥ ३ ॥

ॐ सुगन्तु पन्थां प्रदिशं न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरं न
आयुः । अपैतु मृत्युग्मृतं म * आगाद्वैवस्वतो नो अभयं
कृणोतु स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय—इदं न मम ॥ ४ ॥

ओं परं मृत्यो अनुषेहि .पन्यां यत्र नो, अन्य इतरो देव-
यानात् । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजाथीरीरिषो
मोत वीरान्त्स्वाहा ॥ इदं मृत्यवे—इदं न मम ॥ ५ ॥

पार० का० १ । क० ५ । ११-१२ ॥

ओं द्यौस्ते पृष्ठ५ रचतु वायुरूरु अश्विनौ च । स्तनन्धयांस्ते
पुत्रान्तसविताभिरक्षत्ववामसः परिधानाद् बृहस्पतिर्विश्वदेवा
अभिरक्षन्तु पश्चात्स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं न मम ॥ ६ ॥

ओं मा ते गृहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्गुदत्यःसंविशन्तु ।
मा त्व५ रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके त्रिराज पश्यन्ती
प्रजाथीमुमनस्यमानाथीस्वाहा ॥ इदमग्नये—इदं न मम ॥ ७ ॥

ओम् अग्रजस्यं पौत्रमर्त्यं पाप्मानमुत वा अघम् । शीर्षाः
स्रजमिश्रोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाश५ स्वाहा ॥
इदमग्नये—इदं न मम ॥ ८ ॥

मं० ब्रा० १ । १ । १-३ ॥ गोमि० २ । १ । सू० २०- २६ ॥

इन मन्त्रों में प्रत्येक से एक आहुति करके ८ (आठ)
आज्याहुति दीजिये । तदश्चात् पृष्ठ २४ में लिखे प्र०—

ओं भृग्नय स्वाहा ॥ गो० २ । १ । २५-२६ ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से ४ (चार) आज्याहुति दीजिये ।

ऐसे होम करके घर आसन से उठ पूर्वाभिमुख बैठी हुई वधू
के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से वधू
का दहिना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उचाना, और अपने
दक्षिण हाथ से वधू के उठाये हुए दक्षिण हस्ताञ्जलि अङ्गुष्ठ
सहित चत्ता ग्रहण करके, घर—

ओं गृभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्या जरदट्टिर्यथासः ।
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्महं त्वादुर्गाहपत्याय देवाः+ ॥१॥

अ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३६ ॥

ओं भगस्ते हस्तमग्रभीत् सविता हस्तमग्रभीत् ।

पत्नी त्वमसि धर्मणां गृहपतिस्तव * ॥ २ ॥

+ हे वरानने ! जैसे मैं (सौभगत्वाय) ऐश्वर्य सुसन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती के लिये (ते) तेरे (इस्तम्) हाथ को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ (मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (जरदट्टि.) जरावस्था को सुखपूर्क प्राप्त (यास) हो, तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त को ग्रहण करती हूँ । आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिये । आपको मैं और मुझ को आप आज से पतिपत्नीभाव करके प्राप्त हुए हैं । भगः । सकल ऐश्वर्ययुक्त (अर्यमा) न्यायकारी (सविता) सब जगत् की उत्पत्ति का कर्ता (पुरन्धिः) बहुत प्रकार के जगत् का धर्ता परमात्मा और (देवाः) ये सब मन्त्रा मण्डप में बैठे हुए विद्वान् लोग गार्हपत्याय) गृहाधर्म कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) तुम्हें (मया) मुझे (अदुः) देते हैं । आज से मैं आपके हस्त और आप मेरे हाथ थिक चुके हैं, कभी एकदूसरे का अप्रियाचरण न करना ॥१॥

ॐ हे प्रिये ! (भगः) ऐश्वर्ययुक्त मैं (ते) तेरे (इस्तम्) हाथ को (अग्रभीत्) ग्रहण करता हूँ तथा (सविता) धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे (हस्तम्) हाथ का (अग्रभीत्) ग्रहण कर चुका हूँ, (त्वम्) तू (धर्मणा) धर्म से मेरी (पत्नी) भायां (असि) है और (अहम्) मैं धर्म से (तव) तेरा (गृहपतिः) गृहपति हूँ । अपने दोनों मिल के घर के कर्मों की निधि करें, और जो दोनों का अप्रियाचरण व्यभिचार है, उसको कभी न करें, जिससे घर के सब काम सिद्ध उत्तम सन्तान ऐश्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ २ ॥

ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद् बृहस्पतिः ।

मया पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम् × ॥३॥

त्वष्टा वामी व्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम् ।
तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजयां ॥४॥

× हे अनवे ! (बृहस्पतिः) सब जगत् को पालन करनेहारे परमात्मा ने जिस (त्वा) तुम्ह को (मह्यम्) मुझे (अदात्) दिया है (इयम्) यही तू जगत् भर में मेरी (पोष्या) पोषण करने योग्य पत्नी (अस्तु) हो, हे (प्रजावति) तू (मया पत्या) मुझ पति के साथ शतम्) भी (शरदः) शरदः ऋतु अर्थात् शतवर्ष पर्यन्त (शं जीव) सुखपूर्वक जीवन धारण कर । वैसी ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे । हे भद्र वीर ! परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो, मेरे लिये आपके बिना इस जगत् में दूसरा पति अर्थात् स्वामी पालन करनेहारा देव कोई नहीं है, न मैं आपसे अन्य दूसरे किसी को मानूंगी, जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से प्रेम न करूंगी । आपमेरे साथ सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ ३ ॥

ॐ हे शुभानने ! जैसे (बृहस्पतेः) इस परमात्मा की सृष्टि में और उसकी तथा (कवीनाम्) आस विद्वानों की (प्रशिषा) शिक्षा से दम्पति होते हैं, (त्वष्टा) जैसे विजुली सबको व्याप्त हो रही है, वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये (वासः) सुन्दर वस्त्र (शुभे) और आभूषण तथा (कम्) मुझ से सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यदधात्) सिद्ध करे । जैसे (सविता) सकल जगत् की उत्पत्ति करनेहारा परमात्मा (च) और (भगः) पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त (प्रजया) उत्तम प्रजा से (इमाम्) इस तुम्ह (नारीम्) मुझ नर की स्त्री को (परिधत्ताम्) आच्छादित, शोभायुक्त करे वैसे मैं (तेन) इस सब से (सूर्याम् इव) सूर्य की किरण के समान तुम्ह को वस्त्र और भूषणादि से सुशोभित सदा

इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भर्गो अश्विनोभा ।
बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु † ॥ ५ ॥

अथर्व० का० १४ । सू० १ । मं० २१-२४ ॥

अहं वि व्यामि मयि रूपमस्या वेदित्पश्यन्मनसा कुलायम् ।
न स्तेयमग्नि मनसोर्दमुच्ये स्वयं श्रध्नानोवरुणस्य पाशान्* ॥ ६ ॥

अथर्व० का० १४ । सू० १ । मं० २७ ॥ गौ० २ । १ । १६ ॥

रक्त्वांग । तथा हे प्रिय ! आप को मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित
आनन्द अनुकूल प्रियाचरण करके (प्रजया) ऐश्वर्य वस्त्राभूषण आदि से
सदा आनन्दित रक्त्वांगो ॥ ४ ॥

† हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे (इन्द्राग्नी) विजुली और प्रसिद्ध
अग्नि (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि (मातरिश्वा) अन्तरिक्षस्थ वायु
(मित्रावरुणा) प्राण और उदान तथा (भर्गो) ऐश्वर्य (अश्विना)
सद्वैद्य और सत्योपदेशक (उभा) दोनों (बृहस्पति.) श्रेष्ठ न्यायकारी
बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा राजा (मरुतः) सम्य मनुष्य (ब्रह्म)
सब से बड़ा परमात्मा और (सोमः) चन्द्रमा तथा सोमलतादि शोपधी-
गण सब प्रजा का वृद्धि और पालन करते हैं, वैसे (इमां नारीम्) इस
मेरी स्त्री को (प्रजया प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी (वर्धयन्तु)
बढ़ाया करो । जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैसे
स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनन्द, ऐश्वर्य और
प्रजा से बढ़ाया करूंगा । जैसे ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं
वैसे तू और मैं मिल के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ ५ ॥

‡ हे कल्याणशोके ! जैसे (मनसा) मन से (कुलायम्) कुल की
वृद्धि को (पश्यन्) देखता हुआ (अहम्) मैं (अस्याः) इस तेरे
(रूपम्) रूप को (व्यामि) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त
होता हूँ, वैसे यह तू मेरी वधु (मयि) तुम्हें प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल

इन पाणिग्रहण के ६ (छः) मन्त्रों को बोल के, पश्चात् वर, वधू को हस्ताञ्जलि पकड़ के उठावे, और उसको साथ लेके, जो (कलश) कुण्ड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया था उसको वही पुरुष, जो कलश के पास बैठा था, वर वधू के साथ २ (उसी कलश को) ले चले। यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करके:—

ओम् अमोऽहमस्मि सा त्व५ सा त्वमस्यमोऽहम् । सामाह-
मस्मि ऋक्त्वं धौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो
दधावहै । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् । ते सन्तु
जरदष्टयः सं प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः
शतं जीवेम शरदः शत५ शृणुयाम शरदः शतम॥ ७॥

पार० कां० १ । कं० ६ । ३ ॥

व्यवहार को (वेदत्) प्राप्त होवे। जैसे मैं (मनसा) मन से भी इस तुम्ह वधू के साथ (स्तेयम्) चोरी को (उदमुच्ये) छोड़ देता हूँ और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से (नाभि) भोग नहीं करता हूँ, (स्वयम्) आप (श्रध्नातः) पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी (वरुणस्य) उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्नरूप दुर्व्यसनी पुरुष के (पाशान्) बन्धनों को दूर करता रहूँ, वैसे (इत्) ही यह वधू भी किया करे। इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी प्रकार आप से वर्ता करूंगी ॥ ६ ॥

ॐ हे वधू जैसे (अहम्) मैं (अमः) ज्ञानवान् ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करनेवाला (अस्मि) होता हूँ, वैसे (सा) सो (त्वम्) तू भी ज्ञानपूर्वक मेरा ग्रहण करनेहारी (असि) है जैसे (अहम्) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुम्हको (अमः ; ग्रहण करता हूँ, वैसे (सा) सो मैंने ग्रहण की हुई (त्वम्) तू तुम्हको भी ग्रहण करती है। (अहम्) मैं (साम) सामवेद के तुल्य प्रशंसित (अस्मि) हूँ, हे वधू ! तू (ऋक्) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है,

इन प्रतिष्ठा-मन्त्रों से दोनों प्रतिष्ठा करके, पश्चात् घर, वधू, के पीछे रह के वधू के दक्षिण भाग और समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रहके वधू की दक्षिणाञ्जलि अपनी दक्षिणाञ्जलि से पकड़ के दोनों खड़े रहें, और वह पुरुष पुनः कुराड के दक्षिण में कलश लेके वैसे बैठे।

तत्पश्चात् वधू की माता अथवा भाई जो प्रथम चावल और ज्वार की धाणी सूप में रक्खी थी, उसको बायें हाथ में लेके दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वावे। और उस समय घर—

ओम् आरोहमश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव ।

अभितिष्ठ पृतन्यतोऽत्रवाधस्व पृतनायतः ॥

पा० का० १ । कं० ७ । १ ॥

इस मन्त्र को बोले

(त्वम्) तू (पृथिवी) पृथिवी के समान गर्भादि ऋहाश्रम के व्यवहारों को धारण करनेहारी हूँ और मैं (धीः) वर्षा करनेहारिं सूर्य के समान हूँ, वह तू और मैं (तावेव) दोनों ही (विवहावहै) प्रसन्नतापूर्वक विवाह करें, (सह) साथ मिल के (रेतः) वीर्य को (दधावहै) धारण करें, (प्रजाम्) उत्तम प्रजा को (प्रजनयावहै) उत्पन्न करें, (बहून्) बहुत (पुत्रान्) पुत्रों को (विन्दावहै) प्राप्त होवें, (ते) वे पुत्र (जरदष्टयः) जरावस्था के अन्त तक जीवनयुक्त (सन्तु) रहें, (सप्रियौ) अच्छे प्रकार एक दूसरे में प्रसन्न (रोचिष्णु) एक दूसरे में रुचियुक्त (सुमनस्यमानौ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए (शतम्) सौ (शरदः) शरदः अर्थात् शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से (पश्येम) देखते रहें, (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से (जीवेम) जीते रहें और (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त प्रिय वचनों को (शृणुयाम) सुनते रहें ॥ ७ ॥

तत्पश्चात् वधू वर कुराड के समीप आके पूर्वाभिमुख दोनों खड़े रहें, और यहाँ वधू दक्षिण और रहके अपनी हस्ताञ्जलि को वर की हस्ताञ्जलि पर रखे ।

तत्पश्चात् वधू की मा वा भाई जो बायें हाथ में धाणी का सूपड़ा पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र की हुई अर्थात् नीचे वर की और ऊपर वधू की हस्ताञ्जलि हो, उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिंचन करके, पश्चात् प्रथम सूप में से दहिने हाथ की अञ्जलि से दो बार ले के वर वधू की एकत्र की हुई अञ्जलि में धाणी डाले, पश्चात् उस अञ्जलिस्थ धाणी पर थोड़ासा घी सिञ्चन करे । पश्चात् वधू वर की हस्ताञ्जलि सहित अपनी हस्ताञ्जलि को आगे से नमा के—

ओम् अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । स नो अर्यमा देवः
प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा ॥ इदमर्यमणे अग्रये-इदं न मम ॥ १ ॥

ओम् इयं नार्युपभूते लाजानावपन्तिका । आगुष्मानस्तु मे
पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ इदमग्रय-इदं न मम ॥ २ ॥

ओम् इमाँल्लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव । मम तुभ्यं च
संवन्न तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा ॥ इदमग्रये-इदं न मम ॥ ३ ॥

पार० कां० १ । कं० ६ ॥

इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २ धाणी की आहुति तीन बार प्रज्वलित इन्धन पर दे के वर—

ओं सरस्वति-प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्रा विश्वम्य
भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूतसमभवद्यस्यां विश्व-
मिदं जगत् । तामद्य गार्थां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥

पार० कां० १ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के अपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जलि से
वधू की हस्ताञ्जलि पकड़ के, वर—

ओं तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्सुर्या बहुतुर्ना सह ।

पुनः पतिभ्यां जागं दा अग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥

अ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३८ ॥ पार० १ । २ । ४ ॥

ओं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमप दीक्षामयष्ट ।

कन्या उत त्वया धर्यं धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विपः ॥२॥

गो० २ । २ । ८ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड
के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें ।

तत्पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा
कर, पुनः दोवार इसी प्रकार अर्थात् सब मिलके ४ (चार)
परिक्रमा करके, अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में थोड़ा ठड़े रहके
उक्त रीति से तीन बार क्रिया पूरी हुए पश्चात् यज्ञकुण्ड के पश्चिम
भाग में पूर्वाभिमुख वधू वर खड़े रहें । पश्चात् वधू की मा
अथवा भाई उस रूप की तिरछा करके उसमें बाकी रही हुई
धाणी को वधू की हस्ताञ्जलि में डाल देवे । पश्चात् वधू—

ओं भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय इदं न मम ॥ पार० १७ । ५ ॥

इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस धाणी
की एक आहुति देवे ।

पश्चात् वर, वधू को दक्षिण भाग में रख के कुण्ड के पश्चिम
पूर्वाभिमुख बैठे के वर—

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥

पार० १ । ७ । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के स्रवा से एक घृत की आहुति देवे ।

तत्पश्चात् एकान्त में जा के वधू के बंधे हुए केशों को धर—
 ओं प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाधेन त्वावध्वात्सविता सुशैवः ।
 श्रुतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १ ॥

ओं प्रेतो मुञ्चामि नामृतः सुबद्धाममृतस्करम् ।

यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥ २ ॥

श्र० मं० १० । सू० ८५ । मं० २४, २५ ॥ आ० १ । ७ । १७ १८ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना ।
 तत्पश्चात् सभामण्डप में आके सप्तपदी विधि का आरम्भ
 करे । इस समय वर के उपबल्ल के साथ वधू के उत्तरीय बल्ल की
 गांठ देनी, इसे जोड़ा कहते हैं । वधू वर दोनों जने आसन पर
 से उठके, वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञ्जलि
 पकड़ के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में रहके यज्ञकुण्ड के उत्तर
 भाग में जावे । तत्पश्चात् वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण
 स्कंधे पर रख के दोनों पास २ उत्तराभिमुख खड़े रहें । तत्पश्चात् वर

मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम ॥ गो० २ । २ । १३ ॥

ऐसा बोल के वधू को उसका दक्षिण पग, उठवा के चलने के
 लिये आक्षा देवे । और—

ओम् इषे एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्रा-
 नयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान
 दिशा में एक पग * चले और चलावे ।

* इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमया पग
 उठा के ईशानकोण की ओर बढ़ा के धरे, तत्पश्चात् दूसरे बायें पग को उठाके
 जमये पग की पटली तक धरे, अर्थात् जमये पग के थोड़ासा पीछे बायां पग

ओम् ऊर्जे द्विपदी भव० ॥ २ ॥ इस मन्त्र से दूसरा ।

ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥ ३ ॥ इस मन्त्र से तीसरा ।

ओं मायोभव्याय चतुष्पदी भव० ॥ ४ ॥ इस मन्त्र से चौथा ।

ओं प्रजाप्यः पञ्चपदी भव० ॥ ५ ॥ इस मन्त्र से पांचवां ।

आम् ऋतुभ्यः षट्पदी भव० ॥ ६ ॥ इस मन्त्र से छठा, और-

ओं सखा सप्तपदी भव० ॥ ७ ॥ आख० १।८।१६ ॥

इस मन्त्र से सातवां पग चलना ।

इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चला के, षधू वर दोनों गांठ बंधे हुए शुभासन पर बैठें ।

तत्पश्चात् प्रथम से जो अन्न के कलश को ले के यहकुण्ड की दक्षिण की ओर में बैठाया था, वह पुरुष उस पूर्वस्थापित अन्न कुम्भ को लेके षधू वर के समीप आवे । उसमें से थोड़ासा अन्न ले के षधू वर के मस्तक पर छिंटकावे । और वर—

ओम् आपो हि ष्टा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षमे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो गसप्तम्य

भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा अरुणाम

वो यम्य च्याय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥

अ० मषडल १० । सू० ६ । मं० १-३ ॥

ओम् आपः शिवाः शिवतपाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते

कुण्वन्तु भेषजम् ॥ ४ ॥ पार० १।८।५—६ ॥

इन चार मन्त्रों को बोले ।

रफले । इमी को एक पगला गिखना । इसी प्रकार अगले छः मंत्रों से भी क्रिया करना, अर्थात् एक २ मन्त्र से एक २ पग ईशान दिशा की ओर धरना ॥

॥ जो 'भव' के आगे मन्त्र में पाठ है, सो छः मन्त्रों से हम 'भव' पद । आगे पूरा बोख के पग धरने की क्रिया करना ॥

तत्पश्चात् वधू वर वहां से उठ के—

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं
जावेम शरदः शतं ऋणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

य० अ० ३६ । मं० २४ ॥ पार० ।

इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें ।

तत्पश्चात् वर, वधू के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय स्पर्श करके—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु ।
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम् * ॥

पार० कां० १ । कां० ८ । ८ ॥

इस मन्त्र को बोले, और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ से वर के हृदय का स्पर्श करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले-

तत्पश्चात् वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरके:—

ॐ हे वधू ! (ते) तेरे (हृदयम्) अन्तःकरण और आत्मा को (मम) मेरे (व्रते) कर्म के अनुकूल (दधामि) धारण करता हूँ, (मम) मेरे (चित्तम् अनु) चित्त के अनुकूल (ते) तेरा (चित्तम्) चित्त सदा (अस्तु) रहे; (मम) मेरी (वाचम्) वाणी को तू (एकमनाः) एकप्रचित्त से (जुषस्व) सेवन किया कर । (प्रजापतिः) प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा (त्वा) तुझ को (मह्यम्) मेरे लिये (नियुनक्तु) नियुक्त करे ॥

+ वैसे ही हे प्रिय वीर स्वामिन् ! आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूँ । मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे । आप एकप्र होके मेरी वाणी का—जो कुछ मैं आप से कहूँ उसका—सेवन सदा किया कीजिये, क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्यै दुत्वायाथास्तं वि परेतन ॥

ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३३ ॥ पार० १ । द । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करना । और इस समय सब लोग—

ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥

इस वाक्य से आशीर्वाद दें ।

तत्पश्चात् वधू घर यज्ञकुराड के समीप पूर्ववत् बैठ के पुनः पृष्ठ २४-२५ में लिखे प्रमाणे दोनों (ओं यदस्य कर्मणो०) इस स्विकृत मन्त्र से होमाहुति अर्थात् एक आज्याहुति और पृष्ठ २४ में लिखे—

ओं भूरग्ये स्वाहा ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ से एक २ आहुति करके ४ (चार) आज्याहुति दें । और इस प्रमाणे विवाह की विधि पूरे हुए पश्चात् दोनों जने आराम अर्थात् विश्राम करें ।

। इस रीति से थोड़ासा विश्राम करके विवाह की उत्तर विधि करें । यह उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाक करनी ।

तत्पश्चात् सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीर्घे उस समय वधू घर यज्ञकुराड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख आसन पर बैठें । और पृष्ठ २१ में लि० अग्न्याधान (ओं भूर्भुवः स्वर्द्यो०)

ने आप को मेरे आधीन किया है । वैसे मुझको आप के आधीन किया है । अर्थात् इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों वर्ता करें, जिससे सर्वदा आनन्दित और कीर्तिमान् पतिव्रता और स्त्रीव्रत होके सब प्रकार केच्यभिचार अप्रिय माप्यादि को छोड़ के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ।

इस मन्त्र से करें। यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा में हुआ और प्रथम अग्न्याधान हुआ हो तो अग्न्याधान न करें। (ओम् अयन्त इधम०) इत्यादि ४ मन्त्रों से सामदाधान करके जब अग्नि प्रदीप्त होवे तब पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे—

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ आ० गृ० अ० १ । कां० १० । सू० १३॥
इत्यादि ४ (चार) मन्त्रों से आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार)
और पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे—

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ (चार) मन्त्रों से ४ (चार) व्याहृति आहुति, ये सब मिल के ८ (आठ) आज्याहुति बनें।

तत्पश्चात् प्रधान होम करें, निम्नलिखित मन्त्रों से:—

ओं लेखासन्धिषु पद्मस्वावर्त्तेषु च यानि ते । तानि ते पूर्णाहु-
त्या सर्वाणि शमयाम्यह स्वाहा ॥ इदं कन्यायै इदं न मम ॥ १ ॥
ओं केशेषु यच्च पापकमीक्षते रुदिते च यत् । तानि० ॥ २ ॥
ओं शीलेषु यच्च पापक भाषिते हसिते च यत् । तानि० ॥ ३ ॥
ओम् आङ्गकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत् । तानि० ॥ ४ ॥
ओम् ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । तानि० ॥ ५ ॥
ओं यानि कानि च घोरानि सर्वाङ्गेषु तवामवन् । पूणाहुतिमिरा-
ज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा ॥ इदं कन्यायै इदं न मम ॥ ६ ॥

गोमि० २ । ३ । ६ ॥

ये छः मन्त्र हैं, इनमें से एक २ मन्त्र बोल छः आज्याहुति देनी,
तत्पश्चात् पृष्ठ २४ में लिखे—

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ (चार) व्याहृति मन्त्रों से ४ (चार) आज्याहुति देके, वधू घर वहां से उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जाक, घर—

ध्रुवं पश्य ॥

ऐसा बोल के, वधू को ध्रुव का तारा दिखलावे*। और वधू घर से बोले कि मैं—

पश्यामि ॥ ध्रुव के तारे को देखती हूँ ।

तत्पश्चात् वधू—

ओं ध्रुवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयामम् (अमुष्य असौ) X ॥

गोमिलगृ० प्र० २ । खं० ३ । सू० ८ ॥

इस मन्त्र को बोले ।

तत्पश्चात्—

अरुन्धतीं पश्य ॥ गोमिलगृ० प्र० २ । खं० ३ । सू० ६ ॥

ऐसा वाक्य बोल के घर, वधू को अरुन्धती का तारा दिखलावे । और वधू—

☞ हे वधू वा घर जैसे यह ध्रुव दृढ़ स्थिर है, इसी प्रकार आप और मैं एक दूसरे के प्रियाचरणों में दृढ़ स्थिर रहूँ ॥

+ (अमुष्य) इस पद के स्थान में पति का नाम पट्टीविभक्त्यन्त बोलना, जैसे—शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मण ” ऐसा और (असौ) इस पद के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमाविभक्त्यन्त बोले, जैसे “भूयासं शिवशर्मणस्ते सँभान्यदाहम्” इस प्रकार दोनों पद जोड़ के बोले—“हे स्वामिन् ! सौमन्यदा (अहम्) मैं (अमुष्य) आप शिवशर्म की अर्द्धाङ्गी (पतिकुले) आपके कुल में (ध्रुवा) निश्चय जैसे कि आप (ध्रुवम्) दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति (असि) हैं, वैसे मैं भी आपकी स्थिर दृढ़ पत्नी (भूयासम्) होऊँ ॥

पश्यामि ॥ ऐसा कह के—

ओम् अरुन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि (अमृष्य अमौ) ॐ ॥

गोमि० २ । ३ । १०' ॥

इस मन्त्र को बोल के, वर वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके—

ओं ध्रुवा ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयम् × ॥१॥

मं० ब्रा० १ । ६ । ६ ॥ गोमि० २ । ३ । ११ ॥

ओं ध्रुवममि ध्रुवन्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि । मद्यं त्वा-
दात् बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती संजीव शरद शतम् + । २ ॥

पार० कां० १ । ८ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोले ।

ॐ तू अरुन्धती नक्षत्र के तुल्य है । मैं भी रुकी हूँ । आपकी मैं ।
+ हे वरानने ! जैसे (ध्रुवः) सूर्य की कान्ति वा विद्युत् (ध्रुवा)
सूर्यलोक वा पृथिव्याद में निश्चल, जैसे (पृथिवी) भूमि अपने स्वरूप में
(ध्रुवा) स्थिर, जैसे (इदम्) यह (विश्वम्) सब (जगत्) संसार
प्रवाहस्वरूप मे (ध्रुवम्) स्थिर है, जैसे (इमे) ये प्रत्यक्ष (पर्वताः)
पहाड़ (ध्रुवासः) अपनी स्थिति में स्थिर हैं, वैसे (इयम्) यह तू मेरी
(स्त्री) पत्नी (पतिकुले) मेरे कुल में (ध्रुवा) सदा स्थिर रह ॥ १ ॥

+ हे स्वामिन् ! जैसे आप मेरे समीप (ध्रुवम्) दृढ़ संकल्प करके
स्थिर (असि) हैं, जैसे मैं (त्वा) आपको (ध्रुवम्) स्थिर दृढ़ (पश्यामि)
देखती हूँ वैसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा, क्योंकि
मेरे मन के अनुकूल (त्वा) आपको (बृहस्पतिः) परमात्मा (अदात्)
समर्पित कर चुका है, वैसे मुझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त होके (शत-
शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (शम् जीव) जीविये । तथा हे वरानने पत्नी ।

पश्चात् वधू और वर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख करके कुण्ड के समीप बैठें, और पृष्ठ २०—२१ में लिखे—

ओम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आचमन दोनों करें। पश्चात् पृष्ठ १५ में लिखी हुई समिधाओं से यज्ञकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त करके पृष्ठ १५ में लिखे० घृत और स्थालीपाक अर्थात् भात उसी समय बनावें। पश्चात् पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे “ओम् अयन्त इध्म” इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके, पश्चात् पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे आधारा-चाज्यमागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिलके ८ (आठ) आज्याहुति वर वधू देवे।

तत्पश्चात् जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अर्थात् भात को एक पात्र में निकाल के उसके ऊपर झुवा से घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा २ भात दोनों जने लेके—

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये— इदं न मम ॥ १ ॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदं न म ॥ २ ॥

(पोष्ये) धारण और पालन करने योग्य (मयि) मुक्त पति के निःशुद्ध (भुवा) स्थिर (पृथि) रह, (मह्यम्) मुक्त को अपनी मनसा के अनुकूल तुम्हें परमात्मा ने दिया है, तू (मया) मुक्त (पत्या) पति साथ (प्रजावती) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक जीवन धारण कर। वधू वर ऐसी हठ प्रतिज्ञा करे कि जससे कभी उलटे विरोध में न चले ॥ २ ॥

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं न मम । ३
 ओम् अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये—इदं न मम ॥ ४ ॥

गोमि० २ । ३ । १७-२१ ॥

इनमें प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ (चार) स्थालीपाक अर्थात् भात की आहुति देनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २४-२५ में लिखे (ओं यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत् आहुति देनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे व्याहृत आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २६-२७ में लिखे अष्टाज्याहुति ८ (आठ) दोनों मिलके १२ (बारह) अष्टाज्याहुति देनी ।

तत्पश्चात् शेष रखा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन कर और उस पर दक्षिण हाथ रख के:—

ओम् अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना ।

बध्नामि सत्यग्रान्थिना मनश्च हृदयं च ते * ॥ १ ॥

ओं यदेतद्धृदयं तव तदस्तु हृदयं मम ।

यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव + ॥ २ ॥

ॐ हे वधू वा वर ! जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे (ते । तेरे (हृदयम्) हृदय । च । और (मनः) मन (च) और चित्त आदि को (सत्यग्रान्थिना) सत्यता की गांठ से , बध्नामि ' बांधती वा बांधता हूँ । १ ॥

+ हे वर हे स्वामिन् वा हे पत्नी ! (यदेतत्) जो यह (तव तेरा (हृदयम्) आत्मा वा अन्तःकरण है तत् वह (मम मेरा हृदयम्) आत्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय (अस्तु) हो, और (मम) मेरा (यदिदम्) जो यह (हृदयम्) आत्मा प्राण और मन है तत्) सो (तव तेरे (हृदयम्) आत्मादि के तुल्य प्रिय (अस्तु) सदा रहे ॥ २ ॥

ओम् अन्नं प्राणस्य षड्विंशस्तेन बध्नामि त्वा असौ ॥३॥

ःमं० ब्रा० १।३।८-१० ॥ गोमि० २।३।१७-२१ ॥

इन तीन मन्त्रों को मन से जप के, वर उस भात में से प्रथम थोड़ा सा भक्षण करके, जो उच्छिष्ट शेष भात रहे, वह अपनी षधू के लियं खाने को देवे। और जब षधू उसको खा चुक तब षधू वर यज्ञमण्डप में सजे हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वाभिमुख बैठ और पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे सामवदोक्त महा-वामदेव्यगान करें।

तत्पश्चात् पृष्ठ २-१३ में लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति प्रार्थनापासना, स्वस्वाचन, शान्तिकरण कर्म करके चारलवण, रहित मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित भोजन करे।

तत्पश्चात् पृष्ठ ५० में लिखे प्रमाणे पुरोहितादि सद्धर्मी और कार्यार्थ इकट्ठे हुये लोगों को सम्मानार्थ उत्तम भोजन कराना। तत्पश्चात् यथायोग्य पुरुषों का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सत्कार करके विदा कर देवें।

तत्पश्चात् दश घटिका रात्रि जाय तब षधू और वरपृथक् स्थान में भूमि में बिछीना करके तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत सहित रह कर शयन करें, और ऐसा भोजन करना कि स्वप्न में भी वीर्यपात न होवे। तत्पश्चात् चौथे दिवस पृष्ठ २६-४५ में लिखे प्रमाणे विधि पूर्वक गर्माधान संस्कार करें। यदि चौथे दिवस कोई अङ्घ्रचन आवे तो अधिक दिन ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रह कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो, और पृष्ठ ३२-३३ में लिखे प्रमाणे गर्माधान की रात्रि भी हो, उस रात्रि में यथाविधि गर्माधान करे।

ॐ (असौ) हे यशोदे ! जो (प्राणस्य) प्राण का पोषण करनेहारा (षड्विंशः) २६ (छन्वीसवां) तत्त्व (अन्नम्) अन्न है (तेन) उससे (त्वा) मुझको (बध्नामि) दृढ़ प्रीति से बांधता वा बांधती हूं ॥ ३ ॥

यदि किसी विशेष कारण से श्वशुरगृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके, तो दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वरपक्ष वाले लोग वधू और वर को रथ में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लावें।

और जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लावे तो—

जीवं रुदन्ति वि मयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिति दीधियुर्नरः ।
ज्ञामं पितृभ्यो य इदं संमरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥

ऋ० मं० १० । सू० ४० । मं० १० ॥ आश्व० १ । ङ । ४ ॥

इस मन्त्र को वर बोले ।

और रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू वधू को बैठावे, उस समय में वर—

पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्णाश्विना त्वा प्र वहतां रथम् ।
गृहानाच्छ गृहपत्नी यथासौ वशिनी त्वं विदथमा वदावे ॥१॥
सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं द्विरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् ।
आ राह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥२॥

ऋ० मं० १६ । सू० ८५ । मं० २६, २० ॥ आश्व० १ । ङ । १ ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के रथ को चलाना ।

यदि वधू को वहां से अपने घर लाने के समय नौका पर बैठना बड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोल के नौका पर बैठे—

अश्मन्वती रीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठतु प्र तरता सखायः ॥

आश्व० १ । ङ । २ ॥

और नौका से उतरते समय—

अत्रा जहाम् ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभिर्वाजान् ॥

ऋ० मं० १० । सू० ५३ । मं० ८ ॥ आश्व० १ । ङ । ३ ॥

इस उत्तरार्द्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरे।

पुनः इसी प्रकार मार्ग में चार भागों का संयोग, नदी व्याघ्र, चौर आदि से भय वा भयंकर स्थान ऊंचे नीचे खाढ़ावाली पृथिवी वहे २ वृत्तों का झुण्ड वा श्मशानभूमि आवे तो—

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती ।

सुगेभिर्दुर्गमतीतामपद्रान्त्वरातयः ॥

ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३२ ॥ आश्व १ । ८ । ६ ॥

इस मन्त्र को बोले।

तत्पश्चात् वधू वर जिस रथ में बैठके जाते हों, उस रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात् उपद्रव होवे, तो मार्ग में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना, और साथ रखे हुए विवाहाग्नि को प्रगट करके वसमें पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे ४ (चार) व्याहृति आज्याहुति देनी। पश्चात् पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना।

पश्चात् जब वधू वर का रथ वर के घर के आगे आ पहुंचे, तब कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की स्त्री आगे समाने आकर वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे, और वर के साथ सभामंडप में लेजावे। सभामण्डप द्वारे आते ही वर वहां कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करके—

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां सुमेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्यै दत्वाय थास्तं वि परेतन ॥

ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३३ ॥ आश्व० १ । ८ । ७ ॥

∴ इस मन्त्र को बोले, और आये हुए लोग—

ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥

इस प्रकार आशीर्वाद देवें । तत्पश्चात् वर —

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्गृह गार्हपत्याय जायते ।
एना पत्या तन्वं सं संजन्वाधा जिवी त्रिस्थ ॥ वृदाथः ॥

ऋ० मं० १० । स० ८५ । मं० २७ ॥ आश्व० १ । ८ । ८ ॥

इस मन्त्र को बोल के वधू को वर सभामण्डप में ले जावे । तत्पश्चात् वधू वर पूर्व स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावे । उस समय वरः—

ओम् इह गावः प्रजायध्वमिहाश्व इह परुषाः ।

इहो सहस्रदाक्षिणोऽपि पूषा नि षीदतु ॥

अथर्व० कां० २० । सू० १२७ । मं० १२ ॥ आश्व० १ । ८ । १० ॥

इस मन्त्र को बोल के, यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा तृणासन पर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बैठावे । तत्पश्चात् पृष्ठ २०-२१ में लि०—

ओम् अष्टतोपस्तरणमसि० ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन करें । तत्पश्चात् पृष्ठ २१-२२ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाविधि समिधाचयन अग्न्याधान करे । जब कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित हो तब उस पर घृत सिद्ध करके पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे समिधाधान करके प्रदीप्त हुए अग्नि में पृष्ठ २ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्य-भोगाहुति ४ (चार और व्याहृति आहुति ४ (चार , अष्टा-ज्याहुति ८ (आठ) सब मिलकर १६ (सोलह) आज्याहुति वधू वर करके. प्रधानहोम का आरम्भ निम्नलिखित मन्त्रों से करे—

ओम् इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह धृत्यै—इदं न मम ॥ १ ॥

आम् इह स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदमिह स्वधृत्यै—इदं न मम ॥२॥

आम् इह रग्निः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्यै—इदं न मम ॥३॥

ओम् इह रमस्व स्वाहा ॥ इदमिह रमाय—इदं न मम ॥४॥

ओं मयि धृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि धृत्यै—इदं न मम ॥५॥

ओं मयि स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधृत्यै—इदं न मम ॥६॥

ओं मग्नि रमः स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय—इदं न मम ॥७॥

ओं मयि रमस्व स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय—इदं न मम ॥८॥

मं० ब्रा० १ । ६ । १ । ४ ॥ गोमि० २ । ४ । १० ॥

इन मन्त्रों से प्रत्येक से एक २ करके ८ (आठ) आज्या-
हुति देके, वधू वरः—

आम् आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजर्माय समन-
क्त्वर्यमा । अर्दुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विशु शं नो भव द्विपदे
शं चतुष्पदे स्वाहा* । इदं सूर्यायै त्राविश्र्यै—इदं न मम ॥१॥

* हे वधू (अर्चमा) न्यायकारी, दयालु (प्रजापति) परमात्मा
कृपा करके (आजरसाय) जरावस्था पर्यन्त जीने के लिये (नः) हमारे
(प्रजाम्) उत्तम प्रजा को शुभगुण कर्म और स्वभाव से (आजनयतु)
प्रसिद्ध करे, (समनक्त्तु) उससे उत्तम सुख को प्राप्त करे, और वे शुभगुण-
युक्त (मङ्गलीः) श्री लोग सब कुटुम्बियों को आनन्द (अर्दुः) देवें, उन
में से एक तु हे वरानने ! (पतिलोकम्) पति के घर वा सुख को (आविश)
प्रवेश वा प्राप्त हो (नः) हमारे (द्विपदे) पिता आदि मनुष्यों के लिये
(शम्) सुखकारियों और (चतुष्पदे) गौ आदि को (शम्) सुखकर्त्री
(भव) हो ॥ १ ॥

ओम् अघोरचतुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः
सुवर्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे
स्वाहा * ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै—इदं न मम ॥ २ ॥

ओम् इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभागां कृणु ।
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि स्वाहा + ॥
इदं सूर्यायै सावित्र्यै—इदं न मम ॥ ३ ॥

* इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १४४ में लिखे प्रमाणे जानना ॥ २ ॥

+ ईश्वर पुरुष और स्त्री को आज्ञा देना है कि हे (मीद्वः) धीरसेचन करनेहारे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त इस वधूके स्त्रामित्र ! (इवम्) तू (इमाम्) इस वधू को (सुपुत्राम्) उत्तम पुत्रयुक्त सुभगाम्) सुन्दर, सौभाग्य भोगवाली (कृणु) कर । (अस्याम्) इस वधूमें (दश) दश (पुत्रान्) पुत्रों को (आ धेहि) उत्पन्न कर, अधिक नहीं । और हे स्त्री ! तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और (एकादशम्) ग्यारहवें (पतिम्) पति को प्राप्त होकर सन्तोष (कृधि) कर । यदि इससे आगे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट, अल्पायु, निर्बुद्धि सन्तान होंगे, और तुम भी अल्पायु रोंगप्रस्त हो जाओगे । इसलिये अधिक सन्तानोत्पत्ति न करना ।

तथा (पतिमेकादशं कृधि) इस पद का अर्थ नियोग में दूसरा होगा, अर्थात् जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा ने की है, वैसी ही आज्ञा स्त्री को भी है कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात् नियोग से दश सन्तानों की उत्पत्ति करने कराने की आज्ञा है । जैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति से एक बार विवाह और पुरुष के लिये भी एक स्त्री से एक ही बार विवाह करने की आज्ञा है । जैसे विधवा हुए पश्चात् स्त्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होते, जैसे पुरुष भी विगतस्त्री होते तो नियोग से पुत्रवान् होते ॥ ३ ॥

ओं सम्राज्ञी श्वशुरं भव सम्राज्ञीं श्वश्र्वां भव ।
ननान्दरी सम्राज्ञीं भव सम्राज्ञीं अधि देवृषु स्वाहा * ॥
इदं सूर्यायै सावित्र्यै—इदम् मम ॥ ४ ॥

अ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ४३-४६ ॥ आश्व० १ । ८ । ६ ॥

इन ४ (चार) मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ (चार)
आज्याहुति दे के, पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत् होमाहुति
१ (एक), व्याहृति आज्याहुति ४ (चार) और प्रजापत्याहुति
१ (एक) ये सब मिलके ६ (छः) आज्याहुति देकर, घर बधू-

समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ।

सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्रीं दधातु नौ + ॥

अ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ४७ ॥ आश्व० १ । ८ । ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के दोनों दधिप्राशन करें । तत्पश्चात्—

अहं भो अभिवादयामि ऽ ॥ गोभि० २ । ४ । ११ ॥

ॐ हे वरानने ! तू (श्वशुरे) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है, उस में
प्रीति करके । (सम्राज्ञी) सम्यक् प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के
समान पक्षपात छोड़ के प्रवृत्त (भव) हो । (श्वश्र्वाम्) मेरी माता जो
कि तेरी सासु है, उसमें प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा में (सम्राज्ञी)
सम्यक् प्रकाशमान (भव) रहा कर । (ननान्दरी) जो मेरी बहिन और
तेरी ननन्द है उसमें भी (सम्राज्ञी) प्रीतियुक्त और (देवृषु) मेरे भाई
जो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं उनमें भी (सम्राज्ञी) प्रीति से
प्रकाशमान (अधि भव) अधिकारयुक्त हो, अर्थात् सब से अविरोधपूर्वक
प्रीति से घर्ता कर ॥ ४ ॥

+ इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १४२-१४३ में लिखित समझ लेना ॥

† इससे उक्तम 'नमस्ते' यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिए

इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर के माता पिता आदि वृद्धों को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करें।

पश्चात् दोनों वधू वर सुभूषित होकर शुभासन पर बैठ के, पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे धामदेव्यगान करके, उन्ही समय पृष्ठ २-६ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करना। उस समय कार्यार्थ आये हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर, पिता, आचार्य और पुराहित आदि को कहें कि—

ओं स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥

भाश्वला० गृ० अ० १। कं० ८। स० १५ ॥

आप लोग स्वस्तिवाचन करें। तत्पश्चात् पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान् हो अथवा उनके अभाव में यदि वधू वर, विद्वान् वेदवित् हों तो वे ही दोनों पृष्ठ ६-१० में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से करें।

पाठ हुए पश्चात् कार्यार्थ आप हुए स्त्री पुरुष सब—

ओं स्वस्ति, ओं स्वस्ति, ओं स्वस्ति ॥

इस वाक्य को बोलें तत्पश्चात् कार्यकर्ता, पिता चाचा भाई आदि पुरुषों को तथा माता, चाँची, भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत् सत्कार करके विदा करें।

तत्पश्चात् वधू वर क्षात्र आहार और विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ रह कर, पृष्ठ २६-४५ में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस में गर्भाधान संस्कार, करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न

नित्य प्रति स्त्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है। प्रातः सायं अपूर्व समागम में जब २ मिलें तब २ इसी वाक्य से परस्पर वन्दन करें ॥

हो तो किसी दूसरे दिन गर्भ स्थापन करें। और जो घर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो उस स्थान में गर्भाधान करें।

पश्चात् अपने घर आ के पति, सासु, श्वसुर, ननन्द, देवर, देवरानी, ज्येष्ठ, जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात् सत्कार करें, सदा प्रीतिपूर्वक परस्पर बतें, और मधुर चाली, वस्त्र, आभूषण आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को रखें तथा वधू भी सग को प्रसन्न रखे। और घर उस वधू के साथ पत्नीव्रतादि सद्धर्म से बतें, तथा पत्नी भी पति के साथ पतिव्रतादि सद्धर्म चाल चलन से सदा पति की आर्द्धा में तत्पर और उत्सुक रहे, तथा घर भी स्त्री की सेवा, प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥

इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ गृहाश्रमसंस्कारविधिं वक्ष्यामः



'गृहाश्रम संस्कार' उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक सुखप्राप्ति के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना, और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृहकृत्य करना, और सत्य धर्म में ही अपना तन, मन, धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पत्ति करनी, इसी का नाम गृहाश्रम संस्कार है।

अत्र प्रमाणानि—

सोमो वधूयुरभवद्दशिवनास्तामुभा वरा ।
सूर्यो यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात् ॥ १ ॥

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ।

क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥ २ ॥

ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ६, ४२ ॥

अर्थः—(सोमः) सुकुमार शुभगुणयुक्त (वधूयुः) वधू की कामना करनेहारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी (अश्विना) दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त (अभवत्) हों, और (उभा) दोनों (वरा) श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभाववाले (आस्ताम्) हों, ऐसी (यत्) जो (सूर्याम्) सूर्य की किरणवत् सौन्दर्य गुणयुक्त (पत्ये) पति के लिये (मनसा) मन से (शंसन्तीम्) गुण कीर्त्तन करनेवाली वधू है, उसको पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री (सविता) सकल जगत् का उत्पादक परमात्मा (ददात्) देता है । अर्थात् बड़े भाग्य से दोनों स्त्री पुरुषों का, जो कि तुल्य गुण कर्म स्वभाव हों, जोड़ा मिलता है ॥१॥

हे स्त्री और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूँ कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम, दोनों ने स्वीकार किया है (इहैव) इसी में (स्तम्) तत्पर रहो, (मा वियौष्टम्) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होओ । (विश्वमायुर्व्यश्नुतम्) ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न करके, सम्पूर्ण आयु जो १०० सौ वर्षों से कम नहीं है, उसको प्राप्त होओ और पूर्वोक्त धर्म रीति से (पुत्रैः) पुत्रों और (नप्तृभिः) नातियों के साथ (क्रीडन्तौ) क्रीड़ा करते हुए (स्वे गृहे) उत्तम गृह वाले (मोदमानौ) आनन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीतिपूर्वक वास करो । २ ॥

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशोवा पत्ये अशुराय शम्भुः ।

स्योना अश्वै प्र गृहान् विशोमान् ॥३॥

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।

स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव ॥ ४ ॥

या दुर्हादीं युवतयो याश्चेह जरतीरपि ।

वर्चो न्वर्स्यै सं दत्तायास्तं विपरेतन ॥ ५ ॥

आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै ।

इन्द्राणीवि सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिग्रा उषसः प्रति जागरासि । ६

अथर्व० का० १४ । सू० २ । मं० २६, २७, २६, ३१ ॥

अर्थः—हे वरानने ! तू (सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा (प्रतरणी) दोष और शोकादि से पृथक् रहनेहारी (गृहाणाम्) गृहकार्यों में चतुर और तत्पर रहकर (सुशेवा) उत्तम सुखयुक्त होके (पत्ये) पति को (श्वशुराय) श्वशुर और (श्वश्रुवे) सासु के लिये (शम्भूः) सुखकर्त्री और (स्योना) स्वयं प्रसन्न होकर (इमान्) इन (गृहान्) घरों में सुखपूर्वक (प्रविश) प्रवेश कर ॥ ३ ॥

हे वधू ! तू (श्वशुरेभ्यः) श्वशुरादि के लिये (स्योना) सुखदाता (पत्ये) पति के लिये (स्योना) सुखदाता, और (गृहेभ्यः) गृहस्थ सम्बन्धियों के लिये (स्योना) सुखदायक (भव) हो, और (अस्यै) इस (सर्वस्यै) सब (विशे) प्रजा के अर्थ (स्योना) सुखप्रद और (षणाम्) इनके (पुष्टाय) पोषण के अर्थ तत्पर (भव) हो ॥ ४ ॥

(याः) जो (दुर्हादिः) दुष्ट हृदयवाली अर्थात् दुष्टात्मा (युवतयः) ज्वान स्त्रियां (च) और (याः) जो (इह) इस स्थान में (जरती) बुढ़्ढी वृद्ध दुष्ट स्त्रिया हों वे (अपि) भी (अस्यै) इस वधू को (तु) शीघ्र (वर्चः) तेज (संदत्त) देवें, (अथ) इसके पश्चात् (अस्तम्) अपने २ घर को (विपरेतन) चली जावें और फिर इसके पास कमी न आवें ॥ ५ ॥

हे वरानने ! तू (सुमनस्यमाना) प्रसन्न चित्त होकर (तल्पम्) पर्यङ्क पर (आ रोह) चढ़ के शयन कर और (इह) इस गृहाश्रम में स्थिर रहकर (अस्मै) इस (पत्ये) पति के लिये (प्रजां जनय) प्रजा को उत्पन्न कर, (सुबुधा) सुन्दर ज्ञानी (बुध्यमाना) उत्तम शिक्षा को प्राप्त (इन्द्राणीव) सूर्य की कान्ति के समान तू (उपसः) उपःकाल की (अग्रा) पहिली (ज्योतिः) ज्योति के तुल्य (प्रतिजागरासि) प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह ॥ ६ ॥

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूभिः ।
 सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥७॥
 सं पितरावृत्त्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः ।
 मर्येइव योषामर्धि रोहयैनां प्रजांकुएवाथामिह पुष्यतं रयिम् ॥८॥
 तां पूषच्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याइवपन्ति ।
 या न ऊरु उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेषः ॥९॥

अथर्व० कां० १४ । सू० २ । मं० ३२, ३७, ३८ ॥

अर्थः—हे सौभाग्यप्रदे ! (नारि) तू जैसे (इह) इस गृहाश्रम में (अग्रे प्रथम (देवाः) विद्वान् लोग (पत्नीः) उत्तम स्त्रियों को (न्यपद्यन्त) प्राप्त हुये हैं, और (तनूभिः) शरीरों से (तन्वः) शरीरों को (समस्पृशन्त) स्पर्श करते हैं, वैसे (विश्वरूपा) विविध सुन्दर रूप को धारण करनेहारी (महित्वा) सत्कार को प्राप्त होके (सूर्येव) सूर्य की कान्ति के समान (पत्या) अपने स्वामी के साथ मिलके (प्रजावती) प्रजा को प्राप्त होने-हारी संभव) अच्छे प्रकार हो ॥ ७ ॥

हे स्त्री पुरुषों ! तुम (पितरौ) बालकों के जनक (ऋत्त्विये) ऋतुसमय में सन्तानों को (संसृजेथाम्) अच्छे प्रकार उत्पन्न-

करो । (माता) जननी (च) और (पिता) जनक दोनों (रेतसः) वीर्य को मिलाकर गर्भाधान करने हारे (भवाथः) हृजिये । हे पुरुष ! (पनाम्) इस (योपाम्) अपनी स्त्री को (मर्यइव) प्राप्त होनेवाले पति के समान (अधि रोहय) सन्तानों से बढ़ा, और दोनों (इह) इस गृहाश्रम में मिल के (प्रजाम्) प्रजा को (कृणवाथाम्) उत्पन्न करो, (पुष्यतम्) पोल्न पोषण करो और पुरुषार्थ से (रयिम्) धन को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥

हे (पूषम्) वृद्धिकारक पुरुष ! (यस्याम्) जिसमें (मनुष्याः) मनुष्य लोग (बीजम्) वीर्य को (वपन्ति) बोते हैं, (या) जो (नः) हमारी (वशती) कामना करती हुई (ऊरू) ऊरू को सुन्दरता से (विश्रयाति) विशेषकर आश्रय करती है, (यस्याम्) जिसमें (उशन्त') सन्तानों की कामना करते हुए हम (शेपः) उपस्थेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रहरण करते हैं, (ताम्) उस (शिवतमाम्) अतिशय कल्याण करनेहारी अपनी स्त्री को सन्तानोत्पत्ति के लिये (परयस्व) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ ९ ॥

स्योनाद्योनेराधि बुध्यमानौ हसामदौ महसा मोदमानौ ।

सुग् सुपुत्रौ सुगृहौ तंरायो जीवावुषसो विभातीः ॥१०॥

इहेमाधिन्द्र स नुद चक्रवाक्व दम्पती ।

प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यऽश्नुताम् ॥ ११ ॥

जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः ।

अरिष्टाम् सचेवहि बृहते वाजसातये ॥ १२ ॥

अथर्व० का० १४ । सू० २ । मं० ४३, ६४, ७२ ॥

अर्थः—हे स्त्री और पुरुष ! जैसे सूर्य (विभातीः) सुन्दर प्रकाशयुक्त (उषसः) प्रभातवेला को प्राप्त होता है, वैसे (स्यो-

नात्) सुख से (योने:) घर के मध्य में (अधि बुध्यमानौ) सन्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे प्रकार जाननेहारे, सदा (हसामुदौ) हास्य और आनन्दयुक्त, (महसा) बड़े प्रेम से (मोदमानौ) अत्यन्त आनन्द युक्त (सुगू) उत्तम चाल चलन से धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलनेहारे, (सुपुत्रा) उत्तम पुत्रवाले, (सुगृहौ) श्रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त (जीवौ) उत्तम प्रकार जीवन को धारण करते हुए (तराथ:) गृहाश्रम के व्यवहारों के पार होओ ॥ १० ॥

हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वन् राजन् ! आप (इह) इस संसार में (इमौ) इन स्त्री पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा और ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई स्त्री पुरुष पृष्ठ ६८-१०४ में लिखे प्रमाण से पूर्व वा अन्यथा विवाह न कर सकें, वैसे (सनुद) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये, जिससे ब्रह्मचर्यपूर्वक शिक्षा को पाके (दम्पती) जाया और पति (चक्रवाकेव) चक्रवा चक्रवी के समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें और गर्भाधान संस्कारोक्तविधि से (प्रजया) उन्नत हुई प्रजा से (एनौ) ये दोनों (स्वस्तकौ) सुखयुक्त हो के (विश्वम्) सम्पूर्ण १०० वर्ष पर्यन्त (आयु:) आयु को (व्यश्रुताम्) प्राप्त हों ॥ ११ ॥

हे मनुष्यो ! जैसे (सुदानव:) विद्यादि उत्तम गुणों के दान करनेहारे (अग्रव:) उत्तम स्त्री पुरुष (जनियन्ति) पुत्रोत्पत्ति करते और (पुत्रियन्ति) पुत्र की कामना करते हैं वैसे (नो) हमारे भी सन्तान उत्तम हों, तथा (अरिष्टासू) बल प्राण का नाश न करनेहारे होकर (वृहते) बड़े (वाजसातये) परोपकार के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये (सचेवहि) कटिबद्ध सदा रहें, जिससे हमारे सन्तान भी उत्तम हों ॥ १२ ॥

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय
गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु ॥ १३ ॥
अथर्व० कां० १४ । सू० २ । मं० ७५ ॥

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यमभिर्हयत वृत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १४ ॥
अथर्व० कां० ३ । सू० ३० । १० १ ॥

अर्थः—हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) शतवर्ष पर्यन्त (दीर्घा-
युत्वाय) दीर्घकाल जीने के लिये (सुबुधा) उत्तम बुद्धियुक्त
(बुध्यमाना) सञ्ज्ञान होकर (गृहान्) मेरे घरों को (गच्छ)
प्राप्त हो, और (गृहपत्नी) मुझ घर के स्वामी की स्त्री (यथा)
जैसे (ते) तेरा (दीर्घम्) दीर्घकालपर्यन्त (आयुः) जीवन
(असः) होवे वैसे (प्रबुध्यस्व) प्रकृष्टज्ञान और उत्तम व्यवहार
को यथावत् जान । इस अपनी आशा को (सविता) सब जगत्
की उत्पत्ति और संपूर्ण ऐश्वर्य को देनेहारा परमात्मा (कृणोतु)
अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे, जिससे तू और मैं सदा
उन्नतिशील होकर अनन्द में रहें ॥ १३ ॥

हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर तुमको जैसी आशा देता हूँ वैसे ही
[वर्त्तमान] करो, जिससे तुमको अक्षय सुख हो अर्थात् (वः)
तुम्हारा (सहृदयम्) जैसी अपने लिये सुख की इच्छा करते
और दुःख नहीं चाहते हो वैसे माता पिता सन्तान स्त्री पुरुष
भृत्य मित्र पड़ोसी और अन्य सबसे समान हृदय रहो । (सां-
मनस्यम्) मन से सम्यक प्रसन्नता और (अविद्वेषम्) वैर
विरोधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये (कृणोमि) स्थिर
करता हूँ, तुम (अध्न्या) हनन न करने योग्य गाय (वृत्सं
जातमिव) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सल्यभाव से जैसे वर्तती

हैं वैसे (अन्यो अन्यम्) एक दूसरे से (अभि ह्येत) प्रेम पूर्वक कामना से वर्त्ता करो ॥ १४ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ १५ ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विद्वन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥

अथर्व० कां० ३ । सू० ३० । मं० २, ३ ॥

अर्थः—हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा (पुत्रः) पुत्र (मात्रा) माता के साथ (मनाः) प्रीतियुक्त मनवाला, (अनुव्रतः) अनुकूल आचरणयुक्त, (पितुः) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रेमवाला (भवतु) होवे, वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्त्ता करो । जैसे (जाया) स्त्री (पत्ये) पति की प्रसन्नता के लिये (मधुमतीम्) माधुर्य गुणयुक्त (वाचम्) वाणी को (वदतु) कहे वैसे पति भी (शन्तिवाम्) शान्त होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे ॥ १५ ॥

हे गृहस्थो ! तुम्हारे में (भ्राता) भाई (भ्रातरम्) भाई के साथ (मा द्विद्वन्) द्वेष कभी न करे, उत) और (स्वसा) बहिन (सस्वारम्) बहिन से द्वेष कभी (मा) न करे तथा बहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु (सम्यञ्चः) सम्यक् प्रेमादि गुणों से युक्त (सव्रताः) समान गुण कर्म स्वभाववाले (भूत्वा) होकर (भद्रया) मङ्गलकारक रीति से एक दूसरे के साथ (वाचम्) सुखदायक वाणी को (वदत) बोला करो ॥ १६ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥

अथर्व० कां० ३ । सू० ३० । मं० ४ ॥

अर्थः—हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर (येन) जिस प्रकार के व्यवहार से (देवाः) विद्वान् लोग (मिथः) परस्पर न (वियन्ति) पृथक्भाववाले नहीं होते, (च) और (नो विद्विषते) परस्पर में द्वेष कभी नहीं करते, (तत्) वही कर्म (वः) तुम्हारे (गृहे) घर में (कुरामः) निश्चित करता हूँ। (पुरुषेभ्यः) पुरुषों को (संज्ञानम्) अच्छे प्रकार चिताता हूँ कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वर्त कर बढ़े (ब्रह्म) धनैश्वर्य को प्राप्त होओ ॥ १७ ॥

ज्यायस्वन्तश्चितिनो मा वि वीष्ट संराधयन्तः सुधुराश्वरन्तः ।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सघ्नीचीनान्वः संमन-
सस्कृणोमि ॥ १८ ॥ अथर्व० का० ३ । सू० ३० । म० ५ ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम (ज्यायस्वन्तः) उत्तम विद्यादिगुणयुक्त (चितिनः) विद्वान् सज्ञान (सुधुराः) धुरन्धर होकर (चरन्तः) विचरते और (संराधयन्तः) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समृद्धि को प्राप्त होते हुए (मा वीष्ट) विरोधी वा पृथक् २ भाव मत करो। (अन्यः) एक (अन्यस्मै) दूसरे के लिये (वल्गु) सत्य मधु भाषण (वदन्तः) कहते हुए एक दूसरे को (एत) प्राप्त होओ इसीलिये (सघ्नीचीनान्) समान लाभालाभ से एक दूसरे के सहायक, (संमनसः) ऐकमत्यवाले (वः) तुमको (कृणोमि) करता हूँ अर्थात् मैं ईश्वर तुम को जो आक्षा देता हूँ, इसको आलस्य छोड़कर किया करो ॥ १८ ॥

समानी प्रपा सह वीऽभ्रभागः समाने योक्त्रे सह वीऽधुनज्मि ।

सुम्यन्वोऽग्निं

संपर्यतारा

नाभिमिवाभितः ॥ १९ ॥

सुधीचीनान्वः संमनसकृणोम्येकश्रुष्टीन्संबननेन सर्वान् ।
 देवाइवाभृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥२०॥

अथर्व० कां० ३ । सू० ३० । मं० ६, ७ ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मुझ ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा) जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार (समानी) एकसा हो, (वः) तुम्हारा (अन्नभागः) खान पान (सह) साथ हुआ करे, (वः) तुम्हारे (समाने) एक से (योक्त्रे) अश्वादि यान के जोते (सह) संगी हों और तुमको मैं धर्मादि व्यवहार में भी एकीभूत करके (युनजिम) नियुक्त करता हूँ जैसे (अराः) चक्र के आरे (अभितः) चारों ओर से (नाभिमिव) बीच के नालरूप काष्ठ में लगे रहते हैं अथवा जैसे ऋत्विज् लोग और यजमान यज्ञ में मिल के (अग्निम्) अग्नि आदि के सेवन से जगत् का उपकार करते हैं, वैसे (सम्यञ्चः) सम्यक् प्राप्तिवाले 'तुम मिल के धर्मयुक्त कर्मों को (सपर्यत) तथा एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १६ ॥

हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मैं ईश्वर (वः) तुमको (सुधीचीनान्) सह वर्त्तमान; (संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी, (एकश्रुष्टीन्) एक ही धर्मकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होनेवाले, (सर्वान्) सब को (संबननेन) धर्मकृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त (कृणोमि) करता हूँ । तुम (देवाः इव) विद्वानों के समान (अमृतम्) व्यावहारिक वा पारमार्थिक सुख की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हुये (सायंप्रातः) सन्ध्या और प्रातःकाल अर्थात् सब समय में एक दूसरे से प्रेमपूर्वक मिला करो । ऐसे करते हुए (वः) तुम्हारा (सौमनसः) मन का आनन्दयुक्त शुद्धभाव (अस्तु) सदा बना रहे ॥ २० ॥

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तऋते श्रिताः ॥ २१ ॥

सत्येनावृताः श्रिया प्रावृता यशसा परीवृती ॥ २२ ॥

स्वधया परिहिता अद्धया पर्युढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता
लोको निधनम् ॥ २३ ॥ अथर्व० कां० १२ । सू० ५ । मं० १-३ ॥

अर्थः— हे स्त्री पुरुषो ! मैं ईश्वर तुमको आशा देता हूँ कि
तुम सब गृहस्थ मनुष्य लोग (श्रमेण) परिश्रम तथा (तपसा)
प्राणायाम से (सृष्टाः) संयुक्त (ब्रह्मणा) वेदविद्या परमात्मा
और धनादि से (वित्ते) भोगने योग्य धनादि के प्रयत्न में और
(ऋते) यथार्थ पक्षपातरहित न्यायरूप धर्म में श्रिताः)
चलनेहारे सदा बने रहो ॥ २१ ॥

(सत्येन) सत्यभाषणादि कर्मों से (आवृताः) चारों
ओर से युक्त, (श्रिया) शोभायुक्त लक्ष्मी से (प्रावृताः) युक्त,
(यशसा) कीर्ति और धन से (परीवृताः) सब ओर से संयुक्त
रहा करो ॥ २२ ॥

(स्वधया) अपने ही अन्नादि पदार्थ के धारण से (परि-
हिताः) सब के हितकारी, (अद्धया) सत्य धारण में अज्ञा से
(पर्युढाः) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे,
(दीक्षया) नाना प्रकार के ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि व्रत धारण
से (गुप्ताः) सुरक्षित, (यज्ञे) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या
और शुभ गुणों के दान में (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ
करो, और इन्हीं कर्मों से (निधनम् लोक) इस मनुष्यलोक
को प्राप्त होके मृत्युपर्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३ ॥

आजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक् चैन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ २४ ॥

अथर्व० कां० १२ । सू० ५ । मं० ७ ॥

अर्थः— हे मनुष्यो ! तुम जो (अजः) पराक्रम (च) और इसकी सामग्री (तेजः) तेजस्वीपन (च) और इसकी सामग्री (सहः) स्तुति, निन्दा, हानि लाभ तथा शोकादि का सहन (च) और इसके साधन (बलश्च) बल और इसके साधन (वाक् च) सत्य, प्रिय वाणी और इसके अनुकूल व्यवहार (इन्द्रियश्च) शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण और शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता (श्रीश्च) लक्ष्मी, सम्पत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग (धर्मश्च) पक्षपातरहित न्यायाचरण वेदोक्त धर्म और जो इस के साधन वा लक्षण हैं, उनको तुम प्राप्त होके इन्हीं में सदा वर्ता करो ॥ २४ ॥

ब्रह्मं च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च
वर्चश्च द्रविणं च ॥ २५ ॥

आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च
श्रोत्रं च ॥ २६ ॥

पर्यश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च
प्रजा च पशवश्च ॥ २६ ॥ अथर्व० कां० १२। सू० ५। मं० ८-१० ॥

अर्थः— हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि (ब्रह्म च) पूर्ण विद्यादि शुभ गुणयुक्त मनुष्य और सब के उपकारक शमदमादि गुणयुक्त ब्रह्मकुल (क्षत्रश्च) विद्यादि उत्तम गुणयुक्त तथा विनय और शौर्यादिगुणों से युक्त क्षत्रियकुल, (राष्ट्रश्च) राज्य और उसका न्याय से पालन, (विशश्च) उत्तम प्रजा और उसकी उन्नति, (त्विषश्च) सद्विद्यादि से तेज, आरोग्य शरीर और आत्मा के बल से प्रकाशमान और इसकी उन्नति से (यशश्च) कीर्तियुक्त तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो । (वर्चश्च) पढ़ी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना,

(द्रविणश्च) द्रव्योपाजन उसकी रक्षा और धर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! तुम अपना (आयुः) जीवन बढ़ाओ, (च) और सब जीवन में धर्मयुक्त उत्तम कर्म ही किया करो । (रूपश्च) विषयासक्ति कुपथ्य रोग और अधर्माचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा रक्खो और धर्माभूषण भी धारण किया करो । (नाम च) नामकरण के पृष्ठ ६१-६५ में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त संज्ञा धारण और उसके नियमों को भी (तथा) (कीर्तिश्च) सत्याचरण से प्रशंसा को धरण करो और गुणों में दोषारोपणरूप निन्दा को छोड़ दो । (प्राणश्च) चिरकाल पर्यन्त जीवन प्राण का धारण और उसके युक्ताहार विहारादि साधन (अपानश्च) सब दुःख दूर करने का उपाय और उसकी सामग्री (चक्षुश्च) प्रत्यक्ष और अनुमान, उपमान (श्रोत्रश्च) शब्दप्रमाण और उसकी सामग्री को धारण किया करो ॥ २६ ॥

गृहस्थ लोगो ! (पयश्च) उत्तम जल दूध, और इसका शोधन और युक्तिसे सेवन (रसश्च) घृत, दूध, मधु आदि और इसका युक्ति से आहार विहार (अन्नश्च) उत्तम चावल आदि अन्न और उसके उत्तम संस्कार किये (अन्नाद्यश्च) खाने के योग्य पदार्थ और उसके साथ उत्तम दाल शाक कढ़ी आदि (ऋतश्च) सत्य मानना और सत्य मनवाना (सत्यश्च) सत्य बोलना और बुलवाना (इष्टश्च) यज्ञ करना और कराना (पूर्त्तश्च) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय और आराम चाटिका आदि का बनाना और बनवाना (प्रजा च प्रजा की उत्पत्ति, पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी, (पशवश्च) गाय आदि पशुओं का पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ १ ॥

य० अ० ४० । मं० २ ॥

अर्थः—मैं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य (इह) इस संसार में शरीर से समर्थ हो के (कर्माणि) सत्यकर्मों को (कुर्वन्नेव) करता ही करता (शत समाः) १०० सौ वर्ष पर्यन्त (जिजीविषेत्) जीने की इच्छा करे, आलसी और प्रमादी कभी न होवे । (एवम्) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए (त्वयि (तुम्हें (नरे) मनुष्य में (इतः) इस हेतु से (अन्यथा) उलटापनरूप (कर्म) दुःखः कर्म (न लिप्यते) लिप्यमान कभी नहीं होता और तुम पापरूप कर्म में लिप्त कभी मत होओ, इस उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख (नास्ति) नहीं होता । इसलिये तुम स्त्री पुरुष सदा पुरुषार्थी होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नति किया करो ॥ १ ॥

पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा और आचरण किया करें । वे मन्त्र ये हैं—

भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात्सुवीरौ वीरैः सुपोषः पोषैः ।
नर्यं प्रजां मे पाहि शशस्यं पशून् मे पाह्यर्यं पितुं मे पाहि ॥२॥

गृह्णामा विभीतमा वैपध्वमूर्जं विभ्रत एमांसि ।

ऊर्जं विभ्रद्दः सुमनाः सुमेधा गृह्णामि मनसा मोदमानः ॥३॥

य० अ० ३ । मं० ३७, ४१ ॥

अर्थः—हे स्त्री वा पुरुष ! मैं तेरे वा अपने के सम्बन्ध से (भूर्भुवः स्वः) शारीरिक, वाचिक और मानस अर्थात् त्रिविध सुख से युक्त हो के (प्रजाभिः) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के

साथ (सुप्रजाः) उत्तम प्रजायुक्त (स्याम) होऊं (वीरैः) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और भृत्यों से सह वर्तमान, (सुवीरः) उत्तम वीरों से सहित होऊं । (पौर्यैः) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से (सुपोषः) उत्तम पुष्टियुक्त होऊं । हे (नर्यैः) मनुष्यों में सज्जन वीर स्वामिन् ! (मे) मेरी (प्रजाम्) प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (शंस्य) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन् आप (मे) मेरे (पशून्) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (अथर्यैः) अहिंसक दयालो स्वामिन् ! (मे) मेरे (पितुम्) अन्न आदि की (पाहि) रक्षा कीजिये । जैसे हे नारी ! प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर ॥ २ ॥

हे (गृहाः) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश करने से (मा विभीत) मत डरो, (मा वेपथ्वम्) मत कम्पायमान होओ, (ऊर्जम्) अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाश्रम को (विभ्रतः) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान् लोग (एमसि) प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैं और अन्नपानाच्छादन स्थान से तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो, इसलिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है । हे वरानने ! जैसे मैं तेरा पति (मनसा) अन्तःकरण से (मोदमानः) आनन्दित (सुमनाः) प्रसन्न मन (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त तुम्हें को और हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ! (वः) तुम्हारे लिये (ऊर्जम्) पराक्रम तथा अन्नादि पेश्वर्य (विभ्रत्) धारण करता हुआ तुम (गृहान्) गृहस्थों को (आ एमि) सब प्रकार से प्राप्त होता हूँ, वसी प्रकार तुम लोग भी मुझ से प्रसन्न हो के वरत्ता करो ॥ ३ ॥

येषामध्येति प्रवसन्त्येषु सौमनसो बहुः ।

गृहानुप ह्यामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥

उपहृता इह गाव उपहृता अजावयः । अथो अन्नस्य
कीलाल उपहृतो गृहेषु नः । क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवम्
शग्मम् शंयोः शंयोः ॥ ५ ॥ यजु० अध्याय ३ । मं० ४२, ४३ ॥

अर्थः—हे गृहस्थो ! (प्रवसन्) परदेश को गया हुआ
मनुष्य (येषाम्) जिनका (अध्येति) स्मरण करता है, (येषु)
जिन गृहस्थों में (बहुः) बहुत (सौमनसः) प्रीति होती है,
उन (गृहान्) गृहस्थों की हम विद्वान् लोग (उप ह्वयामहे)
प्रशंसा करते और प्रीति से समीप बुलाते हैं, (ते) वे गृहस्थ
लोग (जानतः) उनको जाननेवाले (नः) हम लोगों को
(जानन्तु) सुदृढ़ जानें, वैसे तुम गृहस्थ और हम संन्यासी
लोग आपस में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार और परमार्थ की
उन्नति सदा किया करें ॥ ४ ॥

हे गृहस्थो ! (नः) अपने (गृहेषु) घरों में जिस प्रकार
(गावः) गौ आदि उत्तम पशु (उपहृताः) समीपस्थ हों, तथा
(अजावयः) बकरी भेड़ आदि दूध देनेवाले पशु (उपहृताः)
समीपस्थ हों, (अथो) इसके अनन्तर (अन्नस्य) अन्नादि पदार्थों
के मध्य में उत्तम (कीलालः) अन्नादि पदार्थ (उपहृतः) प्राप्त होवे,
हम लोग वैसा प्रयत्न किया करें । हे गृहस्थो ! मैं उपदेशक वा
राजा (इह) इस गृहाश्रम में (वः) तुम्हारे (क्षेमाय) रक्षण तथा
(शान्त्यै) निरुपद्रवता करने के लिये (प्रपद्ये) प्राप्त होता हूँ । मैं और
आप लोग प्रीति से मिल के (शिवम्) कल्याण (शग्मम्)
व्यावहारिक सुख और (शंयोः शयोः) पागमार्थिक सुख को
प्राप्त हो के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ५ ॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६०, ६१ ॥

अर्थः—हे गृहस्थो ! जिस कुल में भार्या से प्रसन्न पति और पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में निश्चित कल्याण होता है, और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है ॥ १ ॥

यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तान नहीं होते और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ २ ॥

स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्वन्तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानाया सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६२ ॥

अर्थः—और जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल भर अप्रसन्न, शोकातुर रहता है, और जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, तब सब कुल आनन्दरूप दीखता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ४ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ६ ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६५-६८ ॥

अर्थः—पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, बहिन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें, अर्थात् यथायोग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न दें ॥ ४ ॥

जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्यभोग और उत्तम सन्तान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है ॥ ५ ॥

जिस कुल में स्त्री लोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त होजाता है, और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता-रहता है ॥ ६ ॥

जिन कुल और घरों में अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग जिन गृहस्थों को शाप देती हैं, वे कुल तथा गृहस्थ जैसे विष देकर बहुतों का एकावार नाश कर दें वैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनः ।

भूतिकाभैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ८ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० १६ ॥

अर्थः—इस कारण ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले पुरुषों को योग्य है कि इन स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण, वस्त्र, खान, पान आदि से सदा पूजा अर्थात् सत्कारयुक्त प्रसन्न रखें ॥ ८ ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चागृहस्तया ॥ ९ ॥

मनु० अ० ५ । श्लो० १५० ॥

अर्थः—स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे, तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, बस्त्र, गृह आदि के संस्कार और घरके भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥ ६ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्मर्तृगुणैः शुभैः ॥ १० ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० २४ ॥

अर्थः—यदि स्त्रियां दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत स्त्रियां अपने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट होगई, होती हैं और होंगी भी, इसलिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां श्रेष्ठ, और पुरुष दुष्ट हों तो दुष्ट होजाती हैं, इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यहं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ १२ ॥

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ १३ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० २६-२८ ॥

यथां वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ १४ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ७७ ॥

अर्थः—हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योद्भय करनेहारी, पूजा के योग्य, गृहाश्रम को प्रकाश करती, सन्ता-

नोत्पत्ति करने करनेहारी घरों में स्त्रियां हैं, वेशी अर्थात् लक्ष्मी स्वरूप होती हैं क्योंकि लक्ष्मी शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥ ११ ॥

हे पुरुषो ! अपत्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न का पालन करने आदि लोकव्यवहारों को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है, उसका निबन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष स्त्री है ॥ १२ ॥

सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, उत्तम सेवा और रति तथा अपना और पितरों का जितना सुख है, यह सब स्त्री ही के आधीन होता है ॥ १३ ॥

जैसे धारु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों का निर्वाह होता है ॥ १४ ॥

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणोदानेनाभेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ १५ ॥

सः संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ १६ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ७८-७९ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सः त्रीनेतान् विभर्ति हि ॥ १७ ॥

मनु० ६ । ८६ ॥

अर्थः—जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी इन तीन आश्रमियों को अन्न वस्त्रादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण करता है, इसलिये व्यवहार में गृहाश्रम सब से बड़ा है ॥ १५ ॥

हे स्त्रीपुरुषो ! जो तुम अक्षय * मुक्तिसुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है, उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो ॥ १६ ॥

वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का धारण और पालन करता है ॥ १७ ॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १८ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ६० ॥

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १९ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम् ॥ २० ॥

मनु० अ० ३ । १०४, १०७ ॥

पाषण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकान् शठान् ।

हैतुकान् वकवृर्त्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ २१ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० ३० ॥

अर्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सब बड़े २ नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते हैं । १८ ॥

* अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है, उतने समय में दुःख का संयोग, जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है वैसा नहीं होता ॥

यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं; क्योंकि पराये से अन्नादि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १६ ॥

जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें, तब आसन, निवास, शय्या, पश्चाद्गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा अर्थात् उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट सम्मान करे, ऐसा न हो कि कभी न समझे ॥ २० ॥

किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक ईश्वर वेद और धर्म को न मानें, अधर्माचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिथ्या-भिमानी, क्रुतकीं और वकवृत्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान, अतिथिवेषधारी बन के आवें, उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे ॥ २१ ॥

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ २२ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० ८५ ॥

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्वाभशठां शुद्धां जीवेद् ब्राह्मणजीविकाम् ॥ २३ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० ११ ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैव रमेत्प्रदा ।

शिष्याँश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ २४ ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्म चाप्यसुखोदकं लोकविकृष्टमेव च ॥ २५ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १७२, १७६ ॥

अर्थः—दश हत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार तथा गाड़ी से जीविका करनेहारे, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात् धोबी (तथा) मद्य को निकाल कर बेचनेहारे, दश ध्वज के समान वेश अर्थात् वेश्या, भड़वा, भांड, दूसरे की नकल अर्थात् पाषाण-मूर्तियों के पूजन (पूजारी) आदि, और दश वेश के समान जो अन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी भी न करें ॥ २२ ॥

गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शाल्वविरुद्ध लोकाचार का वर्त्तमान न करें, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो उस वेदोक्तधर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ २३ ॥

किन्तु सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें, और सत्यवाणी, भोजनादि के लोभ रहित, हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ ॥

यदि बहुत सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ दें और वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तर काल में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो, वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ २५ ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्यशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न यद्द्वारिशुचिः शुचिः ॥ २६ ॥

ज्ञान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥

अङ्गिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ २८ ॥

मनु० अ० ५ । श्लो० १०६, १०७, १०६ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।
त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २९ ॥

मनु० अ० १२ । श्लोक ११० ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरन्ति ।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ ३० ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक १८ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ३१ ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक २६ ॥

अर्थः—जो धर्म ही से पदार्थों का सञ्चय करना है, वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता, अर्थात् जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु जल मृत्तिकादि से जो पवित्रता होती है, वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं है ॥२६॥

विद्वान् लोग क्षमा से, दुष्टकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से, गुप्त पाप करनेहारे विचार से त्याग कर, और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि से वेदवित् उत्तम विद्वान् शुद्ध होते हैं ॥ २७ ॥

किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं, आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध, और जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धिज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं ॥२८॥

गृहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम १० अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक), तर्ककर्त्ता । मीमांसा शास्त्रज्ञ), नैरुक्त (निरुक्तशास्त्रज्ञ), धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और धानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन वेदवित् (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकर्त्तव्य धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करे ॥२८॥

और जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं वैसा सब लोग जानें, क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अर्थात् नियम में रखनेवाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक और दण्ड ही सोते हुआओं में जागता है, चौरादि दुष्ट भी दण्ड ही के भय से पापकर्म नहीं कर सकते ॥ ३० ॥

उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कहते हैं कि जो सत्यवादी, विचार ही करके कार्य का कर्त्ता, बुद्धिमान्, विद्वान्, धर्म, काम और अर्थ का यथावत् जाननेहारा हो ॥३१॥

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ३२ ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥

मनु० अ० ७ श्लोक ३०, ३१ ॥

अदण्डयान् दण्डयन् राजा दण्डयैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ३४ ॥

मनु० अ० ८ । श्लोक १२८ ॥

अर्थः—जो राजा उत्तम सहाय रहित, मूढ़, लोभी, जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की,

विषयों में फंसा हुआ है, उससे वह दण्ड कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३२ ॥

इसलिये जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी राजनीति शास्त्र के अनुकूल चलनेहारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान् राजा हो, वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता है ॥ ३३ ॥

जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात् नरक अर्थात् महादुःख को पाता है ॥ ३४ ॥

मृगयाच्चा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाटया च कामजो दशको गणः ॥ ३५ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्याऽमूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेद्भोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ३७ ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक ४७, ४६ ॥

अर्थः— मृगया अर्थात् शिकार खेलना, छत और प्रसन्नता के लिये भी चौपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्टा मिथ्यावाद करना, स्त्रियों के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपानादि नशाओं का करना, गाना, नाचना, वजाना, वा इनका देखना और वृथा इधर उधर घूमते फिरना काम से ये दश दुर्गुण होते हैं ॥ ३५ ॥

और चुगली खाना, विना विचारे काम कर बैठना, जिस किसी से वृथा वैर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन वा बढ़ती देख के हृदय में जला करना, दूसरों के गुणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, बुरे कामों में धन का लगाना, क्रूर वाणी और विना विचारे पक्षपात से किसी को करड़ा दण्ड देना, ये

आठ दोष क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं । ये १८ अठारह दुर्गुण हैं, इनको राजा अवश्य छोड़ देवे ॥ ३६ ॥

और जिस लोभ को सब विद्वान् लोग इन कामज और क्रोधज १८ अठारह दोषों का मूल जानते हैं, उसको प्रयत्न से राजा जीते, क्योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त १८ अठारह और अन्य दोष भी बहुतसे होते हैं, इसलिये हे गृहस्थ लोगो ! चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो परन्तु ऐसे दोष वाले मनुष्य को राजा कभी न करना, यदि भूल से हुआ, हो तो उसको राज्य से च्युत करके किसी योग्य पुरुष को, जो कि राजा के कुल का हो, उसी को राज्याधिकारी करना, तभी प्रजा में आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा । ३७ ॥

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वेदिति ॥ ३८ ॥

मनु० अ० १२ । श्लोक १०० ॥

मौलान् शास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्षान्कुलोदगतान् ।

सांचवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ ३९ ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक २४ ॥

अन्यान्पि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान् सुपरीक्षितान् ॥ ४० ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक ६० ॥

अर्थः—जो वेदशास्त्रवित्, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, न्यायकारी और आत्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति और प्रधान पद का अधिकार देना, अन्य लुद्राशयों को नहीं ॥ ३८ ॥

और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेहारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त हों उन सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके

मंत्री करे, और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो। ये सब मिल के कर्त्तव्याकर्त्तव्य कामों का विचार किया करें। ३६॥

इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुष से राजकार्य सिद्ध हो सके, उतने ही पवित्र, धार्मिक, विद्वान, चतुर पुरुषों को नियत करे ॥ ४० ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

शङ्किताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ४१ ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक १३ ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्धयद्बृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिप्तम् ॥ ४२ ॥

मनु० अ० ७ । श्लोक १०१ ॥

अर्थः—तथा जो सब शास्त्र में निपुण, दूसरे के हृदय की बात को नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से जाननेद्वारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्, देश काल जाननेद्वारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उसको मुख्य दूत और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देनेद्वारे अन्य दूतों को भी नियत करे ॥ ४१ ॥

तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा संभाल से, रक्षित राज्य और धन को व्यापार और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सब की उन्नति सदा किया करें ॥ ४२ ॥

विधिः—सदा ह्नी पुरुष १० दश बजे शयन और रत्रि के पहिले प्रहर वा ४ बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म अर्थ का विचार करना और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ना चाहिये, किन्तु सदा

शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहारविहार, औषध-धनवन, सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पाश्चात्तिक कर्त्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वरोपासना भी करनी कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि और सहायसे महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके। इसके लिये निम्न-लिखित मन्त्रों से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये—

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना ।
 प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम ॥१॥
 प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधृता ।
 आध्रश्चिद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भृचीत्याह+ ॥२॥

☉ हे की पुरुषो ! जैसे हम विद्वान् उपदेशक लोग (प्रातः) प्रभात वेला में (अग्निम्) स्वप्रकाशस्वरूप (प्रातः) (इन्द्रम्) परमेश्वर्य के दाता और परमैश्वर्ययुक्त (प्रातः) (मित्रावरुणा) प्राण उदान के समान त्रिय और सर्वशक्तिमान् (प्रातः) (अश्विना) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया है, उस परमात्मा की (हवामहे) स्तुति करते हैं, और (प्रातः) (भगम्) भजनीय सेवनीय ऐश्वर्ययुक्त (पूषणम्) पुष्टिकर्ता (ब्रह्मणस्पतिम्) अपने उपासक, वेद और ब्रह्माण्ड के पालन करनेहारे (प्रातः) (सोमम्) अन्तर्यामी प्रेरक (उत) और, (रुद्रम्) पापियों को खलानेहारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की (हुवेम) स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रातः समय तुम लोग भी किया करो ॥ १ ॥

+ (प्रातः) पांच घड़ी रात्रि रहे (जितम्) जयशील (भगम्) ऐश्वर्य के दाता (उग्रम्) तेजस्वी (अदितेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्) सूर्य की उत्पत्ति करने और (यः) जो कि सूर्यादि लोकों को (विधृता) विशेष करके धारणा करनेहारा (आध्रः) सब ओर से धारणकर्ता (यं चिद्य) जिस किसी का भी (मन्यमानः) जाननेहारा (तुरश्चिद्य) दुष्टों का भी

भग प्रणोतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः ।
 भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम*॥३॥
 उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।
 उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम + ॥४॥

दण्डदाता और (राजा) सबका प्रकाशक है, (यम्) जिस (भगम्) भजनीयस्वरूप को (चित्) भी (भवीति) इस प्रकार सेवन करता हूँ, और इसी प्रकार भगवान् परमेश्वर सब को (आह) उपदेश करता है कि तुम, जो मैं सूर्योर्दि जगत् का बनाने और धारण करनेहारा हूँ, उस मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो, जिससे तुम लोग सदा उन्नतिशील रहो, इससे (वयम्) हम लोग उसकी (हुवेम) स्तुति करते हैं ॥२॥

* हे (भग) भजनीयस्वरूप (प्रणोतः) सबके उत्पादक सत्याचार में प्रेरक (भग) ऐश्वर्यप्रद (सत्यराधः) सत्य धन को देनेहारे (भग) सत्याचरण करनेहारों को ऐश्वर्यदाता आप परमेश्वर ! (नः) हमको (इमाम्) इस (धियम्) प्रज्ञा को (ददत्) दीजिये, और उसके दान से हमारी (उदव) रक्षा कीजिये, (भग) आप (गोभिः) गाय आदि और (अश्वैः) घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को (नः) हमारे लिये (प्रजनय) प्रकट कीजिये, हे (भग) आपकी कृपा से हम लोग (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से (नृवन्तः) बहुत वीर मनुष्यवाले (प्रस्याम) अच्छे प्रकार होवें ॥ ३ ॥

+ हे भगवन् ! आप की कृपा (उत) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग (इदानीम्) इस समय (प्रपित्वे) प्रकर्षता, उत्तमता की प्राप्ति में (उत) और (अह्नाम्) इन दिनों के (मध्ये) मध्य में (भगवन्तः) ऐश्वर्ययुक्त शक्तिमान् (स्याम) होवें, (उत) और हे (मघवन्) परमपूजित असंख्य धन देनेहारे ! (सूर्यस्य) सूर्यलोक के (उदिता) उदय में (देवानाम्) पूर्व विद्वान् धार्मिक आप लोगों की (सुमतौ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा (उत) और सुमति में (वयम्) हम लोग (स्याम) सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥

भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम ।

तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरयता भवेह* ॥५॥

अ० मं० ७ । सू० ४१ । म १-५ ॥

इसी प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी । तत्पश्चात् शौच, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन करके स्नान करें । पश्चात् एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जंगल में जा के योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर, सूर्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आके, सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें । इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख लें ।

प्रथम शरीरशुद्धि अर्थात् स्नान पर्यन्त कर्म करके सन्ध्योपासना का आरम्भ करें । आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल लेके—

ओम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥

ओम् अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥

आश्वलायन गृ० सू० अ० १ । कं० २४१ सू० १२ । २१ । २२ ॥

* हे (भग) सकलैश्वर्यसंपन्न जगदीश्वर ! जिससे (तम्) उस (त्वा) आपकी (सर्वः) सब सज्जन (इज्जोहवीति) निश्चय करके प्रार्थना करते हैं, (सः) सो आप हे (भग) ऐश्वर्यप्रद ! (इह) इस संसार और (नः) हमारे गृहाश्रम में (पुरयता) अग्रगामी और आगे २ सत्य कर्मों में बढ़ानेहारे (भव) हूजिये, और जिससे (भग एव) सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता होने से आप ही हमारे (भगवान्) पूजनीय देव (अस्तु) हूजिये, (तेन) उसी हेतु से (देवाःवयम्) हम विद्वान् लोग (भगवन्तः) सकलैश्वर्य-संपन्न होके सब संसार के उपकार में तन, मन, धन से प्रवृत्त (स्याम) होंगे ॥५॥

इन तीन मन्त्रों में से एक २ से एक २ आचमन कर, दोनों हाथ धो, कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके, शुद्ध देश, पवित्रासन पर, जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके, नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच करके, हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथा-शक्ति रोके, पश्चात् धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा रोके । यह एक प्राणायाम हुआ । इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे । नासिका को हाथ से न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना हृदय में करके:—

ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।

शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ॥ यजु० अ० ३६ मं० १२ ॥

इस मन्त्र को एक २ बार पढ़ के एक, दो और तीन आचमन करे ।

पश्चात् पात्र में से मध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात् वामपार्श्व निम्नलिखित मन्त्रों से स्पर्श करे—

ओं वाक् वाक् ॥ इस मंत्र से मुख का दक्षिण और वाम पार्श्व ।

ओं प्राणः प्राणः ॥ इससे दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र ।

ओं चक्षुश्चक्षुः ॥ इससे दक्षिण और वाम नेत्र ।

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम् ॥ इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ।

ओं नाभिः ॥ इससे नाभि ।

ओं हृदयम् ॥ इससे हृदय ।

ओं कण्ठः ॥ इससे कण्ठ ।

ओं शिरः ॥ इससे मस्तक ।

ओं बाहुभ्यां यशोबलम् ॥ इससे दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध ।

और—

ओं करतलकरपृष्ठे ॥ इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श करके मालिन करे ।

ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर ।

ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर ।

ओं स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्त्र से कण्ठ पर ।

ओं महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ।

ओं जनः पुनातु नाभ्याम् ॥ इससे नाभि पर ।

ओं तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पैरों पर ।

ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इससे पुनः मस्तक पर ।

ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ इस मंत्र से सब अङ्गों पर छीटि देवे ।

पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे । और नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जायः—

ओं भूःओं भुवःओं स्वःओं महःओं जनःओं तपःओं सत्यम् ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्र० १० । अनु० २७ ॥

इसी रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ इक्कीस प्राणायाम करे ।

तत्पश्चात् सृष्टिकर्त्ता परमात्मा और सृष्टिक्रम का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे । और जगदीश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप को और अपने आत्मा और मन को कमी न जाने देवे, किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वर्त्तमान रखे—

अघमर्षण मन्त्र

ओम् ऋतं च सत्यं चाभीष्टान्तपमोऽर्घ्यजायत ।

ततो रार्घ्यजायत ततः समुद्रो अर्घ्यवः ॥ १ ॥

समुद्रार्दणवादिनि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधाद्विश्वस्य मिषतो वृशी ॥ २ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ घाता । यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥

ऋ० मं० १० । सू० १६० । मं० १-३ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के, पुनः (शक्तो देवी०) इस मन्त्र से तीन आचमन करके, निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करे—

ओं प्राची दिग्भिरधिपतिरासितो रक्षितादित्या इषवः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो
अस्तु । योऽस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिराश्विराजी रक्षिता पितर
इषवः । तेभ्यो० ॥ २ ॥

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाक् रक्षितान्मिषवः ।
तेभ्यो० ॥ ३ ॥

उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः ।
तेभ्यो० ॥ ४ ॥

ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः ।
तेभ्यो० ॥ ५ ॥

ऊर्ध्वा दिग्वृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः ।
तेभ्यो० ॥ ६ ॥ अथर्व० कां० ३ । सू० २७ । मं० १-६ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निर्भय निश्शङ्क, उत्साही आनन्दित, पुरुषार्थी रहना ।

‘तत्पश्चात् परमात्मा का ‘उपस्थान’ अर्थात् परमेश्वर के निकट मैं और मेरे अतिनिकट परमात्मा है, ऐसी बुद्धि करके करे—

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः ।

स नः पर्वदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ १ ॥

अ० मं० १ । सू० ६६ । मं० १ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ
प्रा धावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्युषश्च ॥ १ ॥

यजु० अ० १३ । मं० ४६ ॥

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥

यजु० अ० ३३ । मं० ३१ ॥

उद्वयं तमसस्पति स्तुः पश्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ यजु० अ० ३५ । मं० १४ ॥

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम
शरदः शतं ऋणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः
स्याम शरदः शतं भूर्यश्च शरदः शतात् । ४ । यजु० अ० ३६ । मं० २४ ॥

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके, पुनः (शन्नो देवी०) इससे तीन आचमन करके, पृष्ठ ८६ में लिखे अथवा पञ्चमहायज्ञविधि में लिखे० गायत्री मन्त्र का अर्थ विचार-पूर्वक परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना करे । पुनः, हे परमेश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मों करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त हों । पुनः—

ओं नमः शम्भुवार्य च मयोभवार्य च नमः शंकरार्य
च मयस्करार्य च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ५ ॥

यजु० अ० १६ । मं० ४१ ॥

इससे परमात्मा को नमस्कार करके, (शन्नो देवी०) इस मन्त्र से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करें ॥

इति संचेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥ १ ॥

संस्कारविधि:

अथाग्निहोत्रम्

जैसे सायं प्रातः दानों सन्धिबेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष * अग्निहोत्र भी दानों समय में नित्य किया करें। पृष्ठ २१-२२ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान, और पृष्ठ २३ में लिखे—

ओम् अदितेऽनुमन्यस्व ॥

इत्यादि ४ मन्त्रों से यथाविधि कुराड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यादियुक्त घी का तपा के, पात्र में लेके, कुराड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठके, पृष्ठ २४ में लिखे० आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) देके, नीचे लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करें:—

ओं सूर्यो ज्यातिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १ ॥

ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥

ओं ज्यातिः सूर्यः सूर्यो ज्यातिः स्वाहा ॥ ३ ॥

ओं सज्जूर्देवेन मन्त्रिना सज्जुरुषसेन्द्रवत्या ।

जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो—

ओम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १ ॥

ओम् अग्निर्वर्चो ज्यातिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥

ओम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३ ॥

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ।

* किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपस्थित न होसकें तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे, अर्थात् एक २ मन्त्र को दो २ बार पढ़ के दो २ आहुति करें ॥

ओं स॒जूर्दे॒वेन॑ म॒वित्रा॑ स॒जू रा॒ज्येन्द्र॑वत्या ।

जुषाणो अ॒ग्निर्वेतु॑ स्वाहा ॥ ४ ॥ य० अ० ३ । मं० १, १० ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिये—

ओं भुर॒ग्नये॑ प्रा॒णाय॑ स्वाहा ॥ इ॒दम॒ग्नये॑ प्रा॒णाय॑—इ॒दं न मम ॥ १ ॥

ओं भुव॒र्नाय॑त्रेऽग॒नाय॑ स्वाहा ॥ इ॒दं वा॒यवेऽप॑नाय—इ॒दं न मम ॥ २ ॥

ओं स्व॒गादि॑त्याय॒ व्याना॑य॒ स्वाहा ॥ इ॒दमा॑दि॒त्याय॒ व्या॒नाय॑—इ॒दं न मम ॥ ३ ॥

ओं भूर्भुवः॑ स्वर॒ग्रेवा॒य्वादि॑त्येभ्यः प्रा॒णापान॑व्यानेभ्यः स्वाहा । इ॒दम॒ग्निवा॒य्वादि॑त्येभ्यः प्रा॒णापान॑व्यानेभ्यः—इ॒दं न मम ॥ ४ ॥

ओम् आपो॑ ज्योती॒ रमोऽमृ॑तं ब्रह्म भूर्भुवः॑ स्वरो॒ स्वाहा ॥ ५ ॥

ओं यां मे॒धां दे॑व॒गुणाः॑ पि॒तरंश्चो॒पाम॑ते ।

तया॒ माम॑द्य मे॒धयाऽग्ने॑ मे॒धावि॑नं कुरु॒ स्वाहा ॥ ६ ॥

यजु० अ० ३२ । मं० १४ ॥

ओं विश्वा॑नि देव॒ सवित॑र्दुरि॒तानि॑ परा॒ सुव॑ ।

यद्भ॒द्रं तं न॒ आ सु॑व॒ स्वाहा ॥ ७ ॥ य० अ० ३० । मं० ३ ॥

ओम् अ॒न्न न॑य॒ सुप॑था॒ गये॑ अ॒म्मान्नि॑श्वा॒नि दे॒व व॒युना॑नि वि॒द्वान् ।

सुयो॒ध्यु॒मज्जु॑हु॒राण॑मे॒नो भूर्भि॑ष्ठां ते नम॒ उक्ति॑ विधेम॒ स्वाहा ॥ ८ ॥

य० अ० ४० । मं० १६ ॥

इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति, ऐसे आठ आहुति देके—

ओं सैव वै पू॒र्णा॑ स्वाहा ॥

इस मन्त्र से तीन पू॒र्णाहुति, अर्थात् एक २ बार पढ़के एक २ करके तीन अहुति देवें ॥

इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ २ ॥

अथ पितृयज्ञ

अग्निहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात् जीते हुए माता पिता आदि की यथावत् सेवा करनी पितृयज्ञ कहाता है ॥ ३ ॥

—:०:—

अथ बलिवैश्वदेवविधिः

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ २ ॥

ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥

ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५ ॥ ओं कुहूँ स्वाहा ॥ ६ ॥

ओम् अनुमत्यै स्वाहा ॥ ७ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ८ ॥

ओं द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ९ ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ १० ॥

मनु० अ० ३ । श्लोक ८२, ८३ ॥

इन दश मन्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो क्षार और लवणाक्ष को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी, दश आहुति करे ।

तत्पश्चात् बलिदान—

ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ इससे पूर्व ।

ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्षिण ।

ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम ।

ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर ।

ओ मरुद्भ्यो नमः ॥ इससे द्वार ।

ओं अद्भ्यो नमः ॥ इससे जल ।

ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इससे मूसल और ऊखल ।

ओं श्रियै नमः ॥ इससे ईशान ।

ओं भद्रकाल्यै नमः ॥ इससे नैऋत्य ।

ओं ब्रह्मणे नमः ॥ ओं वास्तुपतये नमः ॥ इनसे मध्य ।

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो,
नमः ॥ ओं नङ्ग्वारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ इनसे ऊपर ।

ओं सर्वात्मभूतये नमः ॥ इससे पृष्ठ ।

ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ इससे दक्षिण ।

मनु० अ० ३ । श्लो० ८७-९१ ॥

इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यद्योक्त दिशाओं में
भाग धरना । तत्पश्चात् घृतसहित लवणाग्न लेके—

शुर्ना च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ९२ ॥

अर्थः—कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक, और
कृमी इन छः नामों से छः भाग पृथिवी में धरे, और बँ छः भाग
जिस २ के नाम हैं, उस २ को देना चाहिये ॥

यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को
दे देना, नहीं तो अग्नि में धर देना ॥ ४ ॥

—:०:—

अथातिथियज्ञः

पांचवां—जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात-
रहित, शान्त, सर्वहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा,
उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अतिथियज्ञ'
कहाता है, उसको नित्य किया करें । इस प्रकार पञ्च महायज्ञों
को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें ॥ ५ ॥ (गो० १।४।२)

—:०:—

इसके पश्चात्, पक्षयज्ञ अर्थात् पौर्णमासी और अमावास्या के दिन मित्य अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्, पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ १५ में लिखे प्रमाणों स्थालीपाक बनाके, निम्नलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें —

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥ ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ २ ॥

ओं विष्णवे स्वाहा ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी। तत्पश्चात् पृष्ठ १४ में लिखे प्रमाणों व्याहृति आज्याहुति ४ (चार) देनी, परन्तु इसमें इतना भेद है कि अमावास्या के दिन:—

ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ इस मन्त्र के बदले—

ओम् इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥

इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति दें।

इस प्रकार पक्षयाग, अर्थात् जिस के घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पक्षयागादि में पृष्ठ १४-१५ में लिखे प्रमाणों यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञमण्डप, पृष्ठ २१-२२ में लिखे अग्न्याधान, समिदाधान, पृष्ठ २४ में लि० आधारावाज्य-भागाहुति और पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणों वेदी के चारों ओर जल स्नेहन करके, पृष्ठ २-१३ में लिखे प्रमाणों ईश्वरोपासना, स्वस्ति-वाचन, शान्तिकरण भी यथायोग्य करें।

और जब २ नवग्रह आवे तब २ नवशस्येष्टि और संवत्सर के आरम्भ में निम्नलिखितविधि करें, अर्थात् जब २ नवीन अन्न आवे तब २ नवशस्येष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करें—

नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन जाने। ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप करके, पृष्ठ २-२८ तक लिखे प्रमाणों सब विधि करके, प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और

व्याहृति आहुति ४ (चार) तथा अष्टाज्याहुति ८ (आठ) ये सोलह आज्याहुति करके, कार्यकर्त्ता—

ओं पृथ्वी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युमिरावृताः ।
तमिहेन्द्रमुपह्वये शिवा नः मन्तु हेतयः स्वाहा ॥ १ ॥

ओं यन्म किञ्चिदुपेक्षितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् । तन्मे
सर्वं ममृध्यतां ज वतः शग्दः शतं स्वाहा ॥ २ ॥

ओं सम्यग्तिर्भातर्भूमिवाष्ट्र्यैष्ट्यं श्रीः प्रजा-
हिंस्तु स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय—इदं न मम ॥ ३ ॥

ओं यस्याभावे वैदकलौकिकाना भूतिर्भवति कर्मणाम् ।
इन्द्रपत्नीमुह्वये सीतायै मा म त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि
कर्माणे स्वाहा ॥ इदमिन्द्रपत्न्यै—इदं न मम । ४ ॥

ओं अश्वावती गामती सनृतावती विभर्त्ति या प्राणभृतो
अतन्द्रिता । खलमालिनीमुर्वरामस्मिन् कर्मण्युह्वये ध्रुवायै
सामं त्वनपायिनी भूयात् स्वाहा ॥ इदं सीतायै—इदं न मम ॥ ५ ॥

पार० कां० २ । क० १७ । ७-६

इन मन्त्रों से प्रधान होम की ५ (पच) आज्याहुति करके—

ओं सीतायै स्वाहा ॥ १ ॥ ओं प्रजायै स्वाहा ॥ २ ॥

ओं शमायै स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं भूतयै स्वाहा ॥ ४ ॥

पार० कां० २ । क० १७ । १० ॥

इन ४ (चार) मन्त्रों से ४ (चार), और पृष्ठ २४ में लिखे
(यदस्य०) मन्त्र से सिंष्टकृत् होमाहुति एक, ऐसे ५ (पांच)
स्थालीपाक की आहुति देके, पश्चात् पृष्ठ २६-२८ में लिखे
प्रमाणे अष्टाज्याहुति, व्याहृति आहुति ४ (चार), ऐसे १२
(बारह) आज्याहुति देके पृष्ठ २९-२८ में लिखे प्रमाणे धाम-
देव्यगान, ईश्वरोंपासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके
यज्ञ की समाप्ति करें ॥

अथ शालाकर्मविधिं वक्ष्यामः

‘शाला’ उसको कहते हैं जो मनुष्य और पश्यादि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं। इसके दो विषय हैं—एक प्रमाण और दूसरा विधि। उसमें से प्रथम प्रमाण और पश्चात् विधि लिखेंगे। अत्र प्रमाणानि—

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत ।

शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥ १ ॥

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः ।

मदो देवानामसि देवि शाले ॥ २ ॥

अथर्व० का० ६ । सू० ३ । मं० १, ७ ॥

अर्थः—मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो वह (उपमिताम्) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख के विद्वान् लोग सराहना करें, (प्रतिमिताम्) प्रतिमान अर्थात् एक द्वार के सामने दूसरा द्वार, कोणें और कक्षा भी सम्मुख हों, (अथो) इसके अनन्तर (परिमिताम्) वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस हो, (उत) और (शालायाः) शाला (विश्ववारायाः) अर्थात् उस घर के द्वार, चारों ओर के वायु को स्वीकार करनेवाले हों, (नद्धानि) उसके बन्धन और चिनाई दृढ़ हों। हे मनुष्यो ! ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पी लोग (विचृतामसि) अच्छे प्रकार प्रन्थित अर्थात् बन्धनयुक्त करते हैं वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

उस घर में एक (हविर्धानम्) होम करने के पदार्थ रखने का स्थान, (अग्निशालम्) अग्निहोत्र का स्थान, (पत्नीनाम्) स्त्रियों के (सदनम्) रहने का (सदः) स्थान, और (देवानाम्) पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने और

सभा का (सदः) स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी पृथक् २ एक २ घर बनावे, इस प्रकार की (देवि) दिव्य कमनीय (शाले) बनाई हुई शाला (अस्ति) सुखदायक होती है ॥ २ ॥

अन्तरा घां च पृथिवीं च यद्व्यचस्तेन शालां प्रति
गृह्णामि त इमाम् । यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कृण्वेऽहमुदरं
शेवधिभ्यः । तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै ॥ ३ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वाभं विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्णतः ॥ ४ ॥

अथर्व० का० ६ । सू० ३ । मं० १५, १६ ॥

अर्थः—उस शाला में (अन्तरा) भिन्न २ (पृथिवीम्) भूमि अर्थात् चारों ओर स्थान शुद्ध हों, (च) और (घाम्) जिसमें सूर्य का प्रतिभास आवे वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे, (च) और (यत्) जो (व्यचः) उसकी व्याप्ति अर्थात् विस्तार है (तेन) उसी से युक्त (इमाम्) इस (शालाम्) घर को हे स्त्री ! (ते) तेरे लिये बनाता हूँ, तू इसमें निवास कर, और मैं भी निवास के लिये इसको (प्रतिगृह्णामि) ग्रहण करता हूँ, (यत्) जो उसके बीच में (अन्तरिक्षम्) पुष्कल अघकाश और (रजसः) उस घर का (विमानम्) विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची छत और (उदरम्) भीतर का प्रसार विस्तारयुक्त होवे (तत्) उसको (शेवधिभ्यः) सुख के आधाररूप अनेक कक्षाओं से सुगोभित (अहम्) मैं (कृण्वे) करता हूँ, (तेन) उस सब पूर्वोक्त लक्षणमात्र से युक्त (शालाम्) शाला को (तस्मै) उस गृहाश्रम के सब व्यवहारों के लिये प्रतिगृह्णामि ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥

जो (शाले) शाला (उर्जस्वती) बहुत बलारोग्यपराक्रम को बढ़ानेवाली और धन धान्य से पूरित - सम्बन्धवाली, (पयस्वती) जल दूध रसादि से परिपूर्ण, (पृथिव्याम्) पृथिवी में (मिता) परिमाणयुक्त, निमिता) निमित्त की हुई, (विश्वानाम्) सम्पूर्ण अन्नादि ऐश्वर्य को (विभ्रती) धारण करती हुई, (प्रतिगृह्यतः) ग्रहण करनेहारों को रोगादि से (मा हिंसीः) पीड़ित न करे, वैसा घर बनाना चाहिये ॥ ४ ॥

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविभिर्निमितां मिताम् ।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥ ५ ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ३ । मं० १६ ॥

अर्थः— (अमृतौ) स्वरूप से नाशरहित (इन्द्राग्नी) वायु और पावक, (कविभिः) उत्तम विद्वान् शिल्पियों ने (मिताम्) प्रमाणयुक्त, जैसी चाहिये वैसी (निमिताम्) बनाई हुई (शालाम्) शाला को और (ब्रह्मणा) चारों वेदों के जाननेहारे विद्वान् ने सब ऋतुओं में सुख देनेहारी (निमिताम्) बनाई (शालाम्) शाला को प्राप्त होकर रहनेवालों की (रक्षताम्) रक्षा करें । अर्थात् चारों ओर का शुद्ध वायु आके अशुद्ध वायु को निकालता रहे और जिसमें सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय, वह अग्नि दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध का स्थापन करे । वह (सोम्यम्) ऐश्वर्य आरोग्य सर्वदा सुखदायक (सदः) रहने के लिये उत्तम घर है । उसी को निवास के लिये ग्रहण करे ॥५॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्मीयते । अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्मैत्र्वा शये ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ३ । मं० २१ ॥

अर्थः— हे मनुष्यो ! (या) जो (द्विपक्षा) दो पक्ष अर्थात् मध्य में एक और पूर्व पश्चिम में एक २ शालायुक्त घर अथवा

चतुष्पत्ता) जिसके पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक २ शाला और इनके मध्य में पांचवीं बड़ी शाला वा (षट्पत्ता) एक २ बीच में बड़ी शाला और दो २ पूर्व पश्चिम तथा एक २ उत्तर दक्षिण में शाला हों, (या) जा ऐसी शाला (निर्मायते) बनाई जाती है, वह उत्तम होती है और इससे भी जो (अष्टा-पत्ताम्) चारों ओर दो २ शाला और उनके बीच में एक नवमी शाला हो, अथवा (दशपत्ताम्) जिसके मध्य में दो शाला और उनका चारों दिशाओं में दो २ शाला हों, उस (मानस्य परिमाण के याग से बनाई हुई (शालाम्) शाला का जैसे (पत्नीम्) पत्नी को प्राप्त होके (अग्निः) अग्निमय आर्त्तव और वर्य (गर्भइव) गर्भरूप होके (आशये) गर्भा-शय में ठहरता है, वैसे सब शालाओं के द्वार दो २ हाथ पर सूधे बराबर हों, और जिसकी चारों ओर की शालाओं का परिमाण तीन २ गज, और मध्य की शालाओं का छः २ गज से परिमाण न्यून न हो, और चार २ गज चारों दिशाओं की ओर, आठ २ गज मध्य की शालाओं का परिमाण हो, अथवा मध्य की शालाओं का दश २ गज अर्थात् बीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो बनाकर गृहस्थों को रहना चाहिये । यदि वह सभा का स्थान हो तो बाहर का आर द्वारों में चारों ओर कपाट और मध्य में गोल २ स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना चाहिये कि जिसके कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उसमें आये और सब घरों के चारों ओर वायु आने के लिय अवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणी कुण्ड भी होने चाहियें, वैसे घरों में सब लोग रहें ॥ ६ ॥

प्रतीर्चा त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्पहिंसतीम् ।

आप्तसन्तराश्चर्तम्य प्रथमा द्वाः ॥ २ ॥ -

अथर्व० कां० ६ । सू० ३ । मं० २२-॥

अर्थः—जो (शाले) शालागृह (प्रतिचीनः) पूर्वाभिमुख तथा जो गृह (प्रतीचीम्) पश्चिम द्वार युक्त (अहिंसतीम्) हिंसादि दोष रहित अर्थात् पश्चिम द्वार के सन्मुख पूर्व द्वार, जिसमें (हि) निश्चय कर (अन्तः) बीच में (अग्निः) अग्नि का घर (च) और (आपः) जल का स्थान (ऋतस्य) और सत्य के ध्यान के लिए एक स्थान (प्रथमा) प्रथम (द्वाः) द्वार हैं मैं (त्वा) उस शाला को (प्रैमि) प्रकर्षता से प्राप्त होता हूँ ॥१॥

मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुभारो लघुर्भव ।

वधूमिव त्वा शाले यत्र कामं भरामसि ॥ ८ ॥

अर्थः, कां० ६ । सू० ३ । सं० २४ ॥

अर्थः—हे शिल्पि लोगो ! जैसे (नः) हमारी (शाले) शाला अर्थात् गृह (पाशम्) बन्धन को (मा प्रतिमुचः) कभी न छोड़े, जिसमें (गुरुभारः) बड़ा भार (लघुर्भव) छोटा होवे वैसी बनाओ । (त्वा) उस शाला को (यत्र कामम्) जहाँ जैसी कामना हो, वहाँ वैसी हम लोग (वधूमिव) स्त्री के समान (भरामसि) स्वीकार करते हैं, जैसे तुम भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥

इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर धन चुके, तब प्रवेश करते समय क्या २ विधि करना, सो नीचे लिखे प्रमाण जानो—

अथ विधिः—जब घर धन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों दिशाओं के बाहरले द्वार में चार वेदी और एक वेदी घर के मध्य बनावें, अथवा ताँबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक कुण्ड ही में काम होजावे । सब प्रकार की सामग्री अर्थात् पृष्ठ १५-१६ में लिखे प्रमाणे समिधा, धृत, चावल, मिष्ट, सुगन्ध, पुष्टिकारक द्रव्यों को ले के शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे, जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे, उसी शुभ दिन गृहप्रतिष्ठा करे ।

वहां ऋत्विज्, होता, अध्वर्यु और ब्रह्मा का वरण करे जो कि धर्मात्मा विद्वान् हों। उनमें से होता का आसन पश्चिम और उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्वर्यु का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन उस पर वह पश्चिमाभिमुख, और ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तमासन विद्या कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों पर चारों विद्वानों को बैठावे और गृहपति सर्वत्र पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा करे। ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसन विद्या रखे।

पश्चात् निष्क्रम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और प्रवेश करना होवे, अर्थात् जो मुख्य द्वार हो, उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर—

ओम् अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥ पार० ३।४।३ ॥

इससे एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ, जिसमें ध्वजा लगाई हो, खड़ा करे और घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वज खड़ी करे, तथा कार्यकर्त्ता गृहपति समीप में जल सेचन करे। स्तम्भ खड़ा करके द्वार के सामने बाहर जाकर उसके मूल में जल से सेचन करे, जिससे वह दृढ़ रहे।

पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल सेचन करे, जिससे वह दृढ़ रहे—

ओम् इमाश्छ्रयामि भुवनस्य नामिं वसोर्धारां प्रतरणी वसूनाम् ।
इहैव ध्रुवां निमिनोमि शालां क्षमे तिष्ठतु घृतमुक्षमाणा ॥ १ ॥

पार० ३।४।४ ॥

इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे।

अश्वावती गोमती सूनुतावत्युच्छ्रयस्व महते सौमगाय ।

आ त्वा शिशुराक्रन्दत्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः ॥ २ ॥

पार० ३।४।४ ॥

इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ।

आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह ।
 आ त्वा परिस्त्रुतः कुम्भ आदध्नः कलशैरुप ।
 क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवासा रयिं नो धेहि सुभग सुभीर्यम् ॥ ३ ॥

पार० ३ । ४ । ४ ।

इस मन्त्र से पाश्चिम द्वार ।

अश्वावद्रोमदूर्जस्वत्पर्णा वनस्पतेरिव ।

अभि नः पूर्यतां रायरिदमनुभ्रयो वसानः ॥ ४ ॥

पार० ३ । ४ । ४ ॥

इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे ।

तत्पश्चात् सब द्वारों पर पुष्प और पल्लव तथा कदलीस्नग्म
 वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिये लगाकर, पश्चात्
 गृहपति—

हे ब्रह्मन् ! प्रविशामीति ॥ पार० ३ । ४ । ५ ॥

ऐसा वाक्य बोलने । और ब्रह्मा—

वरं भवान् प्रविशतु ॥

ऐसा प्रत्युत्तर देवे । और ब्रह्मा की अनुमति से—

ओम् ऋचं प्रपद्ये शिषं प्रपद्ये ॥ पार० ३ । ४ । ६ ॥

इस वाक्य को बोलके भीतर प्रवेश करे । और जो घृत
 गरम कर, छान कर, सुगन्ध मिलाकर रक्त्वा हो उसको पात्र
 में ले के, जिस द्वार से प्रथम प्रवेश करे उसी द्वार से प्रवेश
 करके, पृष्ठ २१-२३ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान,
 जलप्रोक्षण, आचमन करके पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे घृत
 की आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार), और व्याहृति आहुति
 ४ (चार), नवमी स्विष्टकृत् आज्याहुति एक, अथात् दिशाओं

की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान से लेके खिष्टकृत् आहुति-पर्यन्त विधि करके, पश्चात् पूर्वदिशाद्वारस्थ कुरण्ड में—

ओं प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इन मन्त्रों से पूर्वद्वारस्थ वेदी में दो घृताहुति देवे । जैसे ही—

ओं दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इन दो मन्त्रों से दक्षिणद्वारस्थ वेदी में एक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति । और—

ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इन दो मन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुरण्ड में देवे ।

ओम् उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इनसे उत्तरदिशास्थ वेदी में दो आज्याहुति देवे । पुनः मध्य-शालास्थ वेदी के समीप जाके ८ २ दिशा में बैठ के—

ओं ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इनसे मध्य वेदी में दो आज्याहुति ।

ओम् ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इनसे भी दो आज्याहुति मध्य वेदी में । और—

ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहोभ्यः स्वाहा ॥२॥

इनसे भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके, वेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन बिछवा, उसी वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर, पृष्ठ १५ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के, पृथक् निष्कर्म्यद्वार के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके, ब्रह्मादि को दक्षिणादि आसन पर बैठा स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ के, संस्कृत घी अर्थात् जो गरम कर छान जिसमें कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में ले के सबके सामने एक २ पात्र भर के रखे, और चमसा में ले के:—

ओं वास्तोष्पते प्रति जानीद्ब्रह्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः ।
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ १
वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो ।
अजरास्ते स्रुये स्याम पितेव पुत्रान् प्रति नो जुषस्व स्वाहा ॥ २
वास्तोष्पते शग्मयांसं सदा ते सचीमहिं रयवया गातुमत्यां ।
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वास्तिभिः सदा नः स्वाहा ॥ ३

ऋ० मं० ७ । सू० २४ । मं० १-३ ॥

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन् ।

सखा सुशेव एधि नः स्वाहा ॥ ४ ॥

ऋ० मं० ७ । सू० २५ । मं० १ ॥ पार० ३ । ४ । ७ ॥

इन चार मन्त्रों से ४ (चार) आज्याहुति देके, जो स्थालीपाक अर्थात् भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में लेके, उस पर यथायोग्य घृत सेचन करके अपने २ सामने रखे। और पृथक् २ थोड़ा २ लेकर:—

ओम् अग्निमिन्द्रं घृहस्पतिं विश्वाँश्च देवानुपह्वये ।

सरस्वतीञ्च वाजीञ्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ १ ॥

सर्पदेवजनान्तसर्वाण्डिमवन्तं सुदर्शनम् । वसूँश्च रुद्राना-
दित्यानीशानं जगदैः सह । एतान्तसर्वान् प्रपद्येऽहं वास्तु मे
दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ २ ॥

पूर्वाह्नमपराह्णं चोभौ माध्यन्दिना सह । प्रदोषमर्धरात्रं
च व्युष्टां देवीं महापथाम् । एतान्तसर्वान् प्रपद्येऽहं वास्तु मे
दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ३ ॥

ओं कर्त्तारञ्च विकर्त्तारं विश्वकर्माणमोषधींश्च वनस्पतीन् ।

एतान्तसर्वान् प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ४ ॥

घातारं च विघातारं निधीनां च पतिं सह ।

एतान्तसर्वान् प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ५ ॥

स्योनश्च शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती ।

सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा ॥ ६ ॥ पार० ३ । ४ । ८ ॥

स्थालीपाक अर्थात् घृतयुक्त भात की इन छः मन्त्रों से
छः आहुति देकर, कांस्यपात्र में उदुम्बर, गूलर, पलाश के
पत्ते, शाडूबल तृणविशेष, गोमय, दही, मधु, घृत, कुशा और
यव को ले के उन सब वस्तुओं को मिला कर—

ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताम् ॥

पार० ३ । ४ । १० ॥ इस मन्त्र से पूर्व द्वार ।

यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम् ॥

पार० ३ । ४ । ११ ॥ इससे दक्षिण द्वार ।

अक्षञ्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ गोपायेताम् ॥

पार० ३ । ४ । १२ ॥ इससे पश्चिम द्वार ।

ऊर्कं च त्वा घृतता चोत्तरे सन्धौ गोपायेताम् ॥

पार० ३ । ४ । १३ ॥

इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे, और जल प्रोक्षण भी करे ।

केला च मा सुकेता च पुरस्ताद् गोपायेतामित्यग्निर्वै
केताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ म
पुरस्ताद् गोपायेताम् ॥ १ ॥ पार० ३ । ४ । ४ ॥

इससे पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिण द्वार के सामने दक्षिणाभिमुख होके—

दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो
गोपायेतामित्यहर्वै गोपायमानं रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्ये
ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो गोपायेताम् ॥ २ ॥

पार० ३ । ४ । ५ ॥

इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभिमुख हो के—

दीदिविश्च मा जागृविश्च पश्चाद् गोपायेतामित्यन्नं वै
दीदिविः प्राणो जागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा
पश्चाद् गोपायेताम् ॥ ३ ॥ पार० ३ । ४ । १६ ॥

इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्वरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके, उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रहके—

अस्वप्नश्च मानवद्राणश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा
वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ
ओत्तरतो गोपायेतामिति ॥ ४ ॥ पार० ३ । ४ । १७ ॥

धर्मस्थूणाराज१ भीस्तूपमहोरात्रे द्वारफलके । इन्द्रस्य
गृहा वसुमन्ता वरुथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुमिस्सह ।
यन्मे किञ्चिदस्त्युपहृतः सर्वगणः सखायः साधुमम्मतः* ।
तां त्वा शाले अरिष्टवीरा गृहाभः सन्तु सर्वतः ॥ ५ ॥

पा० ३ । ४ । १८ ॥

इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाधिष्ठाता परमात्मा का उप-
स्थान करके, सुपात्र वेदवित् धार्मिक होता आदि सपत्नीक
ब्राह्मण तथा इष्ट मित्र और सम्बन्धियों को उत्तम भोजन
कराके यथायोग्य सत्कार करके दक्षिणा दे, पुरुषों को पुरुष
और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्नतापूर्वक विदा करें, और वे जाते
समय गृहपति और गृहपत्नी आदि को—

सर्वे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा भूयासुः ॥

इस प्रकार आशीर्वाद दे के अपने २ घर को जावें ।

इसी प्रकार आगम आदि की भी प्रतिष्ठा करें । इसमें
इतना ही विशेष है कि जिस ओर का धायु बगीचे को जावे
उसी ओर होम करे कि जिसकी सुगन्ध वृक्ष आदि को
सुगन्धित करे । यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान
उसकी प्रतिष्ठा करे ॥

इति शालादिसंस्कारविधि ॥

++***++

इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो २ अपने
अपने वर्ष के अनुकूल कर्त्तव्य कर्म हैं उनको यथावत् करें ।

अथ ब्राह्मणस्वरूपलक्षणम्—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥१॥ मनु० ॥

* कुछ पारस्कर के ग्रन्थों में 'सर्वगणसखायः साधुसंवृतः' पाठान्तर है ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

गीता० १८ । ४२ ॥

अर्थः—१ (एक)—निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावें । २ (दो)—पूर्ण विद्या पढ़ें । ३ (तीन)—अग्निहोत्रादि यज्ञ करें । ४ (चौथा)—यज्ञ करावें । ५ (प्रांच)—विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें । ६ (छुटा)—न्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी । इनमें से ३ (तीन) कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना धर्म * में और तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका है, परन्तु 'प्रतिग्रहःप्रत्यवरः ॥ मनुः १० । १०१ ॥' जो दान लेना है, वह नीच कर्म है । किन्तु पढ़ा के और यज्ञ कराके जीविका करनी उत्तम है ॥ १ ॥

(शमः) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे, (दमः) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्माचरण से सदा दूर रखे, दूर रख के धर्म ही के बीच में प्रवृत्त रखे, (तपः) ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, स्तुति, क्षुधा, तृषा, मानापमान आदि द्वन्द्व का सहना, (शौचम्) राग द्वेष मोहादि से मन और आत्मा को तथा जलादि से शरीर को सदा पवित्र रखना, (क्षान्तिः) क्षमा अर्थात् कोई निन्दा स्तुति आदि से सतावे तो भी उन पर कृपालु रह कर क्रोधादि का न करना, (आर्जवम्)

* धर्म नाम न्यायाचरण । न्याय नाम पक्षपात छोड़ के वर्तना । पक्षपात छोड़ना नाम सर्वदा अहिंसादि निर्वैरता सत्यभाषणादि में स्थिर रहकर, हिंसा द्वेषादि और मिथ्याभाषणादि से सदा पृथक् रहना । सब मनुष्यों का यही एक धर्म है । किन्तु जो २ धर्म के लक्षण वर्ण-कर्मों में पृथक् २ आते हैं, इसी से चार वर्ण पृथक् २ गिने जाते हैं ॥

निरभिमान रहना, दम्भ स्वात्मश्लाघा, अर्थात् अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रहना, (ज्ञानम्) सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थसम्बन्धों को यथावत् जानकर पढ़ाने का पूर्ण सामर्थ्य करना, (विज्ञानम्) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास से साक्षात् करके यथावत् उपकार ग्रहण करना कराना, (आस्तिक्यम्) परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक, परजन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल और मुक्ति से विमुख कभी न होना । ये नव कर्म और गुण धर्म में समझना । सब से उत्तम-गुण कर्म स्वभाव को धारण करना । ये गुण कर्म जिन व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी हों। विवाह भी इन्हीं वर्ण के गुण कर्म स्वभावों को मिलाही के करें। मनुष्यमात्र में से इन्हीं को ब्राह्मणवर्ण का अधिकार होवे ॥ २ ॥

अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम्—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्यनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥१॥ मनु० १।८१॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षत्रिकर्म स्वभावजम् ॥२॥ गीता० १।८।१३॥

अर्थः—दीर्घ ब्रह्मचर्य से (अध्ययनम्) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना, (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, (दानम्) सुपात्रों को विद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना, यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणों में, और शस्त्रविद्या का पढ़ाना, न्यायधर और सेना में जीविका करना क्षत्रियों की जीविका है ॥ १ ॥

(विषयेष्वप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना, लोभ व्यभिचार, मद्यपानादि नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक् रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना, (शौर्यम्) शत्रु. संग्राम. मृत्यु और शत्रुप्रहारादि से न डरना, (तेजः) प्रगल्भ, उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना, (धृतिः) चाहे कितनी आपत् विपत् क्लेश, दुःख प्राप्त हो तथापि धैर्य रखके कभी न घबराना, (दाक्ष्यम्) संग्राम वाग्युद्ध. दूतत्व न्याय विचार आदि सब में अतिचतुर, बुद्धिमान् होना. (युद्धे चाप्यपलायनम्) युद्ध में सदा उद्यत रहना, युद्ध से घबरा कर शत्रु के वश में कभी न होना, (दानम्) इसका अर्थ प्रथम श्लोक में आगया, (ईश्वरभावः) जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृवत् वर्त्तमान, पक्षपात छोड़कर धर्माऽधर्म करने वालों को यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता और अपने सर्वज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी होकर सब के अच्छे बुरे कर्मों को यथावत् देखता है, वैसे प्रजा के साथ वर्त्त कर, गुप्त दूत आदि से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना, रात दिन न्याय करके और प्रजा को यथावत् सुख देने, श्रेष्ठों का मान और दुष्टों को दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, और सब प्रकार से अपने शरीर को रोगरहित, बलिष्ठ, दृढ़, तेजस्वी, दीर्घायु रखके आत्मा को न्याय धर्म में चलाकर कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जिस व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे । इनका भी इन्हीं गुण कर्मों के मेल से विवाह करना । और जैसे ब्राह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी स्त्रियों को पढ़ावे वैसे ही राजा पुरुषों और राणी स्त्रियों की न्याय तथा उन्नति सदा किया करे । जो क्षत्रिय राजा न हों वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी किया करें ॥२॥

अथ वैश्यस्वरूपलक्षणम्—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुमीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥१॥ मनु० १।१०॥

अर्थः—(अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, (दानम्) अन्नादि का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण और (पशूनां रक्षणम्) गाय आदि पशुओं का पालन करना, उनसे दुग्धादि का वेचना, (वणिक्पथम्) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना, (कुसीदम्) व्याज का लेना देना ❀, (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार को जानना, ये चार कर्म वैश्य की जीविका । ये गुण कर्म जिस व्यक्ति में हों वह वैश्य वैश्या और इन्हीं का परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चाहिये ॥ १ ॥

अथ शूद्रस्वरूपलक्षणम्—

एकमेव हि शूद्रस्यः प्रभुः कर्म ममादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनस्यया ॥१॥ मनु० १।११॥

अर्थः—(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन, जिस को पढ़ने से भी विद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिये (एतेषामेव वर्णानाम्) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की (अनस्यया . निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना (एकमेव कर्म) यही एक कर्म (समा-

❀ सवा रुपये सैकड़े से अधिक, चार आने से न्यून व्याज न लेवे न देवे । जब दूना धन आज्ञाय उससे आगे कौड़ी न लेवे न देवे । जितना न्यून व्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कमी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे ॥

दिशत्) करने की आज्ञा दी है। ये मूर्खत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति में हों, वह शूद्र और शूद्रा है। इन्हीं की परीक्षा से इनका विवाह और इनको अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये। इन गुण कर्मों के योग ही से चारों वर्ग होंगे तो उस कुल, देश और मनुष्यसमुदाय की बड़ी उन्नति होवे, और जिनका जन्म जिस वर्ग में हो उसी के सदृश गुण कर्म स्वभाव हों तो अतिविशेष है ॥ १ ॥

अब सब ब्राह्मणादि वर्ग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित रीति से वर्त-

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

ताद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १ ॥

नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १४, १५ ॥

अर्थः—ब्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य किया करें, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य संचय न करे, न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रख के दूसरे से छल करके और चाहे कितना ही दुःख पड़े तथापि अधर्म से द्रव्यसंचय कभी न करे ॥ २ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा सन्निवर्तयेत् ॥ ३ ॥

सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथा तथाऽध्यापयन्स्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४ ॥

अनु० अ० ५ । श्लो० १६, १७ ॥

अर्थः—इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फँसे, और विषयों की अत्यन्त प्रसक्ति अर्थात् प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ ३ ॥

जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं, उन सबको छोड़ देवे, जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही गृहस्थ का कृतकृत्य होना है ॥ ४ ॥

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ ५ ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६ ॥

न संवसेष्व पतितैर्न चाण्डालैर्न पुक्कसैः ।
न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७ ॥

नात्मानवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ ८ ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमाप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १६, २०, ७६, १३७, १३८ ॥

अर्थः—हे स्त्रीपुरुषो ! तुम जो शास्त्र, धर्म धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ानेहारे हितकारी हैं, उनको और वेद के भागों की विद्याओं को नित्य देखा करो ॥ ५ ॥

मनुष्य जैसे २ शास्त्र को विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, वैसे २ अधिक २ जानता जाता है, और इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ ६ ॥

सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित तुष्ट कर्म करनेहारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूर्ख, न मिथ्या-भिमानि, और न नीच स्वभाव, न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥ ७ ॥

गृहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के पश्चात् दरिद्र हो जायं, उससे अपने आत्मा का अपमान न करें कि हाथ हम निर्धन होगये, इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें, और लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें ॥ ८ ॥

मनुष्य सदैव सत्य बोलें और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश करें। कारण को कारण और मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सन्मुख कभी न बोलें और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोलें, यह सनातन धर्म है ॥ ९ ॥

अभिषादयेद्वृद्धांश्च दद्याच्चैवामनं स्वकम् ।
 कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥१०॥
 श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यद् निबद्धं स्वेषु कर्मसु ।
 धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥११॥
 आचाराद्भवते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।
 आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१२॥
 दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।
 दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥१३॥
 सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।
 श्रद्धानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१४॥

मनु० ४ । १२४-१२८ ॥

अर्थः—सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात् उनका मान्य किया करे। जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मानपूर्वक ले अपने आसन पर बैठावे और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे, पूछे हुये उत्तर देवे, और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे, और वृद्ध लोग हरबार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥

गृहस्थ सदा आत्मस्य को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानुसूच कहें हुए अपने कर्मों में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार अर्थात् जो सत्य और सत्पुरुष, आत्म धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करें ॥ ११ ॥

धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता है, और धर्माचार बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १२ ॥

और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है, वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है ॥ १३ ॥

जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त, सत्य में भ्रष्टा और निन्दा आदि दोषरहित होता है, वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १४ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१५॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समाभेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१६॥

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥१७॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १२६, १६०, १७० ॥

अर्थः—मनुष्य जो २ पराधीन कर्म हो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े, और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५ ॥

क्योंकि जितना परवश होता है वह सब दुःख और जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जाना ॥ १६ ॥

जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है, और जो सदा हिंसा में अर्थात् वैर में प्रवृत्त

रहता है, वह इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।
 शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥१८॥
 यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।
 न त्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥१९॥
 सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।
 शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण चाग्वाहूदरसंयतः ॥२०॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १७२, १७३, १७५ ॥

अर्थः—मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता, वैसे ही किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता, किन्तु धीरे २ अधर्म कर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है, पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १८ ॥

यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों, और पुत्रों के समय में न हो तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥ १९ ॥

इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और आर्य अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करें। अपनी वाणी, बाहू, उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्त्तमान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ २० ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।
 धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥२१॥
 धर्मं शनैस्संचिनुयाद्दल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
 परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥२२॥

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह ।
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥२३॥
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ।
तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृत्तरः ॥२४॥
स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥२५॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १७६, २३८, २३९, २३६ ॥

अर्थः—जो धर्म से वर्जित अर्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे, और जो धर्माभास अर्थात् उत्तरकाल में दुःखदायक कर्म हैं, और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं, उनसे भी दूर रहे ॥ २१ ॥

जैसे दीमक धीरे २ बड़े भारी घर को बना लेती हैं, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिये सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे २ किया करे ॥ २२ ॥

जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे, वह नीच नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़कर नित्य अच्छे २ पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २३ ॥

जिस वाणी में सब व्यवहार, निश्चित वाणी ही जिनका मूल, और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस वाणी को चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है, वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है, इसलिये मिथ्याभाषण की छोड़ के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २४ ॥

मनुष्यों को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन-पाठन, गायत्री प्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ अग्निहोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धी करें ॥ २५ ॥

अथ सभास्वरूपलक्षणम्—जो २ विशेष बड़े २ काम हों,
जैसा कि राज्य, वे सब सभा से निश्चय करके किया करें—
इसमें प्रमाण—तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥

अथर्व० का० १५ । सू० ६ । मं० २ ॥

सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥

अथर्व० कां० १६ । सू० ५५ । मं० ६ ॥

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ३ ॥

ऋ० मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

अर्थः—(तम्) जो कि संसार में धर्म के साथ राज्यपालनादि
किया जाता है, उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना तथा
उनकी विद्या और सामग्री को सब प्रकार संचित करे ॥ १ ॥

हे (सभ्य) सभा के योग्य सभापते राजन् ! तू (मे) मेरी
(सभाम्) सभा की (पाहि) रक्षा और उन्नति किया कर,
(ये च) और जो (सभ्याः) सभा के योग्य धार्मिक आत्त (सभा-
सदः) सभासद् विद्वान् लोग हैं, वे भी सभा की योजना रक्षा
और उससे सब की उन्नति किया करें ॥ २ ॥

जो (राजाना) राजा और प्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों
समुदाय हैं, वे (विदथे) उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत्
अथवा संग्रामादि कार्यों में (त्रीणि) राजधर्म और विद्या-
सम्बन्धी तीन (सदांसि) सभा नियत कर इन्हीं से संसार की
सब प्रकार की उन्नति करें ॥ ३ ॥

अनाम्नातेषु धर्मेषु क्रयं स्यादिति चेद्भवेत्.

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुस्त धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥

धर्मेषाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहयः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ २ ॥

मनु० अ० १२ । श्लो० १०८, १०९ ॥

अर्थः—हे गृहस्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों यदि उनमें शङ्का होवे तो तुम जिसको शिष्ट आत विद्वान् कहें, उसी को शङ्का-रहित कर्त्तव्य धर्म मानो ॥१॥

शिष्टस्य मनुष्यमात्रं नहीं होते किन्तु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म-चर्य और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों, जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समर्थ, धार्मिक, परोपकारी हो, वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ २ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अथवा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ३ ॥

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परित्स्याद्दशावरा ॥ ४ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विद्य सामवेदाविदेव च ।

अथवा परिषद्वेद्या धर्मसंशयनिर्णये ॥ ५ ॥

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाम्नादितोऽयुतैः ॥ ६ ॥

मनु० अ० १२ । श्लो० ११०-११३ ॥

अर्थः—वैसे शिष्ट न्यून से न्यून १० (दश) पुरुषों की सभा होवे, अथवा बड़े विद्वान् तीनों की भी सभा हो सकती है । जो सभा से धर्म कर्म निश्चित हों उनका भी आचरण सब लोग करें ॥ ३ ॥

उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् होवें—३ (तीन) वेदों के विद्वान्, चौथा हैतुक अर्थात् कारण अकारण का ज्ञाना, पांचवां तर्की न्यायशास्त्रवित्, छठा निरुक्त का जाननेद्वारा, सातवां धर्म-शास्त्रवित्, आठवां ब्रह्मचारी, नवां गृहस्थ और दशवां धानप्रस्थ, इन महात्माओं की सभा होवे ॥ ४ ॥

तथा ऋग्वेदवित्, यजुर्वेदवित्, और सामवेदवित् इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात् सब व्यवहारों के निर्णय के लिये होनी चाहिये, और जितने सभा में अधिक पुरुष हों उतनी ही उत्तमता है ॥ ५ ॥

द्विजों में उत्तम अर्थात् चतुर्थाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यवहार के करने का निश्चय करे, वही परमधर्म कर्त्तव्य समझना, किन्तु अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों और करोड़ों पुरुषों का कहा हुआ धर्मव्यवहार कभी न मानना चाहिये, किन्तु धर्मात्मा विद्वानों और विशेष परमविद्वान् संन्यासी का वेदादि प्रमाणों से कहा हुआ धर्म सबको मानने योग्य है ॥ ६ ॥

यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षानुसार मानना और समपक्ष में उत्तमों की बात स्वीकार करनी और दोनों पक्षवाले बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियों की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपातरहित सर्वहितैषी संन्यासियों की सम्मति होवे वही उत्तम समझनी चाहिये ।

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ८ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ११, १२ ॥

अर्थः—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी आदि सब मनुष्यों को योग्य है कि निम्नलिखित धर्म का सेवन और उससे विरुद्ध अधर्म का त्याग प्रयत्न से किया करें ॥ ७ ॥

धर्म न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं—(अहिंसा) किसी से वैरवृद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न वर्तना, (धृतिः) सुख दुःख, हानि लाभ में

व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धैर्य से धर्म ही में स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना, (दमः) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म ही में प्रवृत्त रखना, (अस्तेयम्) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना (शौचम्) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धर्म ही में चलाना, (धीः) वेदादि सत्य विद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने और कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना, (विद्या) जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्) सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, (अक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शाश्वत्यादि गुणों का ग्रहण करना 'धर्म' कहाता है, इस का ग्रहण, और अन्याय पक्षपातसहित आचरण अधर्म जोकि हिंसा, वैरबुद्धि, अधैर्य, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीत कर अधर्म में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है, उसमें फँसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फँसकर अधर्मी, दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इन से सदा दूर रहना चाहिये ॥८॥

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छ्लेनाभ्युपेतम् ॥९॥

महाभारते विदुरप्रजागर पर्व ॥

सर्मा वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अब्रुवन् विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥१०॥

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते ।
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥११॥

मनु० अ० ८ । श्रौ० १३, १२ ॥

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥१२॥

मनु० अ० २ । श्रौ० १ ॥

अर्थः—वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न हों, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की बात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिस में सत्य नहीं, और न वह सत्य है जो कि छल से युक्त हो ॥१॥

मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अतिपापी है ॥ १० ॥

अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे, उसके घाव को यदि सभासद् न पूर दें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद् ही घायल पड़े हैं ॥ ११ ॥

जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् अपने हृदय से अनुकूल जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो ॥१२॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥१३॥

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥१४॥

मनु० ॥

अर्थः—जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उसी का नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है । इसलिये मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात् त्याग कभी न करना चाहिये । १३ ॥

जो सुख की वृद्धि करनेहारा सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है, उसका जो लोप करता है, उसको विद्वान् लोग वृषल अर्थात् नीच समझते हैं ॥ १४ ॥

न जातु कामाक्ष भयाक्ष लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
धर्मो नित्यः सुखदुःखेत्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥
महाभारते ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः ॥ १६ ॥

मनु० अ ८ । श्लो १४ ॥

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याय्यात्ययः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १७ ॥

भर्तृहरिः ॥

अर्थः—मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात् भूठ से कामना सिद्ध होने के कारण से, वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी धर्म का त्याग कभी न करें, और न लाभ से, चाहे भूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें। भोजन छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके वा प्राण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कभी न छोड़ें। क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य हैं। अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है। इस धर्म का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है, वह भी अनित्य है। धर्म्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार में वर्तमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥ १५ ॥

जिस सभा में बैठे हुए समासदों के सामने अधर्म से धर्म और भूठ से सत्य का हनन होता है, उस सभा में सब समासद् मरे से ही हैं ॥ १६ ॥

सब मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिये कि, चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में धर्तनेहारे चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें, लक्ष्मी प्राप्त होवे अथवा नष्ट हो जावे, आज ही मरण होवे अथवा वर्षान्तर में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जो मनुष्य धर्मयुक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धीर पुरुष धन्य हैं ॥ १७ ॥

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

ऋ० मं० १० । सू० १६१ । मं० २ ॥

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः ।

अश्रद्धामनृतेऽर्धाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ २ ॥

यजु० अ० १६ । मं० ७७ ॥

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ओं शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥३॥

तैत्तिरीयार० अष्टमः प्रपाठकः । प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको मैं ईश्वर आत्मा देता हूँ कि (यथा) जैसे (पूर्वं) प्रथम अधीत विद्यायोगाभ्यासी (संजानाना) सम्यक् जाननेवाले (देवाः) विद्वान् लोग मिलके (भागम्) सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़ सत्य की (उपासते) उपासना करते हैं, वैसे (सम् जानताम्) आत्मा से धर्माऽधर्म, प्रियाऽप्रिय जाननेहारे (वः) तुम्हारे (मनांसि) मन एक दूसरे से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धर्म में सम्मत हों, और तुम उसी धर्म को (सं गच्छध्वम्) सम्यक् मिल के प्राप्त होओ, जिसमें तुम्हारी एक सम्मति होती है,

और विरुद्धवाद अधर्म को छोड़ के (संवदध्वम्) सम्यक् संवाद प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नति किया करो ॥१॥

(प्रजापतिः) सकल सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करने द्वारा सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी अद्वितीय स्वामी परमात्मा (सत्यानृते) सत्य और अनृत (रूपे) भिन्न २ स्वरूपवाले धर्म अधर्म को (दृष्ट्वा) अपनी सर्वज्ञता से यथावत् देख के (व्याकरोत्) भिन्न २ निश्चित करता है, (अनृते) मिथ्याभाषणादि अधर्म में (अश्रद्धाम्) अप्रीति को और प्रजापति') वही परमात्मा (सत्ये) सत्यभाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपात-रहित धर्म में तुम्हारी (श्रद्धाम्) प्रीति को (अदधात्) धारण कराता है, वैसा ही तुम करो ॥ २ ॥

हम' स्त्री पुरुष, सेवक स्वामी, मित्र मित्र, पिता पुत्रादि (सह) मिलके (नौ) हमारे एक दूसरे के पदार्थों का प्रीति से (अवतु) एक दूसरे की रक्षा किया करें, और (सह) प्रीति से मिल के एक दूसरे के (वीर्यम्) पराक्रम की बढ़ती (करवा-वहै) सदा किया करें । (नौ) हमारा (अधीतम्) पढ़ा पढ़ाया (तेजस्वि) अतिप्रकाशमान् (अस्तु) होवे, और हम एक दूसरे से (मा विद्विषावहै) कभी विद्वेष विरोध न करें, किन्तु सदा मित्रभाव और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से वर्त कर सर्व गृहस्थों के सद्व्यवहारों को बढ़ाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें । जिस परमात्मा का यह "ओम्" नाम है, उसकी कृपा और अपने कर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का विविध दुःख जो कि अपने दूसरे से होता है नष्ट हो जावे, और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथ वर्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल होके सदैव स्वयं आनन्द में रहकर सबको आनन्द में रक्खें ॥ ३ ॥

इति गृहाधर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ वानप्रस्थसंस्कारविधिं व यामः

'वानप्रस्थ संस्कार' उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक सन्तान होजाय, अर्थात् जब पुत्र का भी पुत्र होवे, तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात् वन में जाकर निम्नलिखित सब बात करे—

अत्र प्रमाणाणि—

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ जाबालोप० ॥

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ ॥

यजु० अ० १६ । मं० ३० ॥

अर्थः—मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति करके गृहस्थ हों, गृहस्थ होके वनी अर्थात् वानप्रस्थ हों, और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें ॥ १ ॥

जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि व्रत अर्थात् नियम धारण करता है, तब उस (व्रतेन) व्रत से उत्तम प्रतिष्ठा-रूप (दीक्षाम्) दीक्षा को (आप्नोति) प्राप्त होता है, (दीक्षया) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के नियम पालन से (दक्षिणाम्) सत्कार-पूर्वक धनादि को (आप्नोति) प्राप्त होता है, (दक्षिणा) उस सत्कार से (श्रद्धाम्) सत्य धारण में प्रीति को (आप्नोति) प्राप्त होता है, और (श्रद्धया) सत्यधार्मिक जनों में प्रीति से (सत्यम्) सत्यविज्ञान वा सत्य पदार्थ मनुष्य को (आप्यते) प्राप्त होता है । इसलिये श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य और गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥

अभ्या दधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वरि ।

व्रतञ्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ ३ ॥

यजु० अ० २० । मं० २४ ॥

आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रज्ञानम् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीयम् ॥४॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ५ । मं० १ ॥

अर्थः—हे (व्रतपतेऽग्ने) व्रतपालक परमात्मन् ! (दीक्षितः) दीक्षा को प्राप्त होता हुआ (अहम्) मैं (त्वयि) तुझ में स्थिर होके (व्रतम्) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का धारण (च) और उसकी सामग्री, (श्रद्धाम्) सत्य की धारणा को (च) और उसके उपायों को (उपैमि) प्राप्त होता हूँ, इसीलिये अग्नि में जैसे (समिधम्) समिधा को (अभ्याधामि) धारण करता हूँ, वैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्ज्वलित करता हूँ, और वैसे ही (त्वा) तुझको अपने आत्मा में धारण करता और सदा (श्न्धे) प्रकाशित करता हूँ ॥ ३ ॥

हे गृहस्थ ! (प्रजाजन्) प्रकर्षता से जानता हुआ तू (एतम्) इस वानप्रस्थाश्रम का (आरभस्व) आरम्भ कर, (आनय) अपने मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला, (सुकृताम्) पुण्यात्माओं के (लोकमपि) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छतु) प्राप्त हो, (बहुधा) बहुत प्रकार के (महान्ति) बड़े बड़े (तमांसि) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को (तीर्त्वा) तरके अर्थात् पृथक् होकर (अजः) अपने आत्मा को अजर अमर जान (तृतीयम्) तीसरे (नाकम्) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रम को (आक्रमताम्) आक्रमण अर्थात् रीतिपूर्वक आरूढ़ हो ॥४॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयस्त्रिद्विस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रे ।

ततो राष्ट्रं बलमोज्ज्व जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ ५ ॥

अथर्व० कां० १६ । सू० ४१ । मं० १ ॥

मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्तपः ।

शिवा नः शं सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० १६ । सू० ४० । मं० ३ ॥

अर्थः—हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (स्वर्विदः) सुख को प्राप्त होनेवाले (ऋषयः) विद्वान् लोग (अग्ने) प्रथम (दीक्षाम्) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की दीक्षा उपदेश लेके (तपः) प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षण को (उप निषेदुः) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं, वैसे इस (भद्रम्) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की (इच्छन्तः) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्मचर्याश्रम को करके (ततः) तदनन्तर (ओजः) पराक्रम (च) और (बलम्) बल को प्राप्त हो के (जातम्) प्रसिद्ध प्राप्त हुए (राष्ट्रम्) राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और (अस्मै) न्यायकारी धार्मिक विद्वान् राजा को (देवाः) विद्वान् लोग नमन करते हैं, (तत्) वैसे सब लोग वानप्रस्थाश्रम को किये हुए आपको (उपसंनमन्तु समीप प्राप्त होके नम्र होवें ॥ ५ ॥

हे सम्बन्धी लोगो ! (नः) हम वानप्रस्थाश्रमस्थों की (मेधाम्) प्रज्ञा को (मा हिंसिष्ट) नष्ट मत करो, (नः) हमारी (दीक्षाम्) दीक्षा को (मा) मत, और (नः) हमारा (यत्) जो (तपः) प्राणायामादि उत्तम तप है, उसको तुम लोग (मा हिंसिष्ट) मत नाश करो । (नः) हमारी दीक्षा और (आयुषे) जीवन के लिये सब पूजा (शिवा) कल्याण करनेहारी (सन्तु) होवें । जैसे हमारी (मातरः) माता, पितामही, प्रपितामही आदि (शिवाः) कल्याण करनेहारी होती हैं, वैसे सब लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देने वाले (भवन्तु) होवो ॥ ६ ॥
तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या* विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यन्ययात्मा ॥७॥

सुयदकोपनि० मुं० १ । ख० २ । मं० ११ ॥

१. “शान्ता” इति सुयदके पाठः ॥ (आनन्दाश्रमग्रन्थावलिः)

अर्थः—हे मनुष्यो ! (ये) जो (विद्वांसः) विद्वान् लोग (अरण्ये) जङ्गल में (शान्त्या , शान्ति के साथ (तपःश्रद्धे) योगाभ्यास और परमात्मा में प्रीति करके (उपवसन्ति) वन-वासियों के समीप बसते हैं, और (भैक्ष्यचर्याम्) भिक्षाचरण को (चरन्तः) करते हुए जंगल में निवास करते हैं, (ते) वे (हि) ही (विरजाः) निर्दोष, निष्पाप, निर्मम होके (सूर्यहारेण) प्राण के द्वारा (यत्र) जहां (सः) सो (अमृतः) मरण जन्म से पृथक् (अव्ययात्मा) नाशरहित (पुरुषः) पूर्ण परमात्मा विराजमान है (हि) वहाँ (प्रयान्ति) जाते हैं, इसलिये धान-प्रस्थ करना अति उत्तम है ॥ ७ ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।
 वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥
 गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपलितमात्मनः ।
 अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥
 सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चैव परिच्छदम् ।
 पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

मनु० अ० ६ । श्रौ० १-३ ॥

अर्थः—पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करनेद्वारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत् गृहाश्रम करके वन में वसे ॥ १ ॥

गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो जाय, तब वन का आश्रय लें ॥ २ ॥

जब धानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लें तब ग्रामों में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा संग में लेके वन को आवें ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ४ ॥

अर्थः—जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोत्र को सामग्री सहित लेके ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ५ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ८ ॥

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं मैक्ष्यमाहरेत् ।

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ ७ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० २७२ ॥

अर्थः—वहां जंगल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्वस्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषयसेवन अर्थात् प्रसङ्ग कभी न करे । सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य देनेद्वारा और किसी से कुछ भी न लेके, सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा—रूपा रखनेद्वारा होवे ॥ ५ ॥

जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी, धर्मात्मा विद्वान् लोग रहते हों, जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों उनके घरों में से भिक्षा ग्रहण करे ॥ ६ ॥

और इस प्रकार वन में वसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे, और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों

के अर्थों का विचार किया करे, इसी प्रकार जब तक संन्यास करने की इच्छा न हो तब तक घानप्रस्थ ही रहे ॥ ७ ॥

अथ विधिः—घानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है । जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्रबन्धु आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके बन की ओर यात्रा की तैय्यारी करे । यदि स्त्री चले तो साथ ले जावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत् किया करना, और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धर्ममार्ग में चलने के लिये और अधर्म से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना । तत्पश्चात् पृष्ठ १३-१४ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला वेदी आदि सब बनावे । पृष्ठ १५ में लिखे घृत आदि सब सामग्री जोड़ के पृष्ठ २१-२२ में लिखे प्रमाणे (ओं भूर्भुवः स्वर्द्यौं०) इस मन्त्र से अग्न्याधान और (अयन्त इध्म०) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान करके पृ० २३ में लिखे प्रमाणेः—

ओम् अदितेऽनुमन्यस्व ॥ गो० १ । ३ । १ ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आज्याहुति ४ (चार) करके, पृष्ठ ६-१३ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके, स्थालीपाक बनाकर, उस पर घृत सेचन कर, निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवेः—

ओं काय स्वाहा । कस्मै स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा ।
आधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्तं विज्ञाता-
यादित्यै स्वाहा । अदित्यै महौ स्वाहा । अदित्यै सुसृडीकायै
स्वाहा । सरस्वत्यै स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा । सरस्वत्यै

बृहत्यै स्वाहा । पूष्यो स्वाहा । पूष्यो प्रपथ्याय स्वाहा । पूष्यो
नरन्धिषाय स्वाहा । त्वष्ट्रे स्वाहा । त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा ॥
यजु० अ० २२ । मं० २० ॥

भुवनस्य पतये स्वाहा । अधिपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा ॥
यजु० अ० २२ । मं० ३२ ॥

ओम् आयुर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । प्राणो यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । अपानो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । व्यानो यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । समानो यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । चक्षुर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । मनो यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । आत्मा यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । स्वर्ग्यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा । पृष्ठं यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । यज्ञो यज्ञेन कल्पताथ्
स्वाहा ॥ यजु० अ० ३२ । मं० ३३ ॥

एकस्मै स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा । शताय स्वाहा । एकशताय
स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । स्वर्गाय स्वाहा ॥ यजु० अ० २२ । मं० ३४ ॥

इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति
देके, पुनः पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ (चार)
देकर, पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे सामगान कर के, सब इष्ट
मित्रों से मिल, पुत्रादिकों पर सब घर का भार धरके,
अग्निहोत्र की सामग्री सहित जङ्गल में जाकर, एकान्त में
निवासकर, योगाभ्यास शास्त्रों का विचार, महात्माओं का सङ्ग
करके स्वात्मा और परमात्मा का साक्षात् करने में प्रयत्न किया करे।

इति धानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ संन्याससंस्कारविधिं वक्ष्यामः

'संन्यास संस्कार' उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थे विचरे। अर्थात्

सम्यद् न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन वा सम्यद् नित्यं सत्कर्मस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स 'संन्यासः', संन्यासो विद्यते यस्य स 'संन्यासी' ॥

कालः—प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ और गृहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ होके संन्यासी होवे, यह क्रमसंन्यास, अर्थात् अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करते २ वृद्धावस्था में जो संन्यास लेना है, उसी को क्रमसंन्यास कहते हैं।

द्वितीय प्रकार—यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद्दनादा गृहादा ॥

जाबालोपनि० ॥

यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य है ॥

अर्थः—जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है ॥

तृतीय प्रकार—ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् ॥ जाबालोपनिषत् ॥

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है ॥

अर्थः—यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा

से यथावत् उठ जावे, पक्षपातरहित होकर सब के उपकार करने की इच्छा होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय होजावे कि मैं मरणपर्यन्त यथावत् संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न गृहाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे ॥

अत्र वेदप्रमाणानि—

शूर्य्यावति सोमामिन्द्रः पिबतु वृत्रहा ।
 बलं दधान आत्मनि करिष्यान् वीर्यं महदिन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥ १ ॥
 आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात् सोम मीद्वः ।
 ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा मुत इन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥ २ ॥
 ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० १-२ ॥

अर्थः—मैं ईश्वर, संन्यास लेनेहारे तुझ मनुष्य को उपदेश करता हूँ कि जैसे (वृत्रहा) मेघ का नाश करने द्वारा (इन्द्रः) सूर्य (शूर्य्यावति) हिंसनीय पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्) रस को पीता है, वैसे संन्यास लेने वाला पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को (पिबतु) पीवे, और (आत्मनी) अपने आत्मा में (महत्) बड़े (वीर्यम्) सामर्थ्य को (करिष्यन्) करूंगा, ऐसी इच्छा करता हुआ (बलं दधानः) दिव्य बल को धारण करता हुआ (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये, हे (इन्द्रो) चन्द्रमा के तुल्य सब को आनन्द करनेहारे पूर्ण विद्वन् ! तू संन्यास लेके सब पर (परिस्त्रव) सत्योपदेश की वृष्टि कर ॥ १ ॥

हे (सोम) सोम्यगुणसम्पन्न ! (मीद्वः) सत्य से सब के अन्तःकरण को सौंघनेहारे ! (विशांपते) सब दिशाओं में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान दे के पालन करनेहारे (इन्द्रो) शमादि गुणयुक्त संन्यासिन् ! तू (ऋतवाकेन) यथार्थ बोलने

(सत्येन) सत्य भाषण करने से (श्रद्धया) सत्य के भाषण में सच्ची प्रीति और (तपसा) प्राणायाम योगाभ्यास से (आर्जीकात्) सरसता से (सुतः) निष्पन्न होता हुआ, तू अपने शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि को (आपवस्व) पवित्र कर, (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा के लिये (परि स्रव) सब ओर से गमन कर ॥ २ ॥

ऋतं वदन्तुद्युम्न सत्यं वदन्त्सत्यकर्मन् । श्रद्धां वदन्त्सोम
राजन् धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ३ ॥

ऋ० म० ३ । सू० ११३ । मं० ४ ॥

अर्थः—हे (ऋतद्युम्न) सत्य धन और कीर्तिवाले यतिवर ! (ऋतं वदन्) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ, हे (सत्यकर्मन्) सत्य वेदोक्त कर्मवाले संन्यासिन् ! (सत्यं वदन्) सत्य बोलता हुआ, (श्रद्धाम्) सत्यधारण में प्रीति करने को (वदन्) उपदेश करता हुआ, (सोम) सोम्यगुणसंपन्न (राजन्) सब ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा वाले (सोम) योगैश्वर्ययुक्त (इन्दो) सब को आनन्ददायक संन्यासिन् ! तू (धात्रा) सकल विश्व के धारण करनेहारे परमात्मा से योगाभ्यास करके (परिष्कृतः) शुद्ध होता हुआ (इन्द्राय) योग से उत्पन्न हुए परमैश्वर्य की सिद्धि के लिये (परि स्रव) यथार्थ पुदषार्थ कर ॥ ३ ॥

यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यांश्च वाचं वदन् । ग्राण्णा सोमै
महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ४ ॥

ऋ० मं० १ । सू० ११३ । मं० ६ ॥

अर्थः—हे (छन्दस्याम्) स्वतन्त्रतायुक्त (वाचम्) वाणी को (वदन्) कहते हुए, (सोमेन) विद्या योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से (आनन्दम्) सब के लिये आनन्द को

(जनयन्) प्रकट करते हुए (इन्दो) आनन्दप्रद ! (पवमान) पवित्रात्मन् पवित्र करनेहारे संन्यासिन् ! (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा में (ब्रह्मा) चारों वेदों का जाननेहारा विद्वान् (महीयते महत्त्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जैसे (ब्राह्मणा) मेघ से सब जगत् को आनन्द होता है, वैसे तू सब को (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को (परि स्रव) सब प्रकार से प्राप्त कर ॥ ४ ॥

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँल्लोके स्वर्हितम् । तस्मिन् मां
धेहि पवमानामृते लोके अर्चित इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ५ ॥

ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ७ ॥

अर्थः—हे (पवमान) अविद्यादि क्लेशों के नाश करनेहारे पवित्रस्वरूप (इन्दो) सर्वानन्ददायक परमात्मन् ! (यत्र) जिस तेरे स्वरूप में (अजस्रम्) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः) तेज है, (यस्मिन्) जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में (स्वः) नित्य सुख (हितम्) स्थित है, (तस्मिन्) उक्त (अमृते) जन्म मरण और (अर्चिते) नाश से रहित (लोके) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा) मुझ को (इन्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्ति के लिये (धेहि) कृपा से धारण कीजिये, और मुझ पर माता के समान कृपाभाव से (परि स्रव) आनन्द की वर्षा कीजिये ॥ ५ ॥

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रविरोधनं दिवः ।
यत्रामूर्यहृतीरापस्तत्र माममृते कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ६ ॥

ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ८ ॥

अर्थः—हे (इन्दो) आनन्दप्रद परमात्मन् ! (यत्र) जिस मुझ में (वैवस्वतः) सूर्य का प्रकाश (राजा) प्रकाशमान हो रहा है, (यत्र) जिस आप में (दिवः) बिजुली अथवा बुरी कामना की (अवरोधनम्) रूकावट है, (यत्र) जिस आप में (अमूः) वे रूपकारण

रूप (यद्गतीः) बड़े व्यापक आकाशस्थ (आपः) प्राणप्रद वायु हैं, (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) मोक्ष प्राप्त (कृधि) कीजिये, (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (परि स्रव) आर्द्रभाव से आप मुझ को प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥

यत्रानुकामं चरणं त्रिनाकं त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र
ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कुधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ७ ॥

अ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ६ ॥

अर्थः—हे (इन्दो) परमात्मन् ! (यत्र) जिस आप में (अनु-कामम्) इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र (चरणम्) विचरना है, (यत्र) जिस (त्रिनाके) त्रिविध अर्थात् आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक दुःख से रहित (त्रिदिवे) तीन सूर्य विद्युत् और भौम्य अग्नि से प्रकाशित सुखस्वरूप में (दिवः) कामना करने योग्य शुद्ध कामनावाले, (लोकाः) यथार्थ ज्ञानयुक्त (ज्योतिष्मतः) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्धपुरुष विचरते हैं, (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्) मुझ को (अमृतम्) मोक्ष प्राप्त (कृधि) कीजिये, और (इन्द्राय) उस परम आनन्दैश्वर्य के लिये (परि स्रव) कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥

यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् । स्वधा च
यत्र वृत्तिश्च तत्र माममृतं कुधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ८ ॥

अ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० १० ॥

अर्थः—हे (इन्दो) निकामानन्दप्रद, सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन् ! (यत्र) जिस आप में (कामाः) सब कामना (निकामाः) और अभिलाषा छूट जाती हैं, (च) और (यत्र) जिस आप में (ब्रध्नस्य) सब से बड़े प्रकाशमान सूर्य का (विष्टपम्) विशिष्ट सुख, (च) और (यत्र) जिस आप में (स्वधा) अपना ही धारण (च) और जिस आप में (वृत्तिः) पूर्ण वृत्ति है, (तत्र) उस

अपने स्वरूप में (माम्) मुक्त को (असृतम्) प्राप्त मुक्तिवाला (कृधि) कीजिये, तथा (इन्द्राय) सब दुःख विदारण के लिये आप मुक्त पर (परिस्त्रव) करणावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायिन्दो परि स्त्रव ॥ ९ ॥

ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ११ ॥

अर्थः—हे (इन्दो) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! (यत्र) जिस आप में (आनन्दाः) सम्पूर्ण समृद्धि (च) और (मोदाः) सम्पूर्ण हर्ष, (मुदः) सम्पूर्णप्रसन्नता (च) और (प्रमुदः) प्रकृष्टप्रसन्नता (आसते) स्थित हैं, (यत्र) जिस आप में (कामस्य) अभिलाषा पुरुष की (कामाः) सब कामनाएं (आप्ताः) प्राप्त होती हैं, (तत्र) उसी अपने स्वरूप में (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (माम्) मुक्त को (असृतं) जन्म मृत्यु के दुःख से रहित मोक्षप्राप्तयुक्त, कि जिस मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीं आना पड़ता, उस मुक्ति की प्राप्ति वाला (कृधि) कीजिये, और इसी प्रकार सब जीवों को (परि स्त्रव) सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥ ९ ॥

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत ।

अत्रा समुद्र आ गुल्हमा सूर्यमजभर्त्तन ॥ १० ॥

ऋ० मं० १० । सू० ७२ । मं० ७ ॥

अर्थ—हे (देवाः) पूर्ण विद्वान् (यतयः) संन्यासी लोगो ! तुम (यथा) जैसे (अत्र) इस (समुद्रे) आकाश में (गुल्हम्) गुप्त (आसूर्यम्) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा है, उसको (आ अजभर्त्तन) चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण करो और आनन्दित होओ, वैसे (यत्) जो (भुवनानि) सब भुवनस्थ गृहस्थादि मनुष्य हैं, उनको सदा (अपिन्वत) विद्या और उपदेश से संयुक्त किया करो, यही तुम्हारा परमधर्म है ॥ १० ॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुप निषेदुरग्रे ।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उप सं नमन्तु ॥ ११ ॥

अथर्व० कां १६ । सू० ४१ । मं० १ ॥

अर्थः—हे विद्वानो ! जो (ऋषयः) वेदार्थविद्या को और (स्वर्विदः) सुख को प्राप्त (अग्रे) प्रथम (तपः) ब्रह्मचर्यरूप आश्रम को पूर्णता से सेवन तथा यथावत् स्थिरता से प्राप्त होके (भद्रम्) कल्याण की (इच्छन्तः) इच्छा करते हुए (दीक्षाम्) संन्यास की दीक्षा को (उपनिषेदुः) ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त होवें उनका (देवाः) विद्वान् लोग (उपसंतमन्तु) यथावत् सत्कार किया करें । (ततः) तदनन्तर (राष्ट्रम्) राज्य (बलम्) बल (च) और (ओजः) पराक्रम (जातम्) उत्पन्न होवे, (तत्) उससे (अस्मै) इस संन्यासाश्रम के पालन के लिये यत्न किया करें ॥ ११ ॥

अथ मनुस्मृतेश्लोकाः

वनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥ १ ॥
अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्राँश्चोत्पाद्य धर्मतः ।
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे नियोजयेत् ॥ २ ॥
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदाक्षिणाम् ।
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ ३ ॥
यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥
आगारादमिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।
सद्युपोदेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ५ ॥

अनाग्निरनिकेतः स्याद् ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।
 उपेक्षकोऽसङ्गसुको मुनिर्मावसमाहितः ॥ ६ ॥
 नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।
 कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ७ ॥
 दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
 सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ८ ॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥
 क्लृप्तकेशनस्वश्मश्रुः पात्री दण्डी कुमुम्भवान् ।
 विचरोन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १० ॥
 इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ११ ॥
 दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ १२ ॥
 फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १३ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १४ ॥
 दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ १५ ॥
 प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्विषम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १६ ॥

संन्यासप्रकरणम्

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥१७॥
 दर्शनेन विहीनस्तु संसारं निवध्यते ।
 अहिंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिर्न प्रतियते ॥१८॥
 तपसश्चरणैश्चाग्नैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥१९॥
 सदा भावेन भवति सर्वभाषेषु निःस्पृहः ।
 अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः ।
 सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावातिष्ठते ॥२१॥
 इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।
 इदमन्विच्छतां स्वर्ग्य* मिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥२२॥
 अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।
 स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२३॥
 मनु० अ० ६ । श्लो० ३३, ३४, ३८-३९, ४१, ४३, ४४, ४६,
 ४२, ६०, ६६, ७६, ७०-७५, ८०-८१, ८४-८५ ॥
 अर्थः—इस प्रकार जङ्गलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्
 अधिक से अधिक २५ (पञ्चीस) वर्ष अथवा न्यून से न्यून १२
 (बारह) वर्ष तक विहार करके आयु के चौथे भाग अर्थात् ७०
 (सत्तर) वर्ष के पश्चात् सब मोहादि संगों को छोड़कर
 संन्यासी होजावे ॥ १ ॥

* स्वर्गमिति मनौ पाठः ॥ अ० ६ । श्लो० ८४ ॥

विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़, गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर, वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके, मोक्ष में अर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥ २ ॥

प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि (कि जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है) कर, आहवनीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपित कर के ब्राह्मण विद्वान् गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३ ॥

जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृहाश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है, उस ब्रह्मवादी, वेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी को मोक्षलोक और सब लोकलोकान्तर तेलोमय ज्ञान से प्रकाशमय हो जाते हैं ॥ ४ ॥

जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे, पवित्रात्मा और पवित्रान्तःकरण मननशील हो जावे, तभी गृहाश्रम से निकल कर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे, अथवा ब्रह्मचर्य ही से संन्यास का ग्रहण कर लेवे ॥ ५ ॥

वह संन्यासी (अनग्निः *) आहवनीयादि अग्नियों से रहित, और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे, और अन्न वखादि के लिये ग्राम का आश्रय लेवे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिरबुद्धि मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे ॥ ६ ॥

* इसी पद से आन्ति में पद के संन्यासियों का दाह नहीं करते, और संन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते। यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया। यहां आहवनीयादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है ॥

न तो अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने, किन्तु जैसे जुद्ध भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की वाट देखता रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥७॥

चलते समय आगे २ देख के पग धरे, सदा वल्ल से छान कर जल पीवे, सब से सत्य वाणी बोले, अर्थात् सत्योपदेश ही किया करे, जो कुछ व्यवहार करे, वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे ॥८॥

इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षारहित, मांस मद्यादि का त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे और सब को सत्योपदेश करता रहे ॥ ९ ॥

सब शिर के बाल, डाढ़ी, मूछ और नखों को समय २ छेदन कराता रहे । पात्री, दण्डी और कुसुम्भ के रंगे हुए वस्त्रों को धारण किया करे । सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ दृढात्मा होकर नित्य विचरा करे ॥ १० ॥

जो संन्यासी घुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध रागद्वेषादि दोषों के क्षय, और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आचरण करे, ऐसा ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है । सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर समबुद्धि रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये संन्यासाश्रम की विधि है, किन्तु केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ १२ ॥

यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला है तथापि उसके नामग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु

ॐ अथवा गेरु से रङ्गे हुए वस्त्रों को पहिने ॥

उसको ले पीस जल में डालने से ही उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है, वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने २ आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रमधारण सफल होता है, अन्यथा नहीं । १३ ॥

इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी पुष्य विधिवत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगा के जैसा कि पृष्ठ २०६ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उसको मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है ॥ १४ ॥

क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं वैसे ही प्राण के निग्रह सं इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥

इसलिये संन्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को, धारणाओं से अन्तःकरण के मैल को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों, और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अनीश्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर सब दोषों को भस्म कर दें ॥ १६ ॥

बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में जो अशुद्धात्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात् प्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्यासीं देखा करे ॥ १७ ॥

जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा षड्दर्शनों से युक्त है, वह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं होता । और जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा षड्दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है, वह संन्यासपदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्ममरण रूप संसार को प्राप्त होता है, और ऐसे मूर्ख अधर्मी को संन्यास का लेना व्यर्थ और धिक्कार देने के योग्य है ॥ १८ ॥

और जो निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक्, वैदिक कर्माचरणों और प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र

कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म इसी वर्त्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उन का संन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है ॥ १६ ॥

जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होता है, तभी इस लोक, इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर * सुख को प्राप्त होता है ॥ २० ॥

इस विधि से धीरे २ सब संग से हुए दोषों को छोड़ के, सब हर्ष शोकादि द्वन्द्वों से विशेषकर निर्मुक्त होके विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ २१ ॥

और जो विविदिषा अर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का सङ्ग, योगाभ्यास और ओंकार का जप और उसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे। यही अज्ञानियों का शरण, अर्थात् गौणसंन्यासियों और यही विद्वान् संन्यासियों का और यही सुख की खोज करनेहारे और यही अनन्त † सुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आश्रय है ॥ २२ ॥

इस क्रमानुसार संन्यासयोग से जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संन्यास ग्रहण करता है, वह इस अनुसार और शरीर से सब पापों को छोड़ छुड़ा के पर ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

* निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मन्त्र में दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता ॥

† अनन्त इतना ही है कि मुक्तिपुल के समय में अन्त अर्थात् जिसका नाश न होवे ॥

विधिः—जो पुरुष संन्यास लेना चाहे, वह जिस दिन सर्वथा प्रसन्नता हो उसी दिन नियम और व्रत अर्थात् तीन दिन तक दुग्धपान करके उपवास और भूमि में शयन और प्राणायाम, ध्यान तथा एकान्तदेश में ओंकार का जप किया करे, और पृष्ठ १३-१५ में लि० सभामण्डप, वेदी, समिधा घृतादि साकल्य सामग्री एक दिन पूर्व कर रखनी। पश्चात् जिस चौथे दिन संन्यास लेना हो प्रहर रात्रि से उठकर, शौच स्नानादि आवश्यक कर्म करके, प्राणायाम ध्यान और प्रणव का जप करता रहे। सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों का पृष्ठ २० में लिखे० वरण कर पृष्ठ २१-२२ में लि० अग्न्याधान समिदाधान, घृतप्रतपन और स्थालीपाक करके, पृष्ठ ६-१३ में लि० स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण का पाठ कर, पृष्ठ २३ में लि० वेदी के चारों ओर जलप्रोक्षण, आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) तथा:—

ओं भुवनपतये स्वाहा ॥१॥ ओं भूतानां पतये स्वाहा ॥२॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥३॥

इनमें से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहुति देके, जो विधिपूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सेचन करके, यज्ञमान जोकि संन्यास का लेनेवाला है और दो ऋत्विज् निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रों से भात का होम, और शेष दो ऋत्विज् भी साथ २ घृताहुति करते जावें—

ओं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरवो मिताः ।

अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः स्वाहा ॥ १ ॥

ब्रह्म सुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सत्रं च ऋत्विजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा ॥ २ ॥

अंहोमुचे प्रभरे मनीषामा सुत्राव्यो सुमतिमावृणानः । इमामिन्द्र
प्रति ह्वयं गृभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥ ३ ॥

अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् । अपां
नपातमश्विना हुवे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्तमोजः स्वाहा ॥ ४ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । अग्निर्मा तत्र
नयत्वशिर्मेघां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये—
इदन्न मम ॥ ५ ॥

यत्र० । वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान् दधातु मे । वायवे
स्वाहा ॥ इदं वायवे—इदन्न मम ॥ ६ ॥

यत्र० । सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ ७ ॥

यत्र० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे ।
चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय—इदन्न मम ॥ ८ ॥

यत्र० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे ।
सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय—इदन्न मम ॥ ९ ॥

यत्र० । इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय—इदन्न मम ॥ १० ॥

यत्र० । आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोपतिष्ठतु । अद्भ्यः
स्वाहा ॥ इदमद्भ्यः—इदन्न मम ॥ ११ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु
ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे—इदन्न मम ॥ १२ ॥

अथर्व० का० १३ । सू० ४२ । मं० १-४ तथा सू० ४३ ॥

ओं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम् ।
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयांसः स्वाहा ॥ १ ॥
वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रनिह्वाग्राणरेतोबुद्ध्याकृतिसंकल्पा मे शुध्यन्ताम् ।
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयांसः स्वाहा ॥ २ ॥

शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरुदरजंघाशिश्नोपस्थपायवो मे शुध्यंताम् ।

ज्योति०

॥३॥

त्वक्चर्ममाथ्सरुधिरमेदोमज्जास्नायवोऽस्थीनि मे शुध्यंताम् ।

ज्योति०

॥४॥

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥५॥

पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशा मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥६॥

अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यंताम् ।

ज्योति०

॥७॥

विविष्ट्यै स्वाहा ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहा ॥६॥

उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिङ्गलाचि देहि देहि दापयिता
मे शुध्यताम् । ज्योति० ॥१०॥ तै० आ० प्र० १० । अ० २१-६१ ॥

ओं मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥११॥

अव्यक्तभवैरहङ्कारैर्ज्योति० ॥१२॥

आत्मा मे शुध्यताम् । ज्योति० ॥१३॥

अन्तरात्मा मे शुध्यताम् । ज्योति० ॥१४॥

परमात्मा मे शुध्यताम् । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा

भूयास ५ स्वाहा * ॥ १५ ॥

सैत्तिरीयार० प्र० १० । अनु० ६६, पृथिव्यादिक सोसाइटी बङ्गाल मुद्रित ॥

* (प्राणायाम) इत्यादि से लेके (परमात्मा मे शुध्यताम्) इत्यन्त मन्त्रों से संन्यासी के लिये उपदेश है, अर्थात् जो संन्यासाश्रम ग्रहण करे वह धर्माचरण, सत्योपदेश, योगाभ्यास, शम, दम, शान्ति, सुशीलतादि, विद्याविज्ञानादि शुभ गुण कर्म स्वभावों से भहित होकर, परमात्मा को अपना सहायक मानकर, अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर प्राण मन इन्द्रियादि को अशुद्ध

इन १५ मन्त्रों में से एक २ करके भात की आहुति देनी पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रों से ३५ घृताहुति दें—

ओमग्रये स्वाहा ॥१६॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥१७॥

ओं ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥१८॥ ओं ध्रुवक्षितये स्वाहा ॥१९॥

ओमच्युतक्षितये स्वाहा ॥२०॥ ओमग्रये स्विष्टकृते स्वाहा ॥२१॥

ओं धर्माय स्वाहा ॥२२॥ ओमधर्माय स्वाहा ॥२३॥

ओमद्भ्यः स्वाहा ॥२४॥ ओमोषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२५॥

ओं रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥२६॥ ओं गृह्याभ्यः स्वाहा ॥२७॥

ओमवमानेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ ओमवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥२९॥

ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ ओं कामाय स्वाहा ॥३१॥

ओमन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३२॥ ओं पृथिव्यै स्वाहा ॥३३॥

ओं दिवे स्वाहा ॥३४॥ ओं सूर्याय स्वाहा ॥३५॥

ओं चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ ओं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥३७॥

ओमिन्द्राय स्वाहा ॥३८॥ ओं बृहस्पतये स्वाहा ॥३९॥

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥४०॥ ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥४१॥

ओं देवेभ्यः स्वाहा ॥४२॥ ओं परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥

तैत्तिरीयारण्यक प्र० १० । अनु० १० ॥

ओं तद्ब्रह्म ॥४४॥ ओं तद्वायुः ॥४५॥

ओं तदात्मा ॥४६॥ ओं तत्सत्यम् ॥४७॥

ओं तत्सर्वम् ॥४८॥ ओं तत्पुरोर्नमः ॥४९॥

व्यवहार से हटा शुद्ध व्यवहार में चलाके पक्षपात कपट अधर्म व्यवहारों को छोड़, अन्य के दोष पढ़ाने और उपदेश से छुड़ाकर, स्वयं आनन्दित होके, सब मनुष्यों को आनन्द पहुँचाता रहे ॥

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । त्वं यज्ञस्त्वं
वषट्कारस्त्वमिन्द्रत्व ५ रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः ।
त्वं तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरो स्वाहा ॥ ५० ॥

तैत्तिरीयार० प्र० १० । अनु० ६८ ॥

इन ५० मन्त्रों से आज्याहुति दे के, तदनन्तर जो संन्यास लेनेवाला है, वह पांच वा छः केशों को छोड़कर, पृष्ठ ७४—७५ में लिखे डाढ़ी मूँछ केश लोमों का छेदन अर्थात् क्षौर करा के यथावत् स्नान करे ।

तदनन्तर संन्यास लेनेवाला पुरुष अपने शिर पर पुरुष-सूक्त के मन्त्रों से १०८ (एकसौ, आठ) वारं अभिषेक करे । पुनः पृष्ठ २१ में लिखे० आचमन और प्राणायाम करके, हाथ जोड़, वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर, मन से—

ओं ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ ओमिन्द्राय नमः ॥ २ ॥

ओं सूर्याय नमः ॥ ३ ॥ ओं सोमाय नमः ॥ ४ ॥

ओमात्मने नमः ॥ ५ ॥ ओमन्तरात्मने नमः ॥ ६ ॥

इन छः मन्त्रों को जप के:—

ओमात्मने स्वाहा ॥ १ ॥ ओमन्तरात्मने स्वाहा ॥ २ ॥

ओं परमात्मने स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ४ ॥

इन ४ (चार) मन्त्रों से ४ (चार) आज्याहुति देकर, कार्यकर्त्ता संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुष पृष्ठ १३८ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे । तदनन्तर प्राणायाम करके:—

ॐ ये सब प्राणायामन्याय० आदि मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक अनुवाक ५१-६०, ६६-६८ के हैं ॥

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ १ ॥
 ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥ २ ॥
 ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ३ ॥
 ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
 देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ४ ॥

इन मन्त्रों को मन से जपे ।

ओमज्ञये स्वाहा ॥१॥ ओं भूः प्रजापतये स्वाहा ॥२॥

ओमिन्द्राय स्वाहा ॥३॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥४॥

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥५॥ ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥६॥

ओं प्राणाय स्वाहा ॥७॥ ओमपानाय स्वाहा ॥८॥

ओं व्यानाय स्वाहा ॥ ९ ॥ ओमुदानाय स्वाहा ॥१०॥

ओं समानाय स्वाहा ॥११॥

इन मन्त्रों से वेदी में आज्याहुति देके—

ओं भूः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से पूर्णाहुति करके—

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्चोत्थायाय
 भित्ताचर्यं चरन्ति * ॥ श० का १४ ॥

पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता मत्तः
 सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा * ॥

इस वाक्य को बोल के सब के सामने जल को भूमि में छोड़ देवे ।

पीछे नाभिमात्र जल में पूर्वाभिमुख खड़ा रह कर—

* पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा से मन को हटाकर परमात्मा में आत्मा को दृढ़ करके जो भित्ताचरण करते हैं वे ही सब को सखोपदेश से अभयदान देते हैं, अर्थात् दहिने हाथ में जल ले के मैने आज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर दिया, और मुझ से सब भूत प्राणीमात्र को अभय प्राप्त होवे, यह मेरी सत्य वाणी है ॥

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सावितुर्वरेण्यम् ॥
 ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥
 ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
 ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे सावदोम् ॥

इसका मन से जप करके, प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके, पूर्वोक्त (पुत्रैषणायाश्च०) इस समग्र कण्डिका को बोलके, प्रेष्य मन्त्रोच्चारण कर—

ओं भूः संन्यस्तं मया ॥ ओं भुवः संन्यस्तं मया ॥
 ओं स्वः संन्यस्तं मया ॥

इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे ।

तत्पश्चात् जल से अञ्जलि भर, पूर्वाभिमुख होकर, संन्यास लेनेवाला—

ओं अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जलि को पूर्व दिशा में छोड़ देवे ॥

येना सहस्रं वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम् ।

तेनेमं यज्ञं ना वह स्वर्देवेषु गन्तवे * ॥

अथर्व० कां० ६ । सू० ५ । मं० १७ ॥

और इसी पर स्मृति है—

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन् समारोप्य द्वाह्याः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ मनु० ॥

* हे (अग्ने) विद्वन् ! (येन) जिससे (सहस्रम्) सब संसार को अग्नि धारण करता है, और (येन) जिससे तू (सर्ववेदसम्) गृहा-अमत्य पदार्थ मोह, यज्ञोपवीत और शिखा आदि को (वहसि) धारण करता है, उनको छोड़ (तेन) उस त्याग से (नः) हमको (इमम्) यह संन्यासरूप (स्वाहा) सुख देने डारे (यज्ञम्) प्राप्त होने योग्य यज्ञ को (देवेषु) विद्वानों में (गन्तवे) जाने को (वह) प्राप्त हो ॥

इस श्लोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ।

इसके पश्चात् मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रक्खे थे उनको एक एक उखाड़ और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले, जल की अञ्जलि भर—

ओमापो वै सर्वा देवताः स्वाहा ॥१॥ ओं भूः स्वाहा ॥२॥

इन मन्त्रों से शिखा के बाल और यज्ञोपवीत सहित जलाञ्जलि को जल में होम कर देवे ।

उसके पश्चात् आचार्य शिष्य को जल खे निकाल के काषाय घख की कीपीन, कटिवह्न, उपवह्न, अङ्गोच्छ्रा प्रीतिपूर्वक देवे । और—

इन्द्रस्य वज्रोऽसि वाजसास्त्रयायं वाजं सेत् । वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचमा करामहे । यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत् ॥ यजु० ११५ ॥

इस मन्त्र खे दण्ड धारण करके, आत्मा में आहवनीयादि अभियों का आरोपण करे ।

यो विद्याद् ब्रह्मं प्रत्यक्षं परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानु यश्चि ॥१॥
सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धुविः ॥२॥

१ (यः) जो पुरुष (प्रत्यक्षम्) साक्षात्कारता से (ब्रह्म) परमात्मा को (विद्यात्) जाने, (यस्य) जिसके (परूषि) कठोर स्वभाव आदि (संभारा) होम करने के साकल्य, और (यस्य) जिसके (ऋचः) यथार्थ सत्यभाषण सत्योपदेश और ऋग्वेद ही (अनुत्थम्) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन हैं, वही संन्यास ग्रहण करे ॥ १ ॥

२. (यस्य) जिसके (सामानि) सामवेद (लोमानि) लोम के समान, (यजुः) यजुर्वेद जिसके (हृदयम्) हृदय के समान (उच्यते) कहा जाता है,

(१) और (२) मंत्रों के हिंदी अर्थ समस्त ११४१ की छपी हुई संस्करणविधि में नहीं हैं ॥

यद्वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥
 यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥४॥
 या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥
 यदावसथान् कल्पयन्ति सदो हविर्धानान्येव तत्कल्पयन्ति ॥६॥
 यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत् ॥ ७ ॥

(परिस्तरणम्) जो सब ओर से शास्त्र आसन आदि सामग्री (हविरिद) होम करने योग्य के समान है, वह संन्यास ग्रहण करने में योग्य होता है ॥ २ ॥

३. (वा) वा (यत्) जो (अतिथिपतिः) अतिथियों का पालन करनेहारा (अतिथीन्) अतिथियों के प्रति (प्रतिपश्यति) देखता है, वही विद्वान् संन्यासियों में (देवयजनम्) विद्वानों के यजन करने के समान (प्रेक्षते) ज्ञानदृष्टि से देखता और संन्यास लेने का अधिकारी होता है ॥३॥

४. और (यत्) जो संन्यासी (अभिवदति) दूसरे के साथ संवाद वा दूसरे को अभिवादन करता है वह जानो (दीक्षाम्) दीक्षा को (उपैति) प्राप्त होता है, (यत्) जो (उदकम्) जल की (याचति) याचना करता है वह जानो (आपः) प्रयोक्ता आदि में जल को (प्रणयति) डालता है ॥४॥

५. (यज्ञे) यज्ञ में (याः एव) जिन्हीं (आपः) जलों का (प्रणीयन्ते) प्रयोग किया जाता है (ताः एव) वे ही (ताः) पात्र में रखे जल संन्यासी की यज्ञस्थ जलक्रिया हैं ॥ ५ ॥

६. संन्यासी (यत्) जो (आवसथान्) निवास का स्थान (कल्पयन्ति) कल्पना करते हैं वे (सदः) यज्ञशाला (हविर्धानान्येव) हविष् के स्थापन करने के ही पात्र (तत्) वे (कल्पयन्ति) समर्थित करते हैं ॥ ६ ॥

७. और (यत्) जो संन्यासी लोग (उपस्तृणन्ति) बिड़ौने आदि करते हैं (बहिरेव तत्) यह कुशपिञ्जली के समान है ॥ ७ ॥

तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति ॥ ८ ॥

सुचा इस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वषट्कारेण ॥ ९ ॥

एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चात्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥ १० ॥

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११ ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति ॥ १२ ॥

८. और जो (तेषाम्) उन (आसन्नानाम्) समीप बैठनेहारों के निकट बैठा हुआ (अतिथि.) जिसकी कोई नियत तिथि न हो, वह भोजनादि करता है, वह (आत्मन्) जानो वेदीस्य अग्नि में होम करने के समान आत्मा में (जुहोति) आहुतियाँ देता है ॥ ८ ॥

९. और जो संन्यासी (इस्तेन) मृग्य से खाता है वह जानो (सुचा) चमसा आदि से वेदी में आहुति देता है, जैसे (यूपे) स्तम्भ में अनेक प्रकार के पशु आदि को बांधते हैं वैसे वह संन्यासी (सुक्कारेण) रुचा के समान (वषट्कारेण) होमक्रिया के मुख्य (प्राणे) प्राण में मन और इन्द्रियों को बांधता है ॥ ९ ॥

१०. (एते वै) ये ही (अत्विज) समय २ में प्राप्त होनेवाले (प्रियाः च अप्रियाः च) प्रिय और अप्रिय भी संन्यासी जन (यत्) जिस कारण (अतिथयः) अतिथिरूप हैं इससे गृहस्य को (स्वर्गं लोकम्) दर्शनीय अत्यन्त सुख को (गमयन्ति) प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥

११. (एतस्य) इस संन्यासी का (प्राजापत्यः) प्रजापति परमात्मा को जानने का आश्रय धर्मानुष्ठानरूप (यज्ञः) अच्छे प्रकार करने योग्य यतिधर्म (विततः) व्यापक है, अर्थात् (यः) जो इसको सर्वोपरि (उपहरति) स्वीकार करता है (वै) वही संन्यासी होता है ॥ ११ ॥

१२. (य) जो (एषः) वह संन्यासी (प्रजापतेः) परमेश्वर के जानने रूप संन्यासाश्रम के (विक्रमान्) सत्याचारों की (अनुविक्रमते) अनुकूलता से क्रिया करता है, (वै) वही सब शुभगुणों को (उपहरति) स्वीकार करता है ॥ १२ ॥

योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो
यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः^{१३} ॥ १३ ॥

इष्टं च वा एष पूर्त्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथे-
रश्नाति^{१४} ॥ १४ ॥ अथर्व० कां० ६। अनु० ३। सू० ६(१)(२)(३) ॥

✽ तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी,
शरीरमिधममुरो वेदीलोमानि बर्हिर्वेदः शिखा, हृदयं यूपः,

१३. (य.) जो (अतिथीनाम्) अतिथि अर्थात् उत्तम संन्यासियों का सङ्ग है (सः) वह संन्यासी के लिये (आहवनीयः) आहवनीय अग्नि अर्थात् जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी होम करता है, और (यः) जो संन्यासी का (वेश्मनि) घर में अर्थात् स्थान में निवास है (सः) वह उसके लिये (गार्हपत्यः) गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि है, और संन्यासी (यस्मिन्) जिस जाठराग्नि में अन्नादि को (पचन्ति) पकाते हैं (सः) वह (दक्षिणाग्नि) घानग्रस्थ सम्बन्धी अग्नि है, इस प्रकार आत्मा में सब अग्नियों का आरोपण करे ॥ १३ ॥

१४. (यः) जो गृहस्थ (अतिथेः) संन्यासी से (पूर्वः) प्रथम (अश्नति) भोजन करता है (एषः) यह जानो (गृहाणाम्) गृहस्थों के (इष्टम्) इष्ट सुख (च) और उसकी सामग्री (पूर्त्तम्) तथा जो ऐश्वर्यादि की पूर्णता (च) और उसके साधनों का (त्रै) निश्चय करके (अश्नाति) भक्षण अर्थात् नाश करता है । इसलिये जिस गृहस्थ के समीप अतिथि उपस्थित होवे उसको पूर्व जिमा कर पश्चात् भोजन करना अत्युचित है ॥ १४ ॥

✽ इसके आगे तैत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हैं—(एवम्) इस प्रकार संन्यास ग्रहण किये हुए (तस्य) उस (विदुषः) विद्वान् संन्यासी के संन्यासाश्रमरूप (यज्ञस्य) अन्वेषे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का (यजमानः) पति (आत्मा) स्वरूप है, और जो ईश्वर, वेद और सत्यधर्माचरण, परोपकार में (श्रद्धा) सत्य का धारणरूप इदं प्रीति

काम आज्यं, मन्युः पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयिता, दक्षिणा
वाग्धोता प्राण, उद्गाता चतुरध्वर्युर्मनो, ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीत् ।
यावद् ध्रियते सा दीक्षा, यदश्नाति तद्धविर्यत्पिबति तदस्य

हे वह उसकी (पत्नी) जी है, और जो संन्यासी का (शरीरम्) शरीर है वह (इध्मम्) यज्ञ के लिये इन्धन है, और जो उसका (उरः) बसःस्थल है वह (वेदीः) कुण्ड, और जो उसके शरीर पर (लोमानि) रोम हैं वे (बर्हिः) कुशा हैं, और जो (वेदः) वेद और उनका शब्दार्थ-सम्बन्ध जानकर आचरण करना है वह संन्यासी की (शिखा) चोटी है, और जो संन्यासी का (हृदयम्) हृदय है वह (यूपः) यज्ञ का स्तम्भ है, और जो इसके शरीर में (कामः) काम हैं वह (आज्यम्) ज्ञान अग्नि में होम करने का पदार्थ है, और जो (मन्युः) संन्यासी में क्रोध है वह (पशुः) निवृत्त करने अर्थात् शरीर के मलवत् छोड़ने के योग्य है, और जो संन्यासी (तपः) सत्यधर्मानुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह (अग्निः) जानो वेदी का अग्नि है, जो संन्यासी (दमः) अधर्माचरण से इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण में स्थिर रखके चलाता है वह (शमयिता) जानो दुष्टों को दण्ड देने वाला सम्य है, और जो संन्यासी की (वाक्) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह जानो सब मनुष्यों को (दक्षिणा) अभयदान देना है, जो संन्यासी के शरीर में (प्राणः) प्राण है वह (होता) होता के समान, जो (चक्षुः) चक्षु है वह (उद्गाता) उद्गाता के तुल्य, जो (मनः) मन है वह (अध्वर्युः) अध्वर्यु के समान, जो (श्रोत्रम्) श्रोत्र है वह (ब्रह्मा) ब्रह्मा और (अग्नीत्) अग्नि लाने वाले के तुल्य, (यावद् ध्रियते) जितना कुछ संन्यासी धारण करता है (सा) वह (दीक्षा) दीक्षाग्रहण, और (यत्) जो संन्यासी (अश्नाति) खाता है (तद्धविः) वह घृतादि साकल्य के समान, (यत् पिबति) और जो वह जल दुग्धादि पीता है

सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो, यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते
 च स प्रवर्ग्यो, यन्मुखं तदाहवनीयो, या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य
 विज्ञानं तज्जुहोति, यत्सायं प्रातरंत्ति तत्समिधं,
 यत्प्रातर्मध्यन्दिनं सायं च तानि सवनानि । ये अहोरात्रे
 ते दर्शपौर्णमासौ, येऽर्द्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्यानि,
 य ऋतवस्ते पशुबन्धा, ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः,

(तदस्य सोमपानम्) वह इसका सोमपान है, और (यद्रमते) वह जो
 इधर उधर भ्रमण करता है (तदुपसदः) वह उपसद उदसामग्री,
 (यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते) जो वह गमन करता, बैठा और उठता है
 (स प्रवर्ग्यः) वह इसका प्रवर्ग्य है, (यन्मुखम्) जो इसका मुख है
 (तदाहवनीयः) वह संन्यासी को आहवनीय अग्नि के समान,
 (या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानम्) जो संन्यासी का व्याहृति का उच्चारण
 करना वा जो इसका विज्ञान आहुतिरूप है (तज्जुहोति) वह जानो होम
 कर रहा है, (यत्सायं प्रातरंत्ति) संन्यासी जो सायं और प्रातःकाल भोजन
 करता है (तत्समिधम्) वे समिधा हैं, (यत्प्रातर्मध्यन्दिनं सायं च) जो
 संन्यासी प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में कर्म करता है (तानि सवनानि)
 वे तीन सवन, (ये अहोरात्रे) जो दिन और रात्रि हैं (ते दर्शपौर्णमासौ)
 वे संन्यासी के पौर्णमासेष्टि और अमावास्येष्टि हैं, (येऽर्द्धमासाश्च मासाश्च)
 जो कृष्ण शुक्लपक्ष और महीने हैं (ते चातुर्मास्यानि) वे संन्यासी के
 चातुर्मास्य याग हैं, (ये ऋतवः) जो वसन्तादि ऋतु हैं (ते पशुबन्धाः)
 वे जानो संन्यासी के पशुबन्ध अर्थात् ६ पशुओं का बांधना रखना है,
 (ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च) जो संवत्सर और परिवत्सर अर्थात् वर्ष
 वर्षान्तर हैं (तेऽहर्गणाः) वे संन्यासी के अहर्गण दो रात्रि वा तीन रात्रि

सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं, यन्मरणं तदवभृथः, एतद्वै जरामर्य-
मग्निहोत्रं सत्रं, य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव
महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे
प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं
सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो
विद्वानभिजयति, तस्माद् ब्राह्मणो महिमानमाप्नोति, तस्माद्
ब्राह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॥

तैत्ति० प्रपा० १० । अनु० ६४ ॥

आदि के व्रत हैं, जो (सर्ववेदसं वै) सर्वस्व दक्षिणा अर्थात् शिखा सूत्र
यज्ञोपवीत आदि पूर्वाश्रमचिह्नों का त्याग करना है (एतत्सत्रम्) यह सब
से बड़ा यज्ञ है । (यन्मरणम्) जो संन्यासी का मृत्यु है (तदवभृथः)
वह यज्ञान्तस्नान है, (एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रम्) यही जरावस्था
और मृत्युपर्यन्त अर्थात् यावत् जीवन है तावत् सत्योपदेश ये गाभ्यासादि
संन्यास के धर्म का अनुष्ठान अग्निहोत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ है । (य एवं
विद्वानुदगयने०) जो इस प्रकार विद्वान् संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास
करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के महिमा को प्राप्त होकर
स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है, और जो योग विज्ञान
से रहित है सो सांसारिक दक्षिणायरूप व्यवहार में मृत्यु को प्राप्त होता
है । वह पुनः २ मातापिताओं ही के महिमा को प्राप्त होकर चन्द्रलोक के
समान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है । और जो इन दोनों के महिमाओं
को विद्वान् ब्राह्मण, अर्थात् संन्यासी, जीत लेता है वह, उससे परे
परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय पर्यन्त मोक्ष-सुख
को भोगता है ॥

अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि—

* न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माण्डम् । ब्रह्मा विश्वः कतमः
स्वयम्भूः प्रजापतिः संवत्सर इति । संवत्सरोऽसावादित्यो य
एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । याभिरादित्यस्तपति
रश्मिभिस्तामिः पर्जन्यो वर्षति, पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः
प्रजायन्त, औषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्बलं
बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा
मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन

* (न्यास इत्याहुर्मनीषिणः०) इस अनुवाक का अर्थ सुगम है इसलिये भावार्थ कहते हैं । न्यास अर्थात् जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व कह आये, उस रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक है । वह परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्यास और पूर्ण है कि जिसके प्रताप से सूर्य तपता है । उस तपने से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति की उत्पत्ति, उनसे अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से बल, बल से तप अर्थात् प्राणायाम योगाभ्यास, उससे श्रद्धा सत्यधारण में प्रीति, उससे बुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतनता, चित्त से स्मृति, स्मृति से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विज्ञान और विज्ञान से आत्मा को संन्यासी जानाता और जनता है । इसलिये अन्नदान श्रेष्ठ, जिससे प्राण बल विज्ञानादि होते हैं । जो प्राणों का आत्मा, जिससे यह सब जगत् अंत प्रोत व्यास हो रहा है । वह सब जगत् का कर्ता, वही पूर्वकल्प और उत्तरकल्प में भी जगत् को बनाता है । उसके जानने की इच्छा से उसको जान कर हे संन्यासिन् ! तू पुनः २ मृत्यु को प्राप्त मत हो, किन्तु मुक्ति से पूर्ण सुख को प्राप्त हो । इसलिये सब तपों का तप,

स्मृतिः स्मृत्या स्मारः स्मारेण विज्ञानं
 विज्ञानेनात्मानं वेदयति, तस्मादन्नं ददन्त्सर्वाण्येतानि
 ददात्यन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानां प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं
 विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः । स वा एष पुरुषः पञ्चधा
 पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च
 दिशश्चावान्तरदिशश्च, स वै सर्वमिदं जगत् स भूतः स
 भव्यं जिज्ञासकृत्स्न ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो महर्षो-
 स्तमसो वरिष्ठात् । ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न
 मृत्युषुपयाहि विद्वान् । तस्मान् न्यासमेषां तपमामतिरिक्त-
 माहुः । वसुरयवो विभूरसि प्राणो त्वमसि सन्धाता ब्रह्मस्त्व-
 मसि विश्वसृत्तेजोदास्त्वमस्यग्नेरसि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य
 युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वा
 महसे । ओमित्यात्मानं युञ्जीत । एतद्वै महोपनिषदं देवानां
 गुह्यम् । य एवं वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद् ब्रह्मणो
 महिमानमित्युपनिषत् ॥ तैत्ति० प्रपा० १० । अनु० १३ ॥

सब से पृथक्, उत्तम संन्यास को कहते हैं । हे परमेश्वर ! जो तू सब में
 चास करता हुआ विभु है, तू प्राण का प्राण, सब का सन्धान करनेहारा,
 विश्व का स्रष्टा, धर्ता, सूर्यादि को तेजदाता है । तू ही अग्नि से तेजस्वी,
 तू ही विद्यादाता, तू ही सूर्य का कर्ता, तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रका-
 शक है । वह सब से बड़ा पूजनीय देव है । (ओम्) इस मन्त्र का मन
 से उच्चारण करके परमात्मा में आत्मा को युक्त करे । जो इस विद्वानों
 की ग्राह्य महोत्तम विद्या को उक्त प्रकार से जानता है वह संन्यासी पर-
 मात्मा के महिमा को प्राप्त होकर आनन्द में रहता है ॥

संन्यासी का कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य

दृते दृष्टं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष-
न्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य
चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १ ॥ यजु० अ० ३६ । मं० १८ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
शुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ २ ॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिंकित्सति ॥ ३ ॥

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वामनुपश्यतः ॥ ४ ॥

यजु० अ० ४० । मं० १६, ६, ७ ॥

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।
उपस्थार्य प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ ५ ॥

यजु० अ० ३२ । मं० ११ ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ६ ॥

ऋ० मं० १ । स० १६४ । मं० ३६ ॥

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ७ ॥

मैत्रायणी उपनिषद् ॥

अर्थः— हे (दृते) सर्वदुःखविदारक परमात्मन् ! तू (मा)
मुझको संन्यासमार्ग में (दृष्टं), बड़ा । हे, सर्वमित्र ! तू (मित्र-
स्य) सर्व सुहृद् आत्मा पुरुष की, (चक्षुषा) दृष्टि से (मा)
मुझको सबका मित्र बना । जिससे (सर्वाणि) सब (भूतानि)

प्राणीमात्र मुझको मित्र का दृष्टि से (समीक्षन्ताम्) देखे, और (अहम्) मैं (मित्रस्य) मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (सर्वाणि भूतानि) सब जीवों को (समीक्षे) देखू । इस प्रकार आप की कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग एक दूसरे को (मित्रस्य चक्षुषा) सुहृद्भाव की दृष्टि से (समीक्षामहे) देखते रहें ॥ १ ॥

हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप सब दुःखों के दाहक (देव) सब सुखों के दाता परमेश्वर ! (विद्वान्) आप (राये) योग विज्ञानरूप धन को प्राप्ति के लिये (सुपथा) वेदोक्त धर्ममार्ग से (अस्मान्) हम को (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को (नय) कृपा से प्राप्त कीजिये, और (अस्मत्) हम से (जुहुराणाम्) कुटिल पक्ष गतसहित (पनः) अपराध पापकर्म को (युशोधि) दूर रखिये और इस अधर्माचरण से हम को सदा दूर रखिये, इसीलिये (ते) आप ही की (भूयिष्ठाम्) बहुत प्रकार (नम उक्तिम्) नमस्कारपूर्वक प्रशंसा को नित्य (विधेम) किया करें ॥ २ ॥

(यः) जो संन्यासी (तु) पुनः (आत्मन्नेव) आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही में तथा अपने आत्मा के तुल्य (सर्वाणि भूतानि) सम्पूर्ण जीव और जगतस्थ पदार्थों को (अनुपश्यति) अनुकूलता से देखता है, (च) और (सर्वभूतेषु) सम्पूर्ण प्राणी अप्राणियों में (आत्मानम्) परमात्मा को देखता है, (ततः) इस कारण वह किसी व्यवहार में (न त्रिचिकित्सति) संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात् परमेश्वरको सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी जान के अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणीमात्र का हानि लाभ सुख दुःखादि व्यवस्था में देखे, वही उत्तम संन्यासधर्म को प्राप्त हुआ है ॥ ३ ॥

(विजानतः) विज्ञानयुक्त संन्यासी का (यस्मिन्) जिस पक्षपातरहित धर्मयुक्त संन्यास में (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणीमात्र (आत्मैव) आत्मा ही के तुल्य जानना अर्थात् जैसा

अपना आत्मा अपने को प्रिय है उसी प्रकार का निश्चय (अभूत्) होता है, (तत्र) उस संन्यासाश्रम में (एकत्वमनु-पश्यतः) आत्मा के एक भाव को देखने वाले संन्यासी को (को मोहः) कौनसा मोह और (कः शोकः) कौनसा शोक होता है, अर्थात् न उसको किसी से कभी मोह और न शोक होता है, इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब से उपकार करता रहे ॥ ४ ॥

इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और धर्म में दृढ़ निष्ठा करके जो (भूतानि) सम्पूर्ण पृथिव्यादि भूतों में (परीत्य) व्याप्त, (लोकान्) सम्पूर्ण लोकों में (परीत्य) पूर्ण हो, और (सर्वाः) सब (प्रदिशो दिशश्च) दिशा और उपदिशाओं में (परीत्य) व्यापक होके स्थित है, (ऋतस्य) सत्यकारण के योग से (प्रथमजाम्) सब महत्तत्त्वादि सृष्टि को धारण करके पालन कर रहा है, उस (आत्मानम्) परमात्मा को संन्यासी, (आत्मना) स्वात्मा से (उपस्थाय) समीप स्थिर होकर उसमें (अभिसंविवेश) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥५॥

हे संन्यासी लोगो! (यस्मिन्) जिस (पश्ये) सर्वोत्तम (व्योमन्) आकाशवत् व्यापक (अक्षरे) नाशरहित परमात्मा में (ऋचः) ऋग्वेदादि वेद और (विश्वे) सब (देवाः) पृथिव्यादि लोक और समस्त विद्वान् (अधिनिषेदुः) स्थित हुए और होते हैं, (यः) जो जन (तत्) उस व्यापक परमात्मा को (न वेद) नहीं जानता वह (ऋचा) वेदादि शास्त्र पढ़ने से (किं करिष्यति) क्या सुख व लाभ कर लेगा, अर्थात् विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता, और विद्या पढ़के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता और न उसकी आज्ञा में चलता है वह मनुष्य शरीर धारण करके निष्फल चला जाता है, और (ये) जो विद्वान् लोग (तत्) उस ब्रह्म को (विदुः) जानते हैं

(ते इमे इत्) वे ये ही उस परमात्मा में (समासते) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥

(समाधिनिर्धूतमलस्य) समाधियोग से निर्मल (चेतसः) चित्त के सम्बन्ध से (आत्मनि) परमात्मा में (निवेशितस्य) निश्चल प्रवेश कराये हुये जीव को (यत्) जो (सुखम्) सुख (भवेत्) होवे वह (गिरा) घायी से (वर्णयितुम्) कथन करने को कोई भी (न शक्यते) समर्थ नहीं होता, क्योंकि (तथा) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा (तत्) उस ब्रह्म को (अन्तःकरणेन) शुद्ध अन्तःकरण से (गृह्यते) ग्रहण करता है, वह वर्णन करने में पूर्णरीति से कभी नहीं आ सकता। इसलिये संन्यासी लोग परमात्मा में स्थिर रहे और जो उसकी, आशा अर्थात् पक्षपातरहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ॥७॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य तर्बदा ॥१॥ मनु० २।१६२॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥२॥ मनु० ४।१०४

अर्थः—संन्यासी जगत् के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित होजाता है, इसलिये चाहे निन्दा हो चाहे प्रशंसा, चाहे मान हो चाहे अपमान, चाहे जीना हो चाहे मृत्यु, चाहे हानि हो चाहे लाभ, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे वैर बांधे, चाहे अन्न पान वस्त्र उत्तम स्थान न मिले या मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सब का सहन करे, और अधर्म का खंडन तथा धर्म

का मंडन सदा करता रहे, इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किसी को न माने ।

परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे, न वेदविरुद्ध कुछ माने, परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म वा स्थूल तथा जड़ और जीव को भी कभी न माने, आप सदा परमेश्वर को अपना स्वामी माने और आप सेवक बना रहे, वैसा ही उपदेश अन्य को भी किया करे । जिस २ कर्म से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्धु, बहिन, मित्र पड़ोसी, नौकर, बड़े और छोटों में विरोध छूट कर प्रेम बढ़े उस २ का उपदेश करे ।

जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बायबिल, कुरान, पुराण, मिथ्याभिलाप तथा कान्यालङ्कार कि जिनके पढ़ने सुनने से मनुष्य विषयी और पतित हो जाते हैं उन सब का निषेध करता रहे । विद्वानों और परमेश्वर से भिन्न न किसी को देव तथा विद्या योगाभ्यास सत्संग और सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ, और विद्वानों की मूर्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियों को न माने न मनवावे । जैसे ही गृहस्थों को माता, पिता, आचार्य, अतिथि, स्त्री के लिये विवाहित पुरुष और पुरुष के लिये विवाहित स्त्री की मूर्ति से भिन्न किसी की मूर्ति को पूज्य न समझावे, किन्तु वैदिकमत की उन्नति और वेदविरुद्ध पाखण्ड-मतों के खण्डन करने में सदा तत्पर रहे ।

वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में श्रद्धा किया कराया करे । आप शुभ गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया कर, और जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासाश्रम के कर्त्तव्य कर्मों को किया करे । खण्डनीय कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े । आसुर अर्थात् अपने को ईश्वर ब्रह्म माननेवालों का भी यथावत् खण्डन करता रहे । परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव

और न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे । इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्खे ।

सर्वदा (अहिंसा) निर्वैरता, (सत्यम्) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना, (अस्तेयम्) मन कर्म वचन से अन्याय करके परपदार्थ का ग्रहण न करना चाहिये, न किसी को करने का उपदेश करे, (ब्रह्मचर्यम्) सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन का त्याग रख के वीर्य की रक्षा और उन्नति करके चिरञ्जीवी होकर सब का उपकार करता रहे, (अपरिग्रहः) अभिमानादि दोषरहित किसी संसार के धनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फँसे । इन ५ (पांच) यमों का सेवन सदा किया करे । और इनके साथ ५ (पांच) नियम अर्थात् (शौच) बाहर भीतर से पवित्र रहना, (सन्तोष) पुत्रपार्थ करते जाना और हानि लाभ में प्रसन्न और अप्रसन्न न होना, (तपः) सदा पक्षपातरहित न्यायरूप धर्म का सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास करना, (स्वाध्याय) सदा प्रणव का जप अर्थात् मन में चिन्तन और उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, (ईश्वरप्रणिधान) अर्थात् अपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की आज्ञा में समर्पित करके परमानन्द परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर शरीर छोड़ के सर्वानन्दयुक्त मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य कर्म हैं ।

हे जगदीश्वर सर्वशक्तिन् सर्वान्तर्यामिन् दयालो न्याय कारिन् सच्चिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव अजर अमर पवित्र परमात्मन् ! आप अपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में प्रवृत्त रख के परममुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये ॥

इति संन्याससंस्कारविधिः



अथान्त्येष्टिकर्मविधिं वक्ष्यामः

'अन्त्येष्टि कर्म' उसको कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है, जिसके आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरुषयाग भी कहते हैं।

भस्मान्तु^५ शरीरम् ॥ यजु० अ० ४० । मं० १५ ॥

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ॥ मनु० २ । १६ ॥

इस शरीर का संस्कार (भस्मान्तम्) अर्थात् भस्म करने पर्यन्त है ॥ १ ॥

शरीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में श्मशान अर्थात् मृतक कर्म है ॥ २ ॥

(प्रश्न) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र, एकादशाह, द्वादशाह, सपिण्डीकर्म, मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये सब असत्य हैं ?

(उत्तर) हां अवश्य मिथ्या हैं, क्योंकि वेदों में इन कर्मों का विधान नहीं है इसलिये अकर्त्तव्य हैं। और मृतक जीव का सम्बन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता और न इन जीते हुए सम्बन्धियों का। वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है।

(प्रश्न) मरण के पीछे जीव कहां जाता है ? (उत्तर) यमालय को।

(प्रश्न) यमालय किसको कहते हैं ? (उत्तर) वाय्वालय को।

(प्रश्न) वाय्वालय किसको कहते हैं ?

(उत्तर) अन्तरिक्ष को, जो कि यह पोल है।

(प्रश्न) क्या गरुडपुराण आदि में यमलोक लिखा है वह भूटा है ?

(उत्तर) अवश्य मिथ्या है।

(प्रश्न) पुनः संसार क्यों मानता है ?

(उत्तर) वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से । जो यम की कथा लिख रखी है वह सब मिथ्या है, क्योंकि यम इतने पदार्थों का नाम—

षलिद्युमा ऋषयो देवजा इति ॥१॥ ऋ० मं० १। सू० १६४। मं० १५॥

शकेम वाजिनो यमम् ॥२॥ ऋ० मं० २। सू० ५। मं० १॥

यमार्य जुहुता इविः । यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः ॥३॥

ऋ० मं० १०। सू० १४। मं० १३॥

यमः सुयमानो विष्णुः सम्भ्रयमाणो वायुः पुयमानः ॥४॥

यजु० अ० ८। मं० २७॥

वाजिनं यमम् ॥ ५ ॥ ऋ० मं० ८। सू० २४। मं० २२॥

यमं मातरिभानमाहुः ॥ ६ ॥ ऋ० मं० १। सू० १६४। मं० ४६॥

यहां ऋतुओं का यम नाम है ॥ १ ॥ यहां परमेश्वर का नाम ॥ २ ॥ यहां अग्नि का नाम ॥ ३ ॥ यहां वायु, विद्युत्, सूर्य के यम नाम हैं ॥ ४ ॥ यहां भी वेगवाला होने से वायु का नाम यम है ॥ ५ ॥ यहां परमेश्वर का नाम यम है ॥ ६ ॥

इत्यादि पदार्थों का नाम 'यम' है, इसलिये पुराण आदि की सब कल्पना झूठी हैं । इसमें प्रमाण—

संस्थिते भूमिभागं खानयेदक्षिणपूर्वस्यां दिशि दक्षिणापर-
स्यां वा ॥१॥ दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणा-

प्रवणमित्येके ॥२॥ यावानुद्गाहुकः पुरुषस्तावदायामम् ॥३॥

व्याममात्रं तिर्यक् ॥४॥ वितस्त्यर्वाक् ॥ ५ ॥ केशश्मश्रुलो-

मनखानीत्युक्तं पुरस्तात् ॥ ६ ॥ द्विगुल्फं बर्हिराज्यं च ॥ ७ ॥

दध्न्यत्र सर्पिरानयन्त्येतत् पित्र्यं पृषदाज्यम् ॥ ८ ॥ अथैत

दिशमग्नीजयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ९ ॥ आश्रात्तायन गृ० अ०

४। ऋ० १। सू० ६—११, १५—१७। तथा ऋ० २। सू० १॥

जब कोई मर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्त्री हो तो स्त्रियां उसको स्नान करावें। चन्दनादि सुगन्धलेपन और नवीन वस्त्र धारण करावें। जितना उसके शरीर का भार है उतना घृत, यदि अधिक सामर्थ्य हो तो अधिक लेवें, और जो महादरिद्र भिक्षुक हो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कोई श्रीमान् वा पंच वन के आध मन से कम घी न दें। और श्रीमान् लोग शरीर के बराबर तोल के चन्दन, सेर भर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केसर, एक २ मन घी के साथ सेर २ भर अगर तगर और घृत में चन्दन का चूरा भी यथाशक्ति डाल, कपूर, पलाश आदि के पूर्ण काष्ठ, शरीर के भार से दूनी सामग्री श्मशान में पहुँचावें। तत्पश्चात् मृतक को वहां श्मशान में ले जाय। यदि प्राचीन वेदी बनी हुई न हो तो नवीन वेदी भूमि में खोदे। वह श्मशान का स्थान बस्ती से दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नैऋत्य कोण में हो। वहां भूमि को खोदे। मृतक के पग दक्षिण नैऋत्य अथवा आग्नेय कोण में रहे, शिर उत्तर ईशान वा वायव्य कोण में रहे ॥ २ ॥

मृतक के पग की ओर वेदी के तले में नीचा और शिर की ओर थोड़ा ऊँचा रहे ॥ २ ॥

उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी और दोनों हाथों को लम्बे उत्तर दक्षिण पार्श्व में करने से जितना परिमाण हो, अर्थात् मृतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी होवे ॥ ३ ॥

और नीचे आध हाथ अर्थात् एक बीता भर रहे। उस वेदी में थोड़ा २ जल छिटकावे। यदि शोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे। उसमें नीचे से आधी वेदी तक लकड़िया चिने, जैसे कि भित्ति में ईंटें चिनी जाती हैं, अर्थात् बराबर जमाकर लकड़ियां धरे। लकड़ियों के बीच में थोड़ा थोड़ा कपूर थोड़ी थोड़ी दूर

पर रखले । उसके ऊपर मध्य में मृतक को रखले अर्थात् चारों ओर वेदी बराबर खाली रहे, और पश्चात् चारों ओर और ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काष्ठ बराबर चिने । वेदी से ऊपर एक बीता भर लकड़ियां चिने ।

जब तक यह क्रिया होवे तब तक अलग चूल्हा बना, अग्नि जला, घृत तपा और छान कर पात्रों में रखले । उसमें कस्तूरी आदि सब पदार्थ मिलावे । लम्बी २ लकड़ियों में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों वा चांदी सोने के अथवा लोहे के हों, एजिल चमसा में एक छटांक भर से अधिक और आधी छटांक भर से न्यून घृत न आवे खूब दृढ़ वन्धनों से डंडों के साथ बांधे ।

पश्चात् घृत का दीपक करके, कपूर में लगाकर, शिर से आरम्भ कर पादपर्यन्त मध्य २ में अग्नि प्रवेश करावे । अग्नि अवेश कराके—

ओमग्नये स्वाहा ॥ १ ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ २ ॥

ओं लोकाय स्वाहा ॥ ३ ॥ ओमनुमतये स्वाहा ॥ ४ ॥

ओं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ ५ ॥

आश्वला० अ० ४ । कं० ३ । सू० २५-२६ ॥

इन पांच मन्त्रों से आहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होने देवे । तत्पश्चात् चार मनुष्य पृथक् २ खड़े रह कर वेदों के मन्त्रों से आहुति देते जायें, जहां 'स्वाहा' आवे वहां आहुति छोड़ दें—

अथ वेदमन्त्राः

सूर्यं चतुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वाहा ॥ १

अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः ।

यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृताम् लोकं स्वाहा ॥ २

अक्सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधामिः ।
 आयुर्वसान उप वेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा ॥३॥
 अग्नेर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सम्प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च ।
 नेत्वा धृष्णुर्हरसा जर्हृषाणो दधृग्धिघच्च्यन्पर्यङ्ख्याते स्वाहा ॥४॥
 यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः ।
 क्रियाम्बत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥५॥
 ऋ० सं० १० । सू० १६ । मं० ३—५, ७, १३ ॥
 परोपिवांसं प्रवतो महीरन्तु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।
 वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य स्वाहा ॥६॥
 यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ ।
 यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अनुस्वाः स्वाहा ॥७॥
 मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वावृधानः ।
 यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा ॥८॥
 इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ।
 आ त्वा मंत्राः कविशस्ता बहंत्वेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा ॥९॥
 अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
 विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यग्ने बर्हिष्या निषद्य स्वाहा ॥१०॥
 प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ।
 उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं स्वाहा ॥११॥
 सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्त्तेन परमे व्योमन् ।
 हित्वायाषधं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः स्वाहा ॥१२॥

अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् ।
 अहोमिराद्भिरक्रुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा ॥१३॥
 यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः ।
 यमं ह यज्ञो गच्छत्यभिदूतो अरङ्कृतः स्वाहा ॥१४॥
 यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।
 स नो देवेष्वामदीर्घमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥१५॥
 यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन ।
 इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकुद्भ्यः स्वाहा ॥१६॥
 ऋ० मं० १० । सू० १४ । मन्त्र १—२, ७, ६, १३, १५—१६ ॥
 कृष्णः श्वेतोऽरुवो यामो अस्य ब्रध्न ऋष्र उत शोणो यशस्वान् ।
 हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ॥१७॥

ऋ० मं० १० । सू० २० । मं० ६ ॥

इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने सत्रह सत्रह आज्याहुति देकर, निम्नलिखित मन्त्रों से उसी प्रकार आहुति दें—

प्राणैभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ २ ॥
 अग्नये स्वाहा ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ ॥
 वायवे स्वाहा ॥ ५ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ६ ॥
 सूर्याय स्वाहा ॥ ७ ॥ दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥
 चन्द्राय स्वाहा ॥ ९ ॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥
 अद्भ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ वरुणाय स्वाहा ॥ १२ ॥
 नाभ्यै स्वाहा ॥ १३ ॥ पूताय स्वाहा ॥ १४ ॥
 चाचे स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राणाय स्वाहा ॥ १६ ॥
 प्राणाय स्वाहा ॥ १७ ॥ चक्षुषे स्वाहा ॥ १८ ॥

संस्कारविधिः

चक्षुषे	स्वाहा ॥ १६ ॥	श्रोत्राय	स्वाहा ॥ २० ॥
श्रोत्राय	स्वाहा ॥ २१ ॥	लोमभ्यः	स्वाहा ॥ २२ ॥
लोमभ्यः	स्वाहा ॥ २३ ॥	त्वचे	स्वाहा ॥ २४ ॥
त्वचे	स्वाहा ॥ २५ ॥	लोहिताय	स्वाहा ॥ २६ ॥
लोहिताय	स्वाहा ॥ २७ ॥	मेदोभ्यः	स्वाहा ॥ २८ ॥
मेदोभ्यः	स्वाहा ॥ २९ ॥	मार्धसेभ्यः	स्वाहा ॥ ३० ॥
मार्धसेभ्यः	स्वाहा ॥ ३१ ॥	स्नावभ्यः	स्वाहा ॥ ३२ ॥
स्नावभ्यः	स्वाहा ॥ ३३ ॥	अस्थभ्यः	स्वाहा ॥ ३४ ॥
अस्थभ्यः	स्वाहा ॥ ३५ ॥	मज्जभ्यः	स्वाहा ॥ ३६ ॥
मज्जभ्यः	स्वाहा ॥ ३७ ॥	रेतसे	स्वाहा ॥ ३८ ॥
पायवे	स्वाहा ॥ ३९ ॥	आयासाय	स्वाहा ॥ ४० ॥
प्रायासाय	स्वाहा ॥ ४१ ॥	संयासाय	स्वाहा ॥ ४२ ॥
वियासाय	स्वाहा ॥ ४३ ॥	उद्यासाय	स्वाहा ॥ ४४ ॥
शुचे	स्वाहा ॥ ४५ ॥	शोचते	स्वाहा ॥ ४६ ॥
शोचमानाय	स्वाहा ॥ ४७ ॥	शोकाय	स्वाहा ॥ ४८ ॥
तपसे	स्वाहा ॥ ४९ ॥	तप्यते	स्वाहा ॥ ५० ॥
तप्यमानाय	स्वाहा ॥ ५१ ॥	तप्ताय	स्वाहा ॥ ५२ ॥
घर्माय	स्वाहा ॥ ५३ ॥	निष्कृत्यै	स्वाहा ॥ ५४ ॥
प्रायश्चित्यै	स्वाहा ॥ ५५ ॥	भेषजाय	स्वाहा ॥ ५६ ॥
यमाय	स्वाहा ॥ ५७ ॥	अन्तकाय	स्वाहा ॥ ५८ ॥
मृत्यवे	स्वाहा ॥ ५९ ॥	ब्रह्मणे	स्वाहा ॥ ६० ॥
ब्रह्महत्यायै	स्वाहा ॥ ६१ ॥	विश्वेभ्यो दंवेभ्यः	स्वाहा ॥ ६२ ॥
धावापृथिवीभ्याथै	स्वाहा ॥ ६३ ॥	यजु० अ० ३६ । मं० १-३, १०-१३॥	

इन ६३ (तिरसठ) मन्त्रों से तिरसठ आहुति पृथक् पृथक् देके, निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवें—

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः ।
 अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वाहा ॥ १ ॥
 सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।
 येभ्यो मधु प्रधावति तांभिर्देवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ २ ॥
 ये चित्पूर्वं ऋतसाता ऋतजाता ऋतानृषः ।
 ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् स्वाहा ॥ ३ ॥
 तपसा ये अनाघृष्यास्तपसा ये स्वर्गयुः ।
 तपो ये चाग्निरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ ४ ॥
 ये युद्धयन्ते प्रघनेषु शूरासो ये तनूत्यजः ।
 ये वा सहस्रदक्षिणास्तांभिर्देवापि गच्छतात् स्वाहा ॥ ५ ॥
 स्योनास्मै भव पृथिव्यनृचरा निवेशनी ।
 चच्छास्मै शर्म सप्रथाः स्वाहा ॥ ६ ॥
 अपेमं जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्ताञ्चिर्वहत परि ग्रामादितः ।
 मृत्युर्यमस्यासीद्भूतः प्रचेता असन् पितृभ्यो गमयाँचकार स्वाहा ॥ ७ ॥
 यमः परोऽवरो विवस्वान् ततः परं नाति पश्यामि किञ्चन ।
 यमे अक्षरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान स्वाहा ॥ ८ ॥
 अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वासवर्णामदधुर्विवस्वने ।
 उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहाद् द्वा मिथुना सरण्युः स्वाहा ॥ ९ ॥
 इमौ युनक्ति ते वही असुनीताय वोढवे ।
 ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्वान गच्छतात् स्वाहा ॥ १० ॥
 अथर्व० का० १८ । सू० २ । मंत्र ७, १४—१७, १९, २७, ३२—३३, ४६ ॥
 इन दश मन्त्रों से दश आहुति देकर—

संस्कारविधिः

अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १ ॥

पुरुषस्य सयावर्यपेदधानि मृज्महे ।

यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयाति स्वाहा ॥ २ ॥

तै० आ० प्र० ६ । अ० १० ॥

य एतस्य पथो गोप्तास्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥

य एतस्य पथो रक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥

य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥ ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६ ॥

अपाख्यात्रे स्वाहा ॥ ७ ॥ अभिलालपते स्वाहा ॥ ८ ॥

अपलालपते स्वाहा ॥ ९ ॥ अग्नये कर्मकृते स्वाहा ॥ १० ॥

यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥ ११ ॥ तै० आ० प्र० ६ । अ० २ ॥

अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥

तै० आ० प्र० ६ । अ० ३ ॥

आयातु देवः सुमनाभिरुतिभिर्यमो ह वेद प्रयताभिरक्ता ।

आसादताथ सुप्रयते ह बर्हिष्यूर्जाय जात्यै शत्रुहत्यै स्वाहा ॥ १३ ॥

योऽस्य कौष्ठ्य जगतः पार्थिवस्यैक इदृशी ।

यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

यमं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः ।

येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन द्यौः पृथिवी दृढा स्वाहा ॥ १५ ॥

हिरण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान् हिरण्याद्यानयःशफान् ।

अश्वाननश्शतो दानं यमो राजामितिष्ठति स्वाहा ॥ १६ ॥

यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत् ।

यमाय सर्वमित्तस्ये यत् प्राणद्वायुरक्षितं स्वाहा ॥ १७ ॥

यथा पञ्च तथा षट् यथा पञ्चदशर्षयः ।

यमं यो विद्यात् स भूयाद्यैक ऋषिर्विजानते स्वाहा ॥ १८ ॥

त्रिकट्टुकेभिः पतति षड्वीरेकमिद् वृहत् ।
 गायत्रीत्रिष्टुच्छ्रन्दार्थसि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥१६॥
 अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत् ।
 वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा ॥२०॥
 वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः ।
 ये चेह सत्येनच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥२१॥
 ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुप ।
 देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्यति स्वाहा ॥२२॥
 यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः संपित्रते यमः ।
 अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणो अनुवेनति स्वाहा ॥२३॥

उत्ते तम्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहर्था
 रिषम् । एताश्च स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्ते
 मिनोतु स्वाहा ॥ २४ ॥ तै० आ० प्र० ६ । अ० ७ ॥

यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुमियन्ति क्लृप्ताः ।
 यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूषि कल्पयैषां स्वाहा ॥२५

नहि ते अग्ने तनुवै क्रूरं चकार मृत्युः । कपिर्बभस्ति
 तेजनं पुनर्जरायुर्गौरिव । अप नः शोशुवदधमग्ने शुशुध्या
 रयिम् । अप नः शोशुवदधं मृत्युवे स्वाहा ॥ २६ ॥

तैत्ति० प्रपा० ६ । अनु० १० ॥

इन छब्बीस आहुतियों को करके, ये सब (ओम् अग्नये
 स्वाहा) इस मन्त्र से ले के (मृत्युवे स्वाहा) तक १२१ (एकसौ
 इक्कीस) आहुति हुईं। अर्थात् ४ जनों की मिल के ४८४ (चार-
 सौ चौरासी), और जो दो जने आहुति दें तो २४२ (दोसौ
 बयालीस)। यदि घृत विशेष हो तो पुनः इन्हीं एकसौ इक्कीस
 मन्त्रों से आहुति देते जायं, यावत् शरीर भस्म न हो जाय तावत् दें।

आह्वान करणाक :—

जब शरीर भस्म हो जावे पुनः सब जने वस्त्र प्रक्षालन, स्नान करके, जिसके घर में मृत्यु हुआ हो उसके घर की मार्जन, सौपन, प्रक्षालनादि से शुद्धि करके, पृष्ठ ६—१३ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण का पाठ और पृष्ठ २—६ में लि० ईश्वरोपासना करके, इन्हीं स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण के मन्त्रों से जहाँ अङ्क अर्थात् मन्त्र पूरा हो वहाँ 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण करके, सुगन्धादि मिले हुये घृत की आहुति घर में दें कि जिससे मृतक का वायु घर से निकल जाय और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे और सबका चित्त प्रसन्न रहे। यदि उस दिन रात्रि हो जाय तो थोड़ी सी आहुति देकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उसी प्रकार स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण के मन्त्रों से आहुति दें।

तत्पश्चात् जब तीसरा दिन हो, तब मृतक का कोई सम्बन्धी श्मशान में जाकर, चिता से अस्थि उठा के, उस श्मशानभूमि में कहीं पृथक् रख देवे। वस इसके आगे मृतक के लिये कुछ भी कर्म कर्त्तव्य नहीं है, क्योंकि पूर्व 'भस्मान्तश्च शरीरम्' यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका है कि दाहकर्म और अस्थिसंचयन से पृथक् मृतक के लिये दूसरा कोई भी कर्म कर्त्तव्य नहीं है। हां यदि वह सम्पन्न हो तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उसके सम्बन्धी वेदविद्या, वेदोक्तधर्म का प्रचार, अनाथपालन वेदोक्त धर्मोपदेशकप्रवृत्ति के लिये चाहे जितना धन प्रदान करें, बहुत अच्छी बात है ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द-
सरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेदविहिताचार-

धर्मनिरूपकस्य श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनः

कृता संस्कारविधिग्रन्थः पूर्तिमगात् ॥

